

लेन-देन

मूल लेखक

श्रीशरच्चन्द्र चहोपाध्याय

अनुवादक

पंडित हरिदास शास्त्री

Late Vice-Principal, A & U T College, Delhi)

श्रीर

पंडित गोपालचन्द्र वेदान्तशास्त्री

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

Published by
K. Mitra,
at The Indian Press, Ltd ,
Allahabad

Printed by
A Bose,
at The Indian Press
Benares-Branch

लेन-देन

चण्डीगढ़ की चण्डी माता बहुत प्राचीन देवी है। कल्प
 राजा वीरवाहु के किसी पूर्वज ने एक लड़ाई जीतने पर,
 रूप से, वारुई नदी के तट पर यह मन्दिर बनवाया था।
 बाद, इसी मन्दिर के सहारे, धीरे-धीरे यह चण्डीगढ़
 बन गया। शायद किसी जमाने में सारा चण्डीगढ़
 वास्तव में देवोत्तर-सम्पत्ति रहा हो, परन्तु अब तो
 के आस-पास की थोड़ी सी जमीन को छोड़कर बाकी
 श लोगों ने छीन लिया है। यह ग्राम अब बीजगाँव की
 सी में है। साधारण पाठकों को यह जानने की आवश्यक-
 हीं कि अनाथ गरीबों का धन और मूक देवता की सम्पत्ति
 प्रकार अज्ञेय रहस्यमय उपाय से अन्त में जमींदार के
 आकर समाती है। मेरा कहना इतना ही है कि चण्डी-
 अधिकांश अब चण्डी माता के हाथ से निकल गया है।
 का शायद इससे कुछ हानि-लाभ नहीं, परन्तु जो लोग
 भेवक है, उनके हृदय से यह शोभ आज तक नहीं

इसलिए उनमें लडाई-भगडा लगा रहता है और कभी-कभी तो वह भयङ्कर रूप धारण कर लेता है। बीजगाँव का जमींदार-वश अत्याचारी होने के कारण बदनाम है, परन्तु साल भर पहले सन्तानहीन जमींदार के गुजर जाने से उनके भानजे जीवानन्द चौधरी ने जिस दिन से जमींदारी का भार लिया है, उस दिन से तो छोटे-बड़े सभी किसानों का जीवन कण्टकमय हो उठा है। लोग कहते हैं कि भूतपूर्व जमींदार कालीमोहन बाबू ने भी इस आदमी के अत्याचार और उच्छृंखलता से परेशान होकर इसे त्याग देने का सङ्कल्प किया था, परन्तु एकाएक मर्मांगु ने आकर उस सङ्कल्प को कार्यरूप में परिणत नहीं होने दिया।

यही जीवानन्द चौधरी अब राज्य-परिदर्शन के बहाने चण्डीगढ़ में आये हुए हैं। गाँव के भीतर सदा से एक छोटी सी तहसीली कचहरी थी, परन्तु बाँकुडा जिले के इस पहाड़ी गाँव की आव-हवा की ख्याति के कारण और खासकर इस रेतीली वारुई नदी के जल के अत्यन्त रुचिकर होने से, जीवानन्द के नाना राधामोहन बाबू ने गाँव के बाहर, नदी के किनारे, शान्तिकुञ्ज नाम से एक सुन्दर बंगला बनवाया था। वे उसमें कभी-कभी आकर रहते भी थे। परन्तु उनके पुत्र कालीमोहन बाबू ने अपने जीवन में कभी इसमें पैर नहीं रक्खा। अतः एक समय जिस भवन में सौन्दर्य, ऐश्वर्य और मर्यादा थी—चारों ओर का वाग दिन-रात फल-फूलों से हरा-भरा रहता था—वही, दूसरे के हाथ में पककर, देख-रेख

दू. ने से विकृतो वीरान हो गया है । न उनमें माली है, न कोई रक्षक ही । आस-पास में मनुष्यों की बस्ती भा नहीं । केवल वारुण नदी के सूखे किनारे पर एक टूटा-फूटा विशाल मनु-अङ्गल के भीतर, पूर्व-गौरव को छोड़कर सुनसान सत्राटे में खड़ा है । पता नहीं कि कब से यहाँ कोई आया-गया नहीं है, किन्तु कचहरी के प्रधान कर्मचारी मालिकों के यहाँ बराबर भूठी इतला भेजते रहे हैं ।

ऐसी दशा में एकाएक एक दिन तीसरे पहर नये जमींदार का दो पियादों को साथ लेकर गाँव में कचहरी के सामने आ गये, परन्तु पालकी से नहीं उतरे, सिर गुमाश्त एककौड़ी नन्दी को बुलाकर कह दिया कि हम शान्तिकुख में थोड़े दिन ठहरेंगे । आज्ञा देकर वे अपने गन्तव्य स्थल को चल दिये । डर के मारे एककौड़ी के मुँह पर कालिमा छा गई । शायद शान्तिकुख में जाने का रास्ता भी न हो, वहाँ के किवाड़ों, जंगलों और चौखट को चोर चुरा ले गये हो, शायद वहाँ फरों में जङ्गली जानवरों का अड्डा जम गया हो । एककौड़ी को पता ही न था कि वहाँ क्या है और क्या नहीं ।

इस सन्ध्या समय नौकर चाकर कहाँ मिलेंगे, दिया-पत्ती का इन्तजाम कैसे होगा, और खाने-पीने का बन्दोबस्त ही वह वहाँ से करेगा,—एकाएक वह क्या करे, किसकी शरण ले—इसी चिन्ता में उसको शरीर भारी मालूम होने लगा, सिर में चक्कर आने लगा । नौकरी तो गई ही,—वह चली जाय,

पर उनके शरीर काँपने लगे । आठ-दस बीघे तक जङ्गल था, इसलिए रास्ता भी बम नहीं और उसको पार कर जाना भी सहज नहीं था । कहीं दिया भी दिखाई नहीं देता था । सिर्फ चदूतरे के एक तरफ जहाँ कहार लोग पालकी उतारकर बैठे हुए तमाखू पी रहे थे उसी के पास जलती हुई लकड़ी से कुछ प्रकाश मालूम होता था । खबर पाकर नौकर आया और एककौड़ी को कमरे के अन्दर ले गया । कमरे भर में शराब की बू भरी हुई थी, एक कोने में मोमवत्ती टिमटिमा रही थी, दूसरी तरफ एक टूटे पलंग पर विस्तरा बिछा हुआ था जिस पर बीजगाँव के जमींदार जीवानन्द चौधरी बैठे हुए थे । वे बहुत ही दुबले और गोरे थे । उनकी उम्र का अन्दाजा लगाना कठिन था, क्योंकि अत्यधिक अत्याचार से चेहरा सूखकर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था । सामने शराब से भरा शीशे का गिलास और उसी के पास एक अजब ढङ्ग की शीशे की बोतल थी जो प्रायः खाली हो गई थी । तकिये के नीचे से नेपाली खुकरी का कुछ हिस्सा दिखाई देता था और उसी के पास एक खुले बक्स के अन्दर दो पिस्तौल रखे हुए थे ।

एककौड़ी दण्डवत् कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ।

मालिक ने कहा—तुम्हीं एककौड़ो नन्दी हो ? क्या तुम्हीं यहाँ के गुमाशते हो ?

डर के मारे एककौड़ी का कलेजा काँपने लगा । उसने रुकते और काँपते हुए कण्ठ से सिर हिलाकर कहा—जी हुजूर ।

उसने सोचा था कि अब इस मकान की घात उठेगा, परन्तु मालिक ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। यही पूछा—तुम्हारे इस दफ्तर की आमदनी कितनी है ?

एककौड़ी—करीब पाँच हजार रुपया है, सरकार।

“कोई पाँच हजार ? बहुत अच्छा, मैं सात-आठ दिन यहाँ रहूँगा। इसको अन्दर मुझे दस हजार रुपया चाहिए।”

एककौड़ी—जो हुकम।

मालिक ने कहा—अच्छा, कल सबेरे तुम्हारे दफ्तर में जाकर बैठूँगा। सबेरे यानी दस-ग्यारह बजे। उससे पहले मेरी नोंद नहीं खुलती। तुम पहले से ही काश्तकारों को खबर दे देना।

एककौड़ी ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा—“जो हुकम।” क्योंकि यह कहने की जरूरत नहीं कि मालगुजारी के सिवा इतना अधिक रुपया वसूल करने के गुरु भार से उसने अपने को विपन्न नहीं समझा। वह प्रसन्न चित्त से बोला—मैं आज रात को ही चारों ओर आदमी भेज दूँगा, जिससे कोई कह न सके कि समय पर खबर नहीं मिली।

जीवानन्द ने सिर हिलाकर सम्मति दी और शराब के प्याले को मुँह से लगाकर एक ही घूँट में खाली कर दिया। उसे धीरे-धीरे रखते हुए कहा—एककौड़ी, तुम्हारे यहाँ शायद विलायती शराब की दूकान नहीं है। अच्छा कुछ चिन्ता नहीं है। जितनी मेरे साथ है उसी से इतने दिनों का काम चल जायगा, परन्तु मोशत मुझे रोज चाहिए।

एककौड़ी तैयार ही था, बोला—यह क्या बडो बात है सरकार। चण्डी माता का ताजा महाप्रसाद प्रतिदिन हुजूर के यहाँ आ जाया करेगा।

हुजूर ने खुश होकर “बहुत अच्छा” कहा। इसके बाद बोतल से थोड़ी सी शराब गिलास में ढालकर पी ली और मुँह पोछते हुए कहा—और भी एक बात है एककौड़ी।

एककौड़ी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसने कहा—फरमाइए।

जीवानन्द ने दो-चार लौंगें मुस में ढालकर कहा—देखो एककौड़ी, मैंने शादी नहीं की है और शायद करूँगा भी नहीं।

एककौड़ी चुप हो रहा। तब इस शराबी जर्मींदार ने खुरी हँसी हँसकर कहा—परन्तु इसलिए मैं भीष्मदेव—तुमने महाभारत पढा है न? उसमें का भीष्मदेव—वनकर नहीं बैठा हूँ और शुकदेव भी नहीं वन गया हूँ। मेरा मतलब समझ गये न एककौड़ी? वही मुझे चाहिए।

एककौड़ी ने शर्म के मारे नीचा सिर कर थोड़ा सा कन्धा हिलाया, मुँह से जवाब नहीं दिया। गुमाश्ते को भी जिस निर्लज्जता-पूर्ण उक्ति से शर्म मालूम हुई, उसे जर्मींदार ने न केवल बिना किसी भिन्नक के कही दिया, बल्कि उसमें उसे लज्जा के लायक कुछ मालूम ही नहीं हुआ। उसने यह भी कह दिया कि औरों की तरह मैं इन बातों को नौकर से कहलाना पसन्द नहीं करता, उससे धोखा खाना पडता है। अच्छा अब

जाओ। कहारों के खाने-पीने का इन्तजाम कर देना—वे ताड़ो-ऊड़ो भी पीते होंगे, उसका भी ध्यान रखना। अच्छा जाओ।

एककोड़ी ने सिर हिलाकर स्वाकृति दी। अब वह दण्डवत् कर बाहर जाने को था कि जमींदार ने पूछा—इस गाँव में कोई बड़भाश किसान तो नहीं है ?

एककौड़ी लौटकर खड़ा हो गया। उसके चित्त में बहुत दिनों का एक जखम था। मालिक के पूछने से उसमें चोट लगी। परन्तु उसने दर्द को दबाकर उदास स्वर से उत्तर दिया—ऐसा तो कोई नहीं है—सिर्फ तारादास चक्रवर्ती है—लेकिन वह तो हुजर का किसान नहीं है।

“यह तारादास है कौन ?”

एककौड़ी ने कहा—गढचण्डो का महन्त है।

इन महन्तों के साथ जमींदारी के सिलसिले में एककौड़ी का अब तक बहुत लड़ाई भगडा ही चुका है, परन्तु इसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं था। लेकिन दो साल पहले एक पुराने कटहल के पेड़ के बावत जो भगडा हुआ था उसकी जलन एककौड़ी के हृदय से अभी तक नहीं मिटी है, क्योंकि उस पेड़ के तख्तों की जरूरत उसे अपने घर के लिए थी। इस भगडे में आखिर उसी को दबना पडा और छिपकर आपस में ही सुलह कर लेनी पडी।

एककौड़ी कहने लगा—क्या कहें सरकार, सदर में अर्जी भेजने से ठीक हुक्म नहीं होता। दीवानजी कुछ ध्यान ही

नहीं देते, नहीं तो चक्रवर्ती को सीधा करने में, कितनी देर लगती ? परन्तु मैं यह भी अर्ज करता हूँ सरकार कि लापर-वाही करने से ये लोग हमारे किसानों को भी उभाड़ देंगे— तब गाँव का इन्तजाम करना कठिन हो जायगा ।

जमींदार को नशा चढ़ रहा था । उसने उदास और जकड़े हुए स्वर से पूछा—तुमने तो अकेले तारादास का ही नाम लिया एककौड़ी, फिर ये लोग कहाँ से आ गये ?

एककौड़ी ने उत्तर दिया—चक्रवर्ती की लडकी भैरवी है । वैसे चक्रवर्ती खुद उतना बुरा आदमी नहीं है, परन्तु असली सत्यानाशिन तो उसकी लडकी है । दुनियाँ भर के बदमाश गुण्हे उसके गुलाम हैं ।

जमींदार के कानो में शायद सब बातें नहीं पहुँचीं । उसने चीण स्वर से कहा—हो सकता है । उसकी उम्र कितनी है ? सूरत शकल कैसी है ?

एककौड़ी ने कहा—उम्र वाईस-तेईस के करीब होगी । और चेहरे की बात क्या कहूँ, लडाके सिपाही की सूरत समझिए । न तो औरत की सी शकल है और न वैसा वर्ताव है । मानो हथियार बाँधे लडाईं करने को तैयार है । इसी से तो लोग समझते हैं कि यही साचात् गढ की चण्डी हैं ।

जीवानन्द एकाएक सीधा होकर उठ बैठा । उत्साह और कौतूहल से लाल-लाल आँखें फाड़कर बोला—क्या कहा तुमने ? जरा खोलकर कहो तो सुनूँ । देखने में गँवार की तरह

हो सकती है, परन्तु ठै तो वह गृहस्थ ब्राह्मण की ही लडकी न । तब सत्यानाशिन वह कैसे हो गई और बदमाश गुण्डों का दल भी उसके साथ कैसे जुट गया ?

“इसमें आश्चर्य की बात क्या है हुजूर ।” यह कहकर एककौडी ने भैरवी का जो किस्सा सुनाया उसका सारांश यह है—

एककौडी कहने लगा—भैरवी किसी का नाम नहीं, यह तो चण्डीगढ की प्रधान सेविका की उपाधि है । वर्तमान भैरवी का नाम षोडशी है और इसके पहले जो भैरवी थी उसका नाम था मातङ्गिनी भैरवी । देवी की आज्ञा है कि उनके सेवक पुरुष नहीं हो सकते । यह पद चिरकाल से स्त्रियों के ही अधिकार में है । पन्द्रह-सोलह वर्ष पहले एक दिन अचानक खबर मिली कि मातङ्गिनी भैरवी के पति का स्वर्ग-वास हो गया है । जाँच-पड़ताल के बाद जब यह खबर सत्य प्रमाणित हुई तब मातङ्गिनी को पद-त्याग कर काशी चला जाना पडा ।

जीवानन्द अब तक चुपचाप सुन रहा था, आश्चर्य में आकर उसने पूछा—क्या विधवा होने से भैरवी का पद छिन जाता है ?

एककौडी—हाँ, हुजूर ।

“क्या इसी से उसने अपने पति को अज्ञातवास करने भेज दिया था ?”

एककौड़ी ने कहा—सिवा इसके और उपाय ही न था । देवी की आज्ञा है कि विवाह की तीन ही रात के बाद भैरवी पति को स्पर्श भी न करे । इसी लिए दूर से किसी गरीब के लडके को लाकर, विवाह करा करके, दूसरे ही दिन रुपया-पैसा देकर बिदा कर दिया जाता है । इसके बाद कोई उसकी छाया तक नहीं देख सकता । यहाँ का यही नियम है । ऐसा ही बराबर होता आया है ।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—क्या कहते हो एककौड़ी ? विनकुल देश-निकाला ! चण्डी की भैरवी है—रात को एकान्त में पति को गिलास भरकर शराब देना, गर्म मसाले से छोंका हुआ महाप्रसाद पकाकर खिलाना—कुछ भी नसीब नहीं होता ?

एककौड़ी ने सिर हिलाकर कहा—नहीं हुजूर, माता की भैरवी पति को छू तक नहीं सकती । परन्तु पति के सिवा क्या गाँव में आदमी नहीं हैं ? मातङ्गिनी भैरवी को देखा है, पोउशी भैरवी को भी देख रहा हूँ । लोग क्या ऐसे ही उसके पीछे पड़े रहते हैं और बात-बात में हुजूर के साथ मुकदमे लड़ते हैं ?

जीवानन्द ने हँसकर कहा—महन्तिन है न ? परन्तु मातङ्गिनी के बाद यह कहा से आ गई ?

एककौड़ी ने कहा—चक्रवर्ती थे मातङ्गिनी के भातजे । ढाका या प्रैग कहीं किसी महाजन की गर्दा पर मुनीमत करते

थे, चिट्ठो पात ही चले आये। साथ में एक नव दस वर्ष की लडकी भी थी। कहीं से एक दुलहा भी हूँड लाये। कौन जाति, किसका लडका, कहाँ घर, कौन जाने, रातो-रात विवाह कराकर विदा कर दिया। इसके बाद गद्दी पर बैठकर मजे में राजभोग कर रहे हैं। कौन क्या कहे, कौन क्या पूछे ? गाँव में भी आदमी नहीं है, राजा का शासन भी नहीं है। इतना कहकर उसने जमींदार पर इशारा किया। परन्तु उधर देखा तो मालूम हुआ कि उसका ताना मारना व्यर्थ हुआ। राजा आँसे मूँदे खरटि ले रहा है। देर तक कुछ बातचीत नहीं हुई—उसकी गलती से कहीं नोंद न टूट जाय, इस डर से वह कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ा हुआ मन ही मन शरावियों का श्राद्ध करने लगा और सोचने लगा कि चुपके से निकल जाऊँ या नहीं कि इतने में जीवनानन्द स्वाभाविक मनुष्य की तरह बोल उठा—पन्द्रह वर्ष पहले न ? अच्छा यह तारादाम क्या खूब नाटा और गोरा है ?

एककौड़ी—नहीं हुआ, चक्रवर्ती का रङ्ग गोरा है मही, परन्तु वे बहुत लम्बे हैं।

“लम्बा है ? अच्छा तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि यह आदमी ढाका में महाजन की गद्दी पर बही-खाता लिखता था ? यह भी तो हो सकता है कि कलकत्ते में रसोइये का काम करता रहा हो।”

एककौड़ो ने सिर हिलाकर कहा—नहीं हुजूर, वे तो सच-मुच बही-खाता लिखते थे। वहाँ उनकी छ महीने की तन-स्वाह बाकी थी। मैंने ही दावा करने का डर दिखाकर खत-किताबत करके रुपया वसूल करा दिया था।

जीवानन्द ने कहा—तुम्हारा ही कहना सच होगा। अच्छा, क्या इसी आदमी ने किसी किसान के उजाड़ने के मुकदमे में मामा के खिलाफ गवाही दी थी ?

एककौड़ी जोर से सिर हिलाकर बोला—हुजूर की नजर से कुछ छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, ये वही तारादास हैं।

जीवानन्द ने धीरे-धीरे सिर हिलाते हुए कहा—उस वार बहुत रुपये के फेर में डाल दिया था। इन लोगों के पास कितनी जमीन है ?

एककौड़ी मन में हिसाब जोड़कर बोला—पचास साठ बीघे से कम न होंगे।

जीवानन्द तनिक चुप रहकर बोला—कल तुम खुद जाकर कह देना कि मुझे बीघे फोछे दस रुपये नजराना चाहिए। मैं आठ दिन ठहरूँगा।

एककौड़ी सकुचाते हुए बोला—वह तो माफ़ी है, देवोत्तर है सरकार।

“नहीं, इस गाँव में माफ़ी जमीन एक बिता भी नहीं है। नजराना न देने से सब जन्त हो जायगी।”

एककौड़ी कुछ उत्तर न देकर चुपचाप खड़ा रहा। वह चक्रवर्ती को नहीं 'दयता था, वह तो उसकी लडकी लडाकू सिपाही पोडशी भैरवी की बात याद कर खर रहा था। जर्माँदार तो एक दिन यहाँ से चले जायँगे, परन्तु उसको तो इसी गाँव में रहना पडेगा। एक बार उसने दवती जवान से कहा भी—परन्तु हुजूर—

उसका कहना वहा रुक गया। हुजूर ने बोच में हा रोकर कहा—मैं किन्तु परन्तु नहीं सुनना चाहता। मुझे रुपये की जरूरत है—मैं पाँच-छ सौ रुपया छोड नहीं सकता, वह उन्हें देना हों पडेगा। फल चक्रवर्ती को खर देना कि कचहरी में हाजिर हो। दस्तावेज वगैरह कुछ हो तो साथ लेता आवे। रात हो गई है, अब तुम जा सकते हो। आद-मियो के खाने-पीने का इन्तजाम कर देना। घर लौटने पर मैं तुम्हारा खयाल रक्खूँगा।

“हुजूर माँ बाप हैं” कहकर एककौड़ी फिर दण्डवत् प्रणाम कर धीरे-धीरे वहाँ से निकल आया।

२

जर्माँदार जीवानन्द चौधरी को चण्डोगढ में कदम रखते कुल पाँच ही दिन हुए हैं, इतने ही समय के भीतर सारा गाँव उनके अनाचार और अत्याचार से मानों जन्नकर खाक होने को है। नजराने का रुपया वमून हो रहा है, परन्तु किस

प्रकार हो रहा है यह बात जमींदार की नौकरी किये बिना समझने की कोशिश करना भी पागलपन है ।

तारादास चक्रवर्ती ने जमींदार की आज्ञा से पहले दिन हाजिर होकर नजराना देने से इनकार किया, छ घण्टे तक कड़ो धूप में खड़े रहकर भी स्वीकार नहीं किया । परन्तु सबके सामने कान पकड़कर उठने-बैठने, घुड़दौड़ और मेढक का नाच नचाने के प्रस्ताव से वे धैर्य नहीं रख सके । चण्डी माता से मन ही मन जमींदार के वगलोप की प्रार्थना कर, और रुपया अदा करने के लिए पाँच दिन की मुहलत लेकर वे घर लौट आये । वह दिन आज है, परन्तु सबेरे से ही उनका कहीं पता नहीं मिल रहा है ।

प्रतिदिन देवी का महाप्रसाद पहुँचाया गया, तालाब की मछलियाँ, बगीचे के फल मूल, कद्दू-कौहडा आदि जमींदार के लोग लूट-खसोटकर ले गये । पोटशी ने रोकना चाहा, परन्तु तारादास ने किसी बात में उसे कुछ कहने नहीं दिया, उसका हाथ पकड़ रो-धोकर किसी तरह उसे रोक रक्खा । पिता के अपमान से लेकर ये सब अत्याचार इतने दिन तक सह लेने पर भी आज की घटना से उसका सारा सञ्चित क्रोध क्षण भर में ज्वालामुखी की तरह भडक उठा । पिता के एकाएक छिप जाने तथा उसके अवश्य होनेवाले परिणाम के बोझ को उसका मन आज उठा नहीं सकता था । इसी तरह सुबह और दोपहर बौतकर शाम हो चली, तब रात के अँधेरे में

भूरे पिता के लौट आने की आशा से वह कुछ रसेई करने बैठी थी कि इतने में मन्दिर की परिचारिका ने आकर जिस अत्याचार का वर्णन किया वह यह है—

मतवाले जर्माँदार पर यह धुन सवार हुई है कि अब वह 'निषिद्ध' मांस तो कभी खायगा ही नहीं और 'वृश्चा' मांस भी नहीं खायगा। बकरे का मांस काफी स्वादिष्ट और रुचिकर नहीं होता, इसलिए जर्माँदार के लोगों ने डोमडों की वस्ती से एक 'गसी' बकरा पकड़ लाकर पुजारी से उसे महाप्रसाद बना देने को कहा। पुजारी पहने तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, परन्तु अन्त में ग्राज्ञा मानकर, उसी का बलिदान देकर, उसे महाप्रसाद बना दिया।

सुनते ही पोडशो चूल्हे से देगची को नीचे पटककर, क्रोध में जल भुनकर, तुरन्त मन्दिर की ओर चल पटी। फाटक पर चार पाँच जवान रास्ता रोककर खड़े हो गये। विश्वम्भर दूर से मकान दिखाकर सटक गया। ये लोग जर्माँदार के पालकी ढोनेवाले कहार हैं। मुँह से ताड़ी की बदबू निकल रही है, आँखें लाल-लाल हैं, अस्तव्यस्त दशा है। एक ने पूछा—साला पण्डित घर में है? साला रुपया नहीं देगा, भागता फिरता है।

पोडशो ने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं है। कहीं ये मतवाले पशु उसी का अपमान न कर बैठे, इस डर से उसने अपने प्रचण्ड क्रोध को जी-जान से रोककर धीरे से कहा—नहीं, पिताजी घर में नहीं हैं।

“कहाँ पर छिपा हुआ है ?”

“मैं नहीं जानती,” कहकर पोडशो के एक तरफ से निकल जाने की चेष्टा करते ही उसने हाथ फैलाकर एक बहुत बड़ी गाली देकर कहा—“नहीं है तो तू चल । नहीं चलेगी तो गले में अँगौछा डालकर खाँच ले जाऊँगा ।

इस अपमान के कारण पोडशो से धीरज धरते नहीं बना । उसने जोर से बमकाकर कहा—“सरदार जो बाहियात बात मुँह से निकाली । चल, मैं ही चलती हूँ । देखूँ तेरा पियक्कड़ मालिक मेरा क्या कर सकता है ।” वह परिणाम-भयहीन पगली की तरह स्वयं आगे बढ़ चली ।

रास्ते में दो एक परिचित आदमियों से भेंट हुई, परन्तु पोडशो ने उधर ताका तक नहीं । जमींदार के आदमी पीछे-पीछे हँसा करते हुए आ रहे थे । यह नहीं कि देहाती लोगों को इसका मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु इस हालत में किसी की सहायता माँगकर इतने बड़े अपमान को अपने मुँह से चारों ओर प्रकट करने की इच्छा उसको नहीं हुई ।

कचहरी बहुत दूर नहीं थी, एकसौड़ी सामने ही था ।
“देखते ही वह बोल उठा—“मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता । सरदारजी, इन्ने टुजूर के पास ले जाओ ।” यह कहता हुआ वह “शान्ति-कुटीर” की ओर उँगली उठाकर झटपट भीतर घुस गया ।

अर अपनी विपत्ति के गुरुत्व को समझकर पोडशी भीतर ही भीतर काँप उठा ।

जाने का स्थान मालूम होते हुए भी उसने पूछा—कहाँ जाना होगा ?

उस आदमी ने एकमौड़ी के दिखाये रास्ते की ओर इशारा करके कहा—चल ।

वहाँ जाना अवश्य ही पड़ेगा, यह ममझकर भी उसने कहा—मेरे साथ तो रुपया-पैसा है नहीं सरदार । सरदार के पास मुझे ले जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा ?

परन्तु सरदार रुढ़कर जिससे यह प्रार्थना की गई उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि इसके उत्तर में नाक-भासिकोडकर धमकाकर कहा—चल-चल ।

पोडशा ने और कुछ नहीं कहा । ये आदमी जमादार के साथ बाहर से आये हुए हैं । उनको क्या मानूँ कि पोडशी की कैसी क्या मर्यादा है । इस कारण रुपये के लिए या लगान वसूल करने के लिए मामूली किसानों के साथ जैसा वर्ताव करने की इनको आदत पडी है और जिनमें ये खी या पुरुष का कुछ खयाल ही नहीं करते, उसमें यहाँ भी कुछ रद्दोबदल न होगा । प्रार्थना-विनती यहाँ निष्फल है, रोने-धोने से भी कोई मदद करने नहीं आवेगा । कहना न मानने से रास्ते में ही ये खींचा-तानी करने लगेंगे । आम रास्ते पर के अपमान का वह बीभत्स चित्र, मुँह बाँधकर, मानों

उसे सामने की ओर ढकेलकर लिये जा रहा था। रास्ते में गडरियों के लडके गाय-भैंस लेकर घर लौट रहे थे। किसान दिन भर का काम करके सिर पर बोझ लिये घर जा रहे थे, सब लोग पोढ़शी की ओर एकटक देख रहे थे। उसने किसी की ओर ताका नहीं, किसी से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। वह मन ही मन कहने लगी—भगवती वसुन्धरे, दो टुकड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में समा जाऊँ।

सूर्य अस्त हो गये, अँधेरा घिर आया। कल की पुतली की तरह वह चुपचाप शान्ति कुटीर के फाटक के अन्दर घुस गई। उसने ठहरने या एतराज करने की कोशिश तक न की।

जिस कमरे में उसे पहुँचाया गया, वह वही कमरा था जहाँ उस दिन एककौड़ी आकर डर से कॉप उठा था। वैसा ही कूड़ा पड़ा था, वैसी ही शराब की बदबू आ रही थी। चारों ओर सफेद, काली, लम्बी, छोटी हर तरह की शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। सिरहाने की ओर, दीवार में, दो चमकीली कटारें लटक रही थीं। एक कोने में एक बन्दूक रक्खी हुई थी। हाथ के पास, टूटी सी तिपाई पर, दो पिस्तौल रक्खे हुए थे। सामने के वरामदे में किसी जङ्गली जानवर का कच्चा चमड़ा छत में लटक रहा था, बीच बीच में उसकी बदबू आती थी। शायद थोड़ी ही देर पहले गोली से एक गौदड़ मारा गया है, वह अभी तक फर्श पर

पडा हुआ है। उसके खून से कुछ स्थान रँग गया है। पलंग पर लेटा हुआ जमींदार कोई पुस्तक देख रहा था। सिरहाने के पास, एक मोटी जिल्ददार पुस्तक पर, मोमवत्ती जल रही थी। उसके उजाले में एकाएक बहुत सी चीजें पोटशी ने देखीं। चदर न रहने से, विस्तरे पर, शायद कीमती शाल बिछाया गया था, उसी का कुछ हिस्सा जमीन पर लटक रहा था। सोने की घड़ी के ऊपर रखे अधजने सिगरेट से धुएँ की सूक्ष्म रेखा घूम-घूमकर ऊपर उठ रही थी। पलंग के नीचे एक चाँदी के वर्तन में जूठी हड्डियाँ शायद सुनह से ही पड़ी हुई थीं। उसी के पास बूटीदार किनारेवाली रेशमी चदर पडो हुई थी। सामने हाथ पोछने का रूमाल या अँगोछा न रहने के कारण शायद इसी से हाथ पोछे गये हैं।

पुस्तक की आड में रहने से पोटशी जमींदार का चेहरा देख नहीं सकी, परन्तु वह उसके सामने दर्पण की तरह स्पष्ट प्रतीयमान होने लगा। इसका कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, शर्म या मङ्गोच भी नहीं है—यह तो निर्दयता की मूर्ति है। इसके क्षण भर के प्रयोजन के सामने किसी का कोई मूल्य या मर्यादा नहीं है। इस पिशाचपुरी के भीतर, इस मतवाले आदमी के कब्जे में, अपने को अकेली पाकर क्षण भर के लिए पोटशी की तमाम इन्द्रियाँ निस्तब्ध हो गईं।

आहत पाकर जमींदार ने पूछा—कौन है ?

वाहर से सरदार ने सत्तेप से घटना का वर्णन करके, चक्रवर्ती को भद्दी गाली देकर, कहा—टुजूर, उसकी घेटी को पकड लाया हूँ ।

“किसको ? भैरवी को ?” कहकर जीवानन्द, तड-फडाकर उठ बैठा । शायद उसने ऐसा हुक्म नहीं दिया था । परन्तु दूसरे ही क्षण में कहा—अच्छा किया । अच्छा जा ।

उन लोगों के चले जाने पर जीवानन्द ने पोडशी से पूछा—तुम्हारे आज रुपया देने की बात थी । लाई हो ?

पोडशी का गला रँध गया, आवाज नहीं निकली । जीवानन्द ने थोड़ी देर इन्तिजार करके कहा—लाई नहीं हो, जानता हूँ । परन्तु क्यों नहीं लाई ?

अब पोडशी ने जी-जान से कोशिश करके जवाब दिया । धीर-धीरे कहा—हमारे पास नहीं है ।

“नहीं है तो सारी रात तुम्हें नौकरों के घर में रहना पडेगा । उसका अर्थ जानती हो ?”

दरवाजे के चौखट को दोनों हाथों से जोर से पकडकर पोडशी आँसे मूँदे हुए चुपचाप खटी रही । उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ भी अमम्भव नहीं है ।

पोडशी के पीले चेहरे को दूर से ही शायद जीवानन्द ने देख लिया । वह मूच्छा से बचने की चेष्टा कर रही थी, शायद यह भी जीवानन्द को अज्ञात न रहा, कोई मिनिट भर तक

वह भी वेसुध सा बैठा रहा । फिर वह एकाएक बत्ती हाथ में लेकर उस मुर्दे की तरह बेहोश-सी खड़ी खो के मुँह के पास आकर खड़ा हो गया और आरती के पहले पुजारी जैसे दिया जलाकर मूर्ति का मुख देखा करते हैं वैसे ही यह महा-पातकी इस सन्यासिनी की बन्द आँखों की ओर चुपचाप गम्भीरता-पूर्वक एकटक देखता हुआ उसकी गोरुए रङ्ग की धोती, उसकी बिजरी हुई लटों, उसके पीले होठों और उसकी सबल नीरोग तथा सुगठित देह सभी को मानो अपनी आँखों फाड़-फाड़कर निगलने लगा ।

३

खी का एक प्रकार का रूप है जिसे पुरुष, यौवन के उस पार पहुँचे बिना, कभी देख नहीं सकता । वही अपूर्व नारी-रूप आज पोडशा की तैलहीन उलझी हुई लटों में, उपवास से सूखी हुई उसकी कठोर देह में, प्रवृत्ति को रोकने के उसके रूपरेपन में—उसके अङ्ग अङ्ग में—यही पहले-पहल जीवानन्द की नजर के सामने प्रकट हुआ ।

दोम वर्ष तक जिसने नारी के शरीर के साथ उच्छृङ्खल भाव से बे-रोक टोक वीभत्स लीला की है, कितनी शोभा, कितनी लज्जा और कितनी माधुरी को इस व्यभिचार के भँवर में डुबा दिया है, उसका जरा सा दाग तक इस पाखण्डों के मन में नहीं है, उसी लहलहाती खालसा की लहर के सामने

जब आज एकाएक रुकावट आ पड़ी तब, कुछ क्षण के लिए, इस अनजान अचम्भे में उसकी मतवाली विकृत दृष्टि स्तब्ध, गम्भीर और आविष्ट हो गई।

भैरवी घूँघट नहीं काढती, वह खुले सिर, आँखें मूँदे, मुँह नीचा किये वेहोश सी खड़ी रह गई। जीवानन्द ने चुपचाप लौटकर बत्ती रस दी। वह बोतल से प्याला भर-भरकर शराब पीने लगा।

कोई पन्द्रह मिनट इस तरह चुपचाप बात जाने पर वह अचानक सीधा होकर उठ बैठा। शायद अब उसने अपने भीतर के सोये हुए पशुभाव को, चाबुक मार-मारकर, उत्तेजित कर लिया है।

उसने पूछा—तुम्हारा नाम तो पोडशी है न ?

इस तरफ से कुछ जवाब न मिला।

जीवानन्द ने फिर पूछा—तुम्हारी उम्र कितनी है ?

इसका भी कोई उत्तर न पाकर उसका स्वर कठिन हो उठा। कहा—चुप रहने से कोई लाभ न होगा। जवाब दो।

पोडशी ने बड़ी मुशकिल से धीरे से कहा—मेरी उम्र अट्ठाइस वर्ष की है।

जीवानन्द ने कहा—अच्छा, जैसी खबर मिली है वह अगर सच है तो इस उन्नीस-बीस वर्ष से तुम भैरवी का काम कर रही हो। अब तक बहुत रुपया इकट्ठा किया होगा। तब दे क्यों नहीं सकोगी ?

पोडशो ने वैसे ही धीरे-धीरे उत्तर दिया—आपसे तो पहले ही कह दिया कि मेरे पास रुपया नहीं है।

इस शद्धित मृदु स्वर में भी जो सत्य की दृढता थी वह जर्मींदार के कानों में खटकी। उसने इस घात पर और तर्क नहीं किया, कहा—अच्छा, तो और दस आदमी जैसा कर रहे हैं, वही करो। जिन लोगों के पास रुपया है उनके यहाँ जमीन जायदाद रेहन रखकर दो या बेंचकर दो।

पोडशो बोली—वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जमीन उनकी है। परन्तु देयता की सम्पत्ति रेहन रखने या बेंचने का तो मुझे अधिकार नहीं है।

जीवानन्द ने तनिक चुप रहकर एकाएक हँसकर कहा—लेने का ही क्या मुझे अधिकार है? एक कौड़ो भी नहीं। तो भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है। ससार में यह 'जरूरत' ही असली अधिकार है। तुम्हें भी जब देने की जरूरत है, तब—समझ गई ?

पोडशो चुपचाप खड़ी रही। जीवानन्द कहने लगा—मालूम होता है कि तुम कुछ पढी लिखी हो, अगर ऐसा हो तो जर्मींदार के रुपये की वसूली में और हुज्जत न करना। दे देना।

पोडशो अत्र थोड़ा साहस पाकर, मुँह उठाकर, बोली—क्या उसे आप जर्मींदार का प्राप्य कहते हैं ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं, मैं प्राप्य नहीं कहता हूँ, वह तुम्हारा देय है यही कहता हूँ। तुम कहेगी, और और

जमींदारों को तो नहीं देना पड़ा। उसका कारण यह है कि वे मेरे ऐसे सरल नहीं थे। उन्होने स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया, परन्तु धीरे-धीरे सारे गाँव पर ही दखल कर लिया। उनकी समझ एक तरह की थी, मेरी दूसरी तरह की है। जो हो, अब इतनी रात में क्या अकेली घर जा सकोगी ? जैसे आदमियों के साथ तुम आई हो, उन्हें मैं साथ नहीं करना चाहता।

इतनी देर की बातचीत से पोडशी को यहाँ का भय भी कुछ कम हो गया था। वह विनय के साथ बोली—आपका हुक्म हो तो जा सकती हूँ।

जीवानन्द ने अचम्भे में आकर कहा—‘अकेली ? इस अँवैरी रात में ? बड़ा कष्ट होगा।’—यह कहकर वह हँसने लगा।

उसकी बात और हँसने का ढङ्ग इतना स्पष्ट था कि पोडशी को जो आशङ्का घट रही थी वह अब चौगुनी होकर लौट आई। उसके सिर हिलाकर, क्षीण स्वर से ‘मुझे अभी जाना ही होगा’ कहकर, आगे कदम बढ़ाते ही जीवानन्द ने मुसकराते हुए कहा—अच्छा, न हो रुपया न देना पोडशी। उसके सिवा आगे भी बहुत तरह के सुभीते—

परन्तु प्रस्ताव समाप्त नहीं होने पाया। इसके मुँह से अपना नाम सुनते ही पोडशी अचानक जोर से सिर हिलाकर बोली—‘आपका रुपया आपका सुभीता आपके ही

पास रहें, मुझे जानें दीजिए ।” अब वह पैर बढ़ाकर आगे बढ़ी । परन्तु जिन आदमियों को साथ देने की हिम्मत यह आदमी (जीवानन्द) भी नहीं कर रहा था उन्हीं को सामने, झाड़ी दूर पर, बैठे देखकर वह खुद ही ठहर गई ।

जर्मादार ने न तो उसके वाक्य का प्रतिवाद किया और न कार्य का ही, उसके मुँह पर तो अँधेरा छा गया ।

क्षण भर चुप रहकर उसने पूछा—तुम शराब पीती हो ?
पोडशी—नहीं ।

जीवानन्द ने पूछा—सुना है, दो-एक पुरुष तुम्हारे अन्त-रङ्ग मित्र हैं । क्या यह सच है ?

पोडशी वैसे ही सिर हिलाकर बोली—बिलकुल झूठ ।

जीवानन्द ने क्षण भर चुप रहकर फिर प्रश्न किया—
तुम्हारे पहले की सब भैरवियाँ शराब पिया करती थीं न ?

पोडशी—हाँ ।

जीवानन्द—मातङ्गी भैरवी का चरित्र अच्छा नहीं था—
अभी तक उसके गवाह हैं । यह सच है या झूठ ?

पोडशी शर्म से सिकुडकर मृदु स्वर से बोली—सच ही
सुना है ।

जीवानन्द—सुना है न ? अच्छा । तब तुम्हीं क्यों एकाएक
दल छोड़कर, परम्परा छोड़कर, इस तरह अच्छी हो पडी हो ?

इसके उत्तर में पोडशी यही कहना चाहती थी कि अच्छा
होने का अधिकार सभी को है, परन्तु अचानक एक कठोर

कण्ठस्वर ने उसे बीच में ही रोक दिया। जमोंदार जीवानन्द सीधा बैठकर बोला—स्त्रियो से मैं न तो कभी बहस हो करता हूँ और न कभी उनका मतामत हो जानना चाहता हूँ। तुम अच्छी हो या बुरी, इसका विचार करने के लिए बाल को खाल निकालने का भी मुझे अनकाश नहीं। मेरा कहना है कि चण्डोगढ़ की और-और भैरवियों का जीवन जिस तरह बीता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन बात जाना ही अच्छा है। तुम्हें आज की रात इसी मकान में रहना पड़ेगा।

हुक्म सुनकर पोडशी को मानों काठ मार गया। जीवानन्द कहने लगा—तुम्हारे लिए न मालूम मैंने इतना कैसे सह लिया। अगर और कोई इतनी बेअदबी करती तो अब तक उसे नोकरों के घर में भेज देता। ऐसी बहुतेरियों को भेज चुका हूँ।

सुनने से ही मालूम होता है कि यह अर्थ-हीन वँदर-घुडकी नहीं है। पोडशी एकाएक रो पड़ी। गले में आँचल डालकर उसने हाथ जोड़े और गिडगिडाते हुए कहा—मेरा जो कुछ है वह सब लेकर आज मुझे छोड़ दीजिए।

जीवानन्द ने पल भर चुप रहकर उसकी ओर देखते हुए कहा—बतलाओ न, किसलिए? मेरे सामने ऐसा रोना भी कुछ नई बात नहीं है, इस तरह की प्रार्थना भी नई नहीं सुन रहा हूँ। परन्तु उन सबके पति-पुत्र थे—उनका कुछ कारण समझ में भी आता है।

उन स्त्रियों के पति-पुत्र थे । सुनकर पोडशी काँप उठा । जीवानन्द कहने लगा—परन्तु तुम्हारे पीछे तो वह सब भ्रष्ट नहीं है । पन्द्रह-सोलह वर्ष के अन्दर तो तुमने अपने पति को आँस से देखा तक नहीं है । इसके सिवा तुम लोगों को तो इसमें कुछ दोष भी नहीं ।

पोडशी हाथ जोड़े खड़ी थी । वह रोती हुई बोली—पति की मुझे याद नहीं है सही, परन्तु वे हैं तो । मैं आपसे सच कहती हूँ, आज तक मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है । कृपया मुझे छोड़ दीजिए ।

जीवानन्द ने जोर से पुकारा—महावीर ।

डर से काँपती हुई पोडशी बोली—मेरी आप जान ले सकते हैं, परन्तु—

जीवानन्द ने कहा—अच्छा, वह घमण्ड उन लोगों के घर में जाकर करना । महावीर—

पोडशी धरती पर लोटकर रो-रोकर कहने लगी—जीते-जी मुझे कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता । मेरी जो कुछ दुर्दशा होनी हो—जितना अत्याचार होना हो—वह आपके ही सामने हो । आप अभी तक ब्राह्मण हैं, आप आज तक भलेमानुस ही हैं ।

इतना बड़ा अभियोग सुनकर भी जीवानन्द हँसने लगा । वह हँसी जैसी कठोर थी वैसे ही निष्ठुर थी । उसने कहा—तुम्हारी बात सुनने में तो बुरी नहीं लगती । परन्तु रत्नाई देखकर मुझे दया नहीं आती । रोना मुझे बहुत सुनना पड़ता

है। स्त्रियों के ऊपर मुझे तनिक लोभ नहीं है। अच्छों नहीं लगती तो नौकरों को दे देता हूँ। तुम्हें भी इन्हीं के सपुर्द कर देता, पर आज ही शायद पहले-पहल थोड़ी सी ममता आ गई है। मालूम नहीं, क्या बात है। नशा उतरे बिना मालूम न होगा।

महावीर ने दरवाजे के पास जाकर आवाज दी—हुजूर।

जीवानन्द ने सामने के किवाड़ की ओर उँगली से इशारा करके कहा—इसे आज रात भर उस कमरे में बन्द रखो। कल फिर देखा जायगा।

पोहशी रोती हुई बोली—मेरे सर्वनाश का खयाल कर लीजिए हुजूर। कल तो मैं मुँह दिखाने लायक न रह जाऊँगी।

जीवानन्द ने कहा—दे-एक दिन ऐसा होगा। उसके बाद मुँह दिखाने में न भिन्नकोगी। लिवर (यकृत) का वह दर्द आज बहुत बढ गया है। अब ज्यादा दिक न करो, जाओ।

महावीर ने जोर से तान्कीद करके कहा—अरी, उठ न साली, चल।

यह बात पूरी होते न होते ही दोनों चौक उठे। जीवानन्द ने धमकाकर कहा—“खबरदार, सुधर के बच्चे, तमीज से बात कर। अगर फिर कभी मेरी आज्ञा के बिना किसी औरत को पकड़ लायगा तो गोलों से मार डालूँगा।” इतना कहते-कहते वह सिरहाने के तकिये को पेट के नीचे खाँचकर, औंधे मुँह, बिस्तरे पर लोट गया और पेट की व्यथा

से हाय-हाय करके बोला—आज उस कमरे में बन्द रहो, कल तुम्हारे सतीपन की जाँच पड़ताल की जायगी। ऐ, ले जा न इसे मेरे सामने से।

महावीर ने धीरे-धीरे कहा—चलिए।

पोडशी खड़ी होकर चुपचाप, आज्ञा के अनुसार, पास के अँधेरे कमरे में जा रही थी। अचानक उसका नाम लेकर जीवानन्द ने कहा—जरा ठहरो, तुम पढ़ना जानती हो न ?

पोडशी मृदु स्वर से बोली—जी हाँ।

जीवानन्द ने कहा—तो एक काम कर दो। वह जो सन्दूक रक्खा है, उसके भीतर एक छोटा सा कागज का घक्स है। उसमें छोटी-बड़ी शीशियाँ रक्खी हुई हैं, जिस पर 'मरफिया' लिखा है उसमें से जरा सी नौद की दवा ख जाओ। परन्तु बहुत होशियारी से, वह भयानक विष है। महावीर, बत्ती दिखा।

बत्ती की रोशनी में पोडशी ने काँपते हुए हाथ से सन्दूक खोलकर शीशी निकाल ली और डरते हुए पूछा—कितना दूँ ?

जीवानन्द ने तीव्र व्यथा से फिर एक अव्यक्त ध्वनि करके कहा—कह तो दिया कि बहुत थोड़ा सा। मैं उठ ही नहीं सकता, हाथ का भरोसा नहीं है और आँग भी ठिकाने नहीं है। उसी में एक शीशे की सीप है, उसके आधे से भी कम देना। जरा सा ज्यादा हो जायगा तो तुम्हारी चण्डी का घाप भी आकर इस नौद को तोड़ नहीं सकेगा।

पोडशी ने सीप ढूँढ ली, परन्तु परिमाण का निश्चय करने में उसका हाथ काँपने लगा। इसके बाद बहुत यत्न से, वहीं सावधानी से, जब वह वताई हुई दवा लाकर उसके पास आ खड़ी हुई, तब जीवानन्द ने हाथ पसारकर वह जहर ले लिया और बिना ही देखे-भाले मुँह में डाल लिया। न प्रश्न किया, न जाँच की और न आख खोलकर देखा ही।

४

बगलवाले अंधेरे कमरे में पहुँचाकर, बाहर से दरवाजा बन्द करके, महावीर चला गया, परन्तु भीतर से बन्द करने का कोई उपाय न देख पोडशी उन्हीं बन्द किवाड़ों में पीठ लगाये हुए बड़ी सावधानी से बैठी रही। उसका शरीर और मन दोनों ही श्रान्ति और अवसाद की अन्तिम सीमा तक पहुँच गये थे। शायद रात में और किसी विपत्ति की आशङ्का नहीं थी, फिर भी एकदम सो जाने से भी तो नहीं चलेगा। यहाँ जरा सी शिथिलता को भी स्थान नहीं है—यहाँ सोलहो आने अमम्भव घटना के लिए भी उसे सब तरह जाग्रत रहना होगा।

किसी तरह रात बीतने पर भी कल उसके सतीत्व की बड़ी कठिन परीक्षा होगी, यह उसने अपने कानों से सुना है और इससे बचने का उपाय भी उसे अभी तक अज्ञात है।

अपने पिता को याद करते उसे ढाढस तो क्या बँधता, उलटी लज्जा आने लगी। उन्हे वह अच्छी तरह जानती थी,

वे जैसे डरपोक हैं वैसे ही नीच प्रकृति के हैं। गहरी रात में घर आने पर यह दुर्घटना जानकर भी वे शायद इसे जाहिर न करेंगे—बल्कि सामाजिक गडबडों के डर से वे इसे दबा देने की ही चेष्टा करेंगे। मन में यही सोचेंगे कि पोडशी को एक दिन जर्मीदार छोड़ ही देगा, परन्तु इस बात का अधिक आन्दोलन करने से यदि देवोत्तर-सम्पत्ति से ही हाथ धोना पड़े तो लाभ की अपेक्षा नुकसान का ही पलड़ा भारी हो जायगा। अधिकन्तु, नजराने के रुपये के विषय में भी उनकी तीव्र दृष्टि बहुत दूर तक बढ़ जायगी, यह भी पोडशी को स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसके सिवा इस दुर्दान्त जर्मीदार के विरुद्ध वे कर ही क्या सकेंगे। छ सात कोस के अन्दर कोई धाना या चौकी भी नहीं—पुलीस में रपट लिखाने के लिए जितने धन, समय और जननल की आवश्यकता है उसमें से कुछ भी तारादास के पास नहीं है। इसलिए अत्याचार कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस प्रबल शक्ति के सामने उसे सिर झुकाकर सह लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। यही पोडशी की आँसों के आगे बार-बार दिखाई देने लगा।

इन सारी दुश्चिन्ताओं के भीतर और एक प्रकार की चिन्ता की धारा पोडशी के अन्तःकरण में लगातार बह रही थी, वह है उसकी चण्डो माता, जिनकी पूजा वह बचपन से करती आई है। परन्तु वह जो आदमी उस कमरे में गहरी नींद सो रहा है, जिसकी गम्भीर और भारी श्वास का अस्पष्ट शब्द

उसके कानों तक पहुँच रहा है—धर्म और अधर्म, भला और बुरा, अपना और पराया—ससार की सारी वस्तुओं पर उसकी कैसी गहरी भ्रवहेला है। वियों को आँसू देखने से उसको दया नहीं आती, नारी के रूप या यौवन से उसको ममता या लालच नहीं है, पति-पुत्रवाली सती के सतीत्व की वृथा हत्या करने में वह जरा भी नहीं हिचकता, सती नारी के हृदय के खून से दोनों पाँव डूब जाने से भी वह कुछ परवा नहीं करता—उसने अपने प्राण तक अभी मेरे हाथ में सौंपकर मेरे दिये हुए जहर को आँसू मूँदकर पी लेने से जरा भी सङ्कोच नहीं किया, रक्तों भर आनाकानी नहीं की, अश्रद्धा और अनासक्ति के इस पत्थर के बोझ को हटाकर क्या चण्डी माता ही मेरे परित्राण का मार्ग खोल देगी ?

इस तरह वह जिधर देखने लगी, गहरें अंधेरे के सिवा प्रकाश की क्षीण रश्मि भी नजर न आई। तब उसके उस एक मात्र देवता के मन्दिर के चारों ओर पूर्ण निराशा कल्पना का जाल बुनने लगी।

सबरे पहर शायद उसे कुछ तन्द्रा आ गई थी, अचानक पोथ पर दबाव मालूम होते ही वह तडफडाकर उठ बैठी। उसने देखा कि जँगले से सूर्य की किरणें कमरे में आ रही हैं।

बाहर से जो दरवाजे को टकेल रहा था, उसने कहा—
आप बाहर आ जाइए, मैं एकमौटो हूँ।

पोडशी अपनी धोती सम्हालकर गडो हो गई । उसने किवाड़ खोलकर देखा कि सामने ही, रात के उसी विस्तरे पर, जीवानन्द उसी तरह तकिया के सहारे बैठा है । कल बत्ती की धीमी रोशनी में उसके चेहरे को पोडशी अच्छी तरह देख नहीं सकी थी, परन्तु आज पल भर की दृष्टि से ही उसने देखा कि बहुत दिनों के लगातार अत्याचार से उसके अङ्ग-अङ्ग में कितनी गहरी चोट लगी है । 'उम्र का ठोक अनुमान करना कठिन है—शायद चालीस या उससे भी अधिक हो—माथे के दोनों ओर के कुछ बाल पक गये हैं, चौड़े माथे में 'ऊँट रेखाएँ' हैं, उनी के ऊपर काले-काले दाग हैं । चय रोगी की आँखों की तरह दृष्टि अत्यन्त तीव्र है और उसी के नीचे शीर्ष लम्बी नारु नीचे की ओर झुक आई है । चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, और भीतर की किसी अव्यक्त व्यथा से उसके मुँह पर झल्लिमा छा गई है ।

जीवानन्द ने हाथ से इशारा करके चीण स्वर से कहा—
डरो मत, इधर आओ ।

पोडशी धीरे-धीरे दो-चार कदम आगे बढ़कर नीचो नजर किये हुए खड़ी हो गई । जीवानन्द ने कहा—पुलीसवालों ने मकान घेर लिया है । मैजिस्ट्रेट साहब फाटक के भीतर घुस आये हैं—अब आते ही होंगे ।

पोडशी भीतर ही भीतर चौंक उठी, परन्तु कुछ बोली नहीं । जीवानन्द कहने लगा—“जिले के मैजिस्ट्रेट ने दौरे

के लिए निकलकर यहाँ से कोस भर की दूरी पर रोमा लगाया था, तुम्हारे पिता ने कल रात को ही उनसे मिलकर सब बतला दिया है। इसी से नौवत यहाँ तक नहीं पहुँची है वरिष्ठ के० साहव खुद ही मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं। गत वर्ष दो बार मुझे फँसाने की कोशिश की थी, पर कामयाबी नहीं हुई। आज एकदम प्रमाण सहित पकड़ लिया है”— इतना कहकर वह जरा सा मुसकुराया।

एककौड़ी एक ओर चुपचाप खड़ा था। डर के मारे उसका मुँह सूख गया था, उसने कहा—टु जूर, अबकी शायद मेरे भी बचने की आशा नहीं है।

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—‘सम्भव है।’ फिर पोडशी से कहा—बदला लेना चाहो तो अच्छा मौका है। मुझे कैद भी करा सकती हो।

पोडशी ने जवाब देने के लिए मुँह उठाते ही देखा कि जीवानन्द उसके मुँह की ओर एकटक देख रहा है। उसने नीची नजर करके धीरे-धीरे पूछा—इसमें जेल क्यों होगा ?

जीवानन्द ने कहा—कानून है। इसके सिवा के० साहव के कब्जे में आ गया हूँ। वादुडवागान की ‘मेस’ में रहते समय इन्हीं के यहाँ वीम रोज हिरासत में भी रह चुका हूँ। किसी हालत में जमानत नहीं ली। और तब जामिन होता ही कौन ?

पोडशी अचानक व्यग्र कण्ठ से पूछ बैठो—क्या आप कभी वादुडवागान की ‘मेस’ में भी थे ?

जीवानन्द ने कहा—हाँ । मैं उस समय एक प्रेमकाण्ड का दूत बन गया था, परन्तु आयन घोष ने नहीं माना, पुलिस में पकड़वा दिया । जाने दो, वह बहुत लम्बी कथा है । के० साहब मुझे भूले नहीं हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं । आज भी मैं भाग जाता, परन्तु 'लिवर' के दर्द से लाचार हूँ, हिलने तक की शक्ति नहीं है ।

पोडशी ने धीरे-धीरे पृच्छा—तो क्या कल का दर्द अभी तक घटा नहीं है ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं, बहुत बढ गया है । इसके सिवा यह दर्द अच्छा होने का भी नहीं ।

पोडशी तनिक ठहरकर बोली—तो मुझसे क्या करने के लिए कहते हो ?

जीवानन्द ने कहा—यही कह देना कि तुम यहाँ अपनी इच्छा से आई हो, और अपनी इच्छा से ही यहाँ हो । मैं इसके बदले मैं तुम्हारे पास मन्दिर की सारी सम्पत्ति बना रहने दूँगा, हजार रुपया नरुद दूँगा, और नजराने के रुपये लेने की तो अब कुछ बात ही नहीं है ।

एककांडी शायद इन्हीं बातों को दुहराना चाहता था, परन्तु पोडशी के चेहरे को और देखकर एकाएक रुक गया । पोडशी मीधे जीवानन्द के मुँह पर नजर रखकर बोली—इस बात को मान लेने का अर्थ आप समझते हैं ? उसके बाद

भी क्या आपको विश्वास है कि जमीन-जायदाद या धन सम्पत्ति पर मेरा अधिकार रहेगा ?

जीवानन्द के चेहरे का रङ्ग उड़ गया । उस पीले चेहरे की तीव्र आँखों में न जाने कहाँ से गत रात्रि की तरह कोमल और मुग्ध दृष्टि मानो धीरे-धीरे लौटकर स्थिर हो गई । बहुत देर तक उसने एक भी बात नहीं कही । इसके बाद धीरे-धीरे सिर हिलाकर कहा—वही ठीक है, पोडशी, वही ठीक है । जन्म भर मे तो तुमने कभी पाप नहीं किया, यह तुमसे न हो सकेगा ।

जरा हँसकर फिर कहा—रुपये-पैसे के बदले अपनी इज्जत-आवरु वेंची नहीं जा सकती, इसको मानो मैं भूल ही गया था । अच्छा, तुम सच बात ही कहना,—जमींदार को ओर से अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा ।

एककौड़ी धवराकर फिर कुछ कहना चाहता था परन्तु बाहर के बन्द किवाड़े पर बार-बार हाथ के आघात के शब्द से इस बार भी वह कुछ बोल न सका । उसका चेहरा सूखकर तनिक सा रह गया ।

जीवानन्द ने आवाज देकर कहा—“खुला है, भीतर आइए ।” दूसरे ही क्षण खुले दरवाजे के सामने दिखाई पडे, कुछ पुलिस कर्मचारियों के पीछे खुद जिले के मैजिस्ट्रेट और उनके कन्धे के ऊपर से तारादास चक्रवर्ती भाँकते हुए । उन्होंने रोते-रोते भीतर घुसकर कहा—हुजूर, धर्मावतार, यही

मेरी बिटिया चण्डी माता की भैरवी, है। आपकी कृपा न होती तो अब तक रुपये के लिए यह मार डाली गई होती।

के० साहस ने पोडशी को नख से शिर तक बार बार देखकर पूछा—तुम्हारा ही नाम पोडशी है ? तुम्हीं को घर से पकड़ लाकर इन्होंने बन्द कर रक्खा है ?

पोडशी सिर हिलाकर बोली—नहीं, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। किसी ने मेरे शरीर को हाथ से छुआ तक नहीं।

चक्रवर्ती चिन्नाहट मचाकर कहने लगा—नहीं हुजर, सरासर झूठ है। तमाम गाँव के लोग गवाह हैं। मेरी लडकी रसोई बना रही थी। जमादार के आठ-दस नोकर जाकर इसे घर से मार-पीट करके पकड़ लाये हैं।

मैजिस्ट्रेट ने जीवानन्द की ओर तिरछी नजर से देखकर फिर पोडशी से कहा—तुम बरो मत। सच-सच कहो। तुम्हें घर से ये लोग पकड़ लाये हैं ?

‘नहीं, मैं खुद आई हूँ।’

“यहाँ तुम्हें क्या काम था ?”

“मुझे काम था।”

साहन ने मुमकुराकर पूछा—सारी रात ही काम था ?

पोडशी उसी तरह सिर हिलाकर शान्त मृदु स्वर से बोली—जी हाँ, मुझे रात भर ही काम था। इनके एका-एक बीमार हो जाने के कारण मैं लौटकर घर नहीं जा सकी।

तारादास ने चिल्लाकर कहा—विश्राम न कीजिए टुजूर, सब भूठ है। बनाया हुआ मामला है, शुरू से अख़्तार तक सिपाई हुई बात है।

उसकी ओर खयाल न कर साहब जरा सा मुसकुराये। उन्होंने सुसकारते हुए पहले बन्दूक की, उसके बाद दोनों रिवाल्वरों की अन्धी तरफ़ जाँच करके जीवानन्द से कहा—‘शायद इनके रखने की आपको इजाजत है।’ इसके बाद वे धीरे-धीरे घर से निकल गये।

बाहर से उनकी आवाज सुनाई दी—‘मेरा घोड़ा लाओ।’ इसके बाद घोड़े की टापी की आहट से मालूम पडा कि मैजिस्ट्रेट साहब मकान से चले गये।

५

मैजिस्ट्रेट साहब के घोड़े की टापी का शब्द क्रमशः अस्पष्ट हो गया। पुलिस के अफसर ने भी सिपाहियों को घेरा उठा लेने का इशारा किया। अब तारादास की हालत उसके ही सामने प्रकट हो पडी। अब तक मानो वह मोह के गहरे कुहरे में खडा था, अचानक प्रचण्ड सूर्यकिरणों से तमाम वाष्प उड गई और दु स का उन्मुक्त आकाश चारों ओर व्याप्त हो गया। जहाँ तरु दृष्टि जाती है कहीं छाया, आश्रयस्थल या छिपने की जगह नहीं है—केवल वह है और उसकी मृत्यु सामने खडी होकर दाँत निकाल-निकालकर हँस रही है।

अकस्मात् आशातीत रूप से जिलाधीश का अनुग्रह और अनुकम्पा प्राप्त कर वह फूला न समाता था। उसने सोचा था कि इस अत्याचारी मतवाले को न केवल गिरफ्तार ही करवा दूँगा, बल्कि मेरा भाग्य भी जाग उठेगा। लक्ष्मी के वर-हस्त की दम उँगलियों की सन्धियों से जो वस्तु गिरेगी वह जर्मींदारवश का सत्यानाश तो करेगी ही, साथ ही वह मेरी जमीन-जायदाद को बचाकर तपये-मुहरो का ढेर लगा देगी। उसे यही आशङ्का हो रही थी कि वे लोग शायद ठीक समय पर पहुँच न सके, पहले से खबर देकर जर्मींदार को कोई सावधान न कर दे। इधर उनकी चिन्ता, परिश्रम और उत्साह की कोई सीमा न थी। यह नहीं कि इस काम की विफलता का दण्ड भी उसने सोचा नहीं था, परन्तु वह निष्फलता जब इधर से आ पहुँचा, षोडशी के हाथ के आघात से ही जब कामना का इतना बड़ा पथर का महल नींव सहित धूल में मिल गया तब तारादास पहले तो खूब चिल्लाया, उसके बाद कुछ देर तक बावले की भाँति चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक गला फाड़कर रो उठा और सबको चकित करता हुआ पुलीस अफसर के पैरों के नीचे गिरकर बोला—यानू माहव, मेरा क्या होगा। मुझे तो अब जर्मींदार के लोग जिन्दा गाँउ देंगे।

इन्स्पेक्टर साहब अधिक उमर के सज्जन थे। उन्होंने हाथ पकड़कर चमत्तों को उठाया और ठाढ़म घँघाकर सदय

कण्ठ से कहा—डरने की कुछ जरूरत नहीं। पण्डितजी, आप जैसे थे वैसे ही जाकर रहिए। खुद मैजिस्ट्रेट साहब आपके सहायक हैं। कोई आप पर जुल्म नहीं करेगा।

अब उन्होंने जरा तिरछी नजर से जीवानन्द की ओर ताका। तारादास ने आँसू पोंछते हुए धवराकर कहा—साहब तो चिढ़कर चले गये।

इन्स्पेक्टर मुसकुराते हुए बोले—“नहीं पण्डितजी, साहब नाराज नहीं हुए हैं। लेकिन मालूम होता है कि आज की इस दिल्ली की वे जल्दी नहीं भूलेंगे। इसके सिवा हम लोग भी मरे नहीं हैं, कैसा ही क्यों न हो, एक धाना भी है।” इन्स्पेक्टर ने एक बार फिर जमींदार के पलंग की ओर तिरछी नजर से देख लिया। उनके इस इशारे का मतलब चाहे जो रहा हो, किन्तु जमींदार की तरफ से इसका कुछ जवाब नहीं आया। क्षण भर चुप रहकर उन्होंने कहा—चलिए पण्डितजी, चले बहुत दूर जाना भी तो पड़ेगा।

सब-इन्स्पेक्टर साहब की उम्र कुछ कम है। उन्होंने तनिक हँसकर कहा—पण्डितजी क्या अकेले ही जायेंगे ?

इस बात से सभी हँस पड़े। दरवाजे के पास दो पहरेदार खड़े थे, वे भी मुँह फेरकर हँसने लगे। यहाँ तक कि लाल मुँह करके एककौड़ी भी छत की कडी देखने लगा।

इस कुत्सित-इङ्गित से तारादास के आँसू सूखकर आँसों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वह पोडशी की ओर कठोर

दृष्टि से देखकर गरज उठा—जाना होगा तो अकेला ही जाऊँगा। अब कभी उमका मुँह देखूँगा? फिर कभी उसे मकान में घुसने दूँगा?

दारोगा साहब ने हँसकर कहा—मुँह चाहे आप न भी देखें, इसके लिए कोई आपको कमम नहीं देगा, परन्तु जिसका मकान है उसी को घुसने न देकर फिर नये फसाद में न फँसिएगा।

तारादास भुँभुनाकर कहने लगा—“मकान किसका है? मकान तो मेरा है। मैंने ही उसे भैरवी बनाया है, मैं ही उसे निकाल बाहर करूँगा। कुञ्जी इस तारादास के हाथ में है।” अब वह जोर से अपनी छाती ठोकता हुआ बोला—नहीं तो कौन है वह, जानते हैं आप? सुनिएगा उमकी माँ की—

इन्स्पेक्टर ने रोककर कहा—“ठहरिए, पण्डितजी ठहरिए। क्रोध के मारे पुलीस के सामने सब बातें न कहनी चाहिए। उससे आफत में पड सकते हो।” पोडशी की ओर देखकर उन्होंने कहा—तुम जाना चाहो तो हम, लोग तुम्हें आराम से घर पहुँचा देंगे। चलो, देर मत करो।

पोडशी अब तरु सिर झुकाये चुपचाप सही थी। उसने गरदन हिलाकर ‘नहीं’ कहा। पुलीस के छोटे अफसर ने मुसकुराकर पूछा—तो क्या जाने में कुछ देरी है?

पोडशी ने मुँह उठाकर देखा, परन्तु जनाब दिया इन्स्पेक्टर साहब को ही। कहा—आप लोग जाइए, मेरे जाने में अभी विलम्ब है।

“विलम्ब है, हरामजादी ! मैंने अगर तेरा खून न कर डाला तो मैं मनोहर चक्रवर्ती का लडका ही नहीं !” कहकर तारादास पागल की तरह उछलकर सचमुच ही उसे सरत चोट पहुँचा देता, परन्तु इन्स्पेक्टर साहब ने उसे पकड़ लिया और धमकाकर कहा—फिर तुमने अगर ज्यादाती की तो तुम्हें पकड़कर थाने में ले जाऊँगा । भले आदमी की तरह घर चले जाओ ।

अब वे चक्रवर्ती को प्रायः खींचते हुए ले गये । परन्तु तारादास ने उनके हित वाक्यों पर ध्यान ही नहीं दिया । जहाँ तक सुनाई दिया, वह जोर-जोर से पोडशी की माता के सम्बन्ध में निन्दा करता हुआ और उसकी बहुत जल्दी हत्या करने की कसम खाता हुआ उनके साथ चला गया ।

सभी पुलीसवाले चले गये या कहीं कोई छिपा बैठा है, इसका पता लगाने के लिए धूर्त एककौडी चुपचाप पैर दबा-दबाकर बाहर गया । उसके जाने पर जीवानन्द ने इशारे से पोडशी को नजदीक बुलाकर स्त्री कण्ठ से पूछा—तुम इन लोगों के साथ गई क्यों नहीं ?

पोडशी ने उत्तर दिया—मैं इनके साथ आई जो नहीं थी ।

जीवानन्द ने तनिक ठहरकर कहा—तुम्हारी सम्पत्ति की दस्तबन्दारी लिये देने से दो-चार रोज की देर होगी, परन्तु नरुद रुपया क्या आज ही ले जाओगे ?

पोडशी—अच्छा दीजिए ।

जीवानन्द ने विस्तरे के नीचे से नोटों का षण्डल निकाल लिया। उन्हें गिनते हुए पोडशी के मुख की ओर बार-बार देखकर उसने हँसकर कहा—मुझे किसी काम में शर्म नहीं आती, परन्तु इन्हे तुम्हारे हाथ में देने में मुझे भी भँप सी मालूम हो रही है।

पोडशी शान्त और नम्र स्वर से बोली—परन्तु शर्त तो देने की ही थी।

जीवानन्द के पीले चेहरे पर क्षण भर के लिए लज्जा की लाल आभा झलक आई, उसने कहा—शर्त कुन्त्र भी रही हो, किन्तु मुझे गिरपतारी से बचाने के लिए तुमने आज जो चीज खो डाली है, उसका दाम रुपये से ठहराया गया सोचते हुए मुझे अपने ऊपर जो धिक्कार आ रहा है, उससे तो मेरी गिरपतारी ही अच्छी थी।

जर्मींदार के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमाकर पोडशी बोली—परन्तु स्त्रियों का मूल्य तो आप बराबर इसी से ठहराते आये हैं।

जीवानन्द उत्तर न देकर चुपचाप बैठा रहा। पोडशी ने कहा—अच्छी बात है, यदि आपका वह मत आज बदल गया है तो रुपया रहने दीजिए। आपको कुछ भी न देना पड़ेगा। परन्तु क्या मुझे आप मचमुच अभी तक पहचान नहीं सके? अच्छी तरह नजर डालकर पहचानिए तो।

जीवानन्द एकटक देखने लगा । देर तक उसकी पलके नहीं भर्पीं । इसके बाद धीरे-धीरे सिर हिलाकर कहा— शायद पहचाना है, बचपन में तुम्हारा नाम अलका था न ?

पोडशी हँसी नहीं, परन्तु उमका चेहरा उज्ज्वल हो उठा । उसने कहा—मेरा नाम पोडशी है । दश महाविद्या के नामों के सिवा भैरवी का और कोई नाम नहीं होता । तो क्या आपको अलका की याद है ?

जीवानन्द ने निरुत्साह के साथ कहा—कुछ-कुछ याद जरूर है । मैं जब तुम्हारी माँ के होटल में बीच-बीच में भोजन करने जाता था तब तुम्हारी उम्र छ-सात साल की रही होगी । परन्तु मुझे तो तुमने आसानी से पहचान लिया ?

इस कण्ठस्वर और उमके गुप्त अर्थ को समझकर पोडशी ने तनिक चुप रहकर अन्त में सहज भाव से रुहा—उसका कारण यह है कि उम समय अलका की उम्र छ-सात साल नहीं, नव-दस साल की थी । और आपको याद भी होगा कि उसकी माँ उसे आपका वाहन कहकर हँसी करती थी । इसके सिवा आपके चेहरे का कितना ही परिवर्तन क्यों न हो, आपकी दहिनी आँसू पर का वह तिल तो नहीं मिट सकता । अलका की माँ की कुछ याद है ?

जीवानन्द ने कहा—जरूर । उनके सम्बन्ध में तारादास जो कुछ कहते गये हैं वह भी अब समझ में आ रहा है । क्या वे अभी जीती हैं ?

“नहीं, कोई दस वर्ष हुए, उनका स्वर्गवास हो गया। आपको वे बहुत प्यार करती थीं न ?”

जीवानन्द के सूखे चेहरे पर अब घनराहट की छाया पडी। उसने कहा—हाँ, एक बार मुसीबत में पडकर मैंने उनसे सौ रुपये उधार लिये थे, शायद वे चुकाये नहीं गये।

दर्या हँसी से पोडशी के हैठ फूलने लगे, परन्तु वह उसी वक्त सँभलकर बोली—उसके लिए आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। अलका की माँ ने आपको वह रुपया उधार नहीं, दहेज समझकर दिया था।

दम भर चुप रहकर फिर बोली—आज इस पूर्ण सुख-सम्पदा के समय शायद वे दुःख की कहानियाँ आपको याद भी न आवेंगी, शायद उस दिन के उन सौ रुपयों का मूल्य ठहराना—हिसाब लगाना—भोफठिन होगा, परन्तु चेष्टा करने से इतना तो स्मरण अवश्य हो जायगा कि, वह दिन भी आज का सा ही दुर्दिन था। आज पोडशी का ऋण बहुत भारी मालूम हो रहा है, परन्तु उस दिन अलका की कुलदा माँ का ऋण भी कम भारी नहीं था।

जीवानन्द ने दुःखी होकर कहा—मैं ऐसा ही समझता वशर्ते कि वे उस रुपये के एवज में अपनी लडकी से विवाह करने को मुझे लाचार न करतीं।

पोडशी बोली—विवाह करने के लिए उन्होंने लाचार नहीं किया था, बल्कि किया था आपने। परन्तु उन अप्रिय

वाती से अब क्या प्रयोजन ? आपसे तो अभी-अभी मैंने कहा है कि आज उस तुच्छ रुपये का मूल्य निरूपण न किया जा सकेगा, परन्तु अलका की माँ के जन्म भर की पूँजी उतनी ही थी। अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके सिवा जब और कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, तब उस रुपये के साथ-साथ उन्हें अपनी लडकी भी आपके ही हाथ में सौंपनी पड़ी। परन्तु विवाह तो आपने किया नहीं, की थी दियगी। कन्यादान होते ही जो आप ग़ायब हुए, उसके बाद कल ही शायद पहले-पहल आपके दर्शन हुए हैं।

जीवानन्द ने कहा—परन्तु उसके बाद तो, सुना है, तुम्हारा सचमुच विवाह हुआ है।

पोडशी ने धीरे-धीरे नहीं रोया। वैसी ही शान्त गम्भीरता के साथ कहा—यानी और एक आदमी के साथ ? यही न ? परन्तु निरपराध निरुपाय बालिका के भाग्य में यदि वैसी विडम्बना हुई ही हो, तो आपके साथ तो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

जीवानन्द ने लजित होकर कहा—पोडशी, उस समय तुम बहुत छोटी थीं, बहुत सी बातें ठीक-ठीक नहीं जानती हो। यदि तुम्हारी माँ आज जीवित होती तो गवाही देती कि उन्होंने वास्तव में क्या चाहा था। तुम्हारे पिता को इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था, उस कन्यादान की रात्रि में केवल नाम सुना था। परन्तु मैंने स्वप्न में

कल्पना तक नहीं की थी कि वही यह तारादास चक्रवर्ती है और तुम्हीं अलका हो।

पोडशी तुरन्त रोकर बोली—आज भी तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं।

जीवानन्द ने कहा—न सही, किन्तु तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग रखने के लिए ही जो कुछ भी हो एक—

“विवाह की लकीर खींच ली थी ? शायद यही हो। अब तो अलका की माँ जीवित नहीं है, और मैं ही अलका हूँ या नहीं इसकी भी आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई और क्यों मैंने अपने सर्वनाश को कुछ कसर नहीं रक्खा, वही बात आज आपसे कह जाऊँगी। कल आपको सन्देह हुआ था कि शायद मैं पढी-लिखी हूँ। पढना-लिखना तो वह एककौड़ी भी जानता है, सो नहीं—परन्तु मेरे जो गुरु हैं, वे कुछ बाकी रखकर दान नहीं करते, इसलिए आज उन्हीं के चरणों में इस तरह से अपना बलिदान करने में मुझे कुछ झिझक नहीं हुई।”

जीवानन्द ने धोड़ी देर तक सिर झुकाये रहकर धीरे-धीरे मुँह उठाकर कहा—अच्छा, यदि तुम सच बात को प्रकट कर दो तो—

पोडशी तुरन्त बोली—कौन सी सच बात ? विवाह की बात ? वह तो झूठ है। विवाह तो हुआ ही नहीं। इसके सिवा वह सवाल अलका का है, मेरा नहीं। मैं यहाँ सारी

रात बिताकर लोगों से इस कहानी का वर्णन करूँ तो इससे मेरी बदनामी का परिमाण घटने का नहीं। परन्तु मैं अब उस बात की परवा नहीं करती। मुझे अब अपने लिए दुःख नहीं है, वह तो आपके लिए है। कल मैंने सोचा था कि आपमें असीम साहस है—शायद उसके सामने आपके प्राण भी तुच्छ हैं, परन्तु आज मालूम हुआ कि वह मेरी भूल थी। न केवल एक निरपराध स्त्री के कलङ्क के मूल्य से आज आपने अपने को बचा लिया, प्रत्युत एक दिन जिस अनाथ बालिका को अपार समुद्र के बीच में अकेली छोड़कर आप रफूचकर छोड़े गये थे, उसे पहचानने का साहस तक आपको नहीं हुआ।

जीवानन्द ने थोड़ी देर चुप रहकर एक-एक कहा—
पोडशी, मैं इतना नीचे उतर आया हूँ कि अब गृहस्थ की कुल-वधू की दुहाई दूँ तो तुम मन ही मन हँसेगी, परन्तु क्या उस दिन अलका को विवाह कर बीजगाँव के जर्मादार-वश की कुलवधू रूप से समाज पर लाद देना ही अच्छा होता ?

पोडशी ने सहज भाव से उतर दिया—वह मैं ठीक ठीक नहीं जानती, मैं तो यह जानती हूँ कि सत्य की रक्षा उसी से होती। जिसका सारा दुर्भाग्य जानकर भी उसे हाथ फैलाकर ग्रहण करने में आपने आगा-पीछा नहीं किया, उसे आप उस तरह छोड़कर भाग न जाते तो आज आपका इतना बड़ा अपमान न होता। वही सत्य आज आपको इस दुर्गति से बचा लेता। परन्तु मैं वृथा बक रही हूँ। अब तो आपसे ये बातें

कहना निष्फल है। मैं जाती हूँ—आप कोई चोज देने की चेष्टा कर फिर मेरा अपमान न कीजिएगा।

जीवानन्द ने कुछ भी नहीं कहा। एककौड़ो को दरवाजे के सामने देखकर वह एकाएक कातर स्वर से बोला—एक-कौड़ो, क्या यहाँ कोई डाक्टर है? खबर देकर बुला सकते हो? वह जो माँगेगा, मैं वही दूँगा।

पोडशी चौंक उठी। अपने अभिमान और उत्तेजना के कारण उसकी दृष्टि अब तक दूसरी तरफ थी।

“डाक्टर हैं क्यों नहीं सरकार—हमारे बल्लभ डाक्टर का अच्छा नाम है।” इतना कहकर एककौड़ा ने समर्थन के लिए भैरवी की ओर ताका।

पोडशी कुछ नहीं बोली, परन्तु जीवानन्द ने व्यग्र होकर कहा—उन्हीं को बुलवा भेजो एककौड़ो। एक मिनिट की भी देर न करो। देखो वहाँ बहुत सी खाली बोतले पड़ी हैं, किसी से कह दो कि पानी गरम कर लावे। कहाँ गये वे लोग?

एककौड़ो ने कहा—मैं वही बात तो कहने आया था हजूर। पता ही नहीं चलता कि पुनीस के डर से कौन कहाँ भाग गया है।

“तो क्या कोई नहीं है, सब भाग गये?”

“सब के सब। एक भी आदमी नहीं है। वे क्या आदमी हैं सरकार। मैं तो—”

जीवानन्द ने व्याकुल होकर कहा—तब क्या डाक्टर नहीं बुलाया जायगा एककौड़ी ?

बाधा पाकर एककौड़ी मन में लज्जित हुआ और बोला—क्यों न बुलाया जायगा सरकार, मैं खुद ही जाता हूँ। अभी तो वे घर में ही होंगे। परन्तु पानी गरम करूँगा तो बहुत विलम्ब हो जायगा। इधर सरकार को अकेले—

परन्तु उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। भीतर की किसी दुःसह व्यथा से जीवानन्द का चेहरा देखते ही देरते पीला पड़ गया। इसी को दवाने के लिए वह पेट के बल पल्लंग पर लेट गया और अफुट कण्ठ से बोला—ऊह, अब तो सहा नहीं जाता।

पोडशी को मानो कही बड़ी चोट लगी। इतना कातर और हताश कण्ठस्वर भी इस दुर्दान्त पाखण्डी के मुँह से निकल सकता है, यह मानो उसके लिए खज्जातीत है। वास्तव में मनुष्य कितना दुर्बल, कितना निरुपाय है, दुःस की पीडा के कारण मनुष्यों में कितनी एकता, कितना अपनापन है—यह सोचकर उसकी आँखों में आँसू आ गये। परन्तु क्षणभर में अपने को सँभालकर वह धबराये हुए एककौड़ी की ओर देखकर बोली—तुम बल्लभ डाक्टर को बुला लाओ एककौड़ी। यहाँ जो कुछ करना है, मैं कर लूँगी। रास्ते में यदि किसी से भेंट हो जाय तो भेज देना। कहना कि अब पुलिस का डर नहीं है।

एककौडा चकित नहीं हुआ, बलिक खुश होकर बोला—
जहाँ से होगा, मैं डाक्टर साहन को जरूर बुला लाऊँगा।
परन्तु क्या आपको रसोईघर बतलाता जाऊँ ?

पोडशी ने सिर हिलाकर कहा—नरुरत नहीं है, मैं ढूँढ
लूँगो। परन्तु तुम कहीं किसी कारण से देर नहीं करना।

“जी नहीं, मैं घात की घात में आ जाऊँगा”—कहते-
कहते एककौडी भटपट वहाँ से चला गया।

६

रसोईघर को ढूँढकर जब पोडशी वहाँ से बोतल में गरम
पानी भरकर लाई तब तक कोई लौटकर नहीं आया था।
जीवानन्द उसी तरह श्रौंघे मुँह पल्लंग पर पड़ा था। पैरों
की आहट से मुँह उठाकर उसने देखते हुए कहा—तुम हो ?
डाक्टर नहीं आये ?

“अभी तो उनके आने का समय नहीं हुआ।” यह कह-
कर पोडशी ने दोनों बोतलें विछौने के एक किनारे रख दीं।

जीवानन्द इस बात पर मानो विश्वास नहीं कर सका।
उसने कहा—अभी आने का समय नहीं हुआ ? तुम्हें मालूम
है, डाक्टर कितनी दूर रहते हैं ?

पोडशी—हाँ, परन्तु क्या पन्द्रह मिनट के भीतर ही
आना हो सकता है ?

जीवानन्द ने लम्बी साँस छोड़कर कहा—“कुल पन्द्रह ही मिनिट हुए ? मैंने समझा था कि दो-तीन घण्टे से एक-कौड़ी उ-है बुलाने गया है । वह भी शायद डर के मारे यहाँ नहीं आवे अलका ।” इतना कहकर वह फिर पेट के बल लोट गया । उसके कण्ठस्वर में और दृष्टि में व्याकुल निराशा की सीमा न रही ।

पोडशी तनिक चुप रहकर स्नेहयुक्त स्वर से बोली—डाक्टर आवेंगे क्यों नहीं । तब तक गरम पानी की बोतलों को पेट में लगा लीजिए न ।

जीवानन्द ने उसी दशा में सिर हिलाकर कहा—नहीं, उस रहने दो । उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होता, केवल कष्ट ही बढ़ता है ।

पोडशी ने सहसा कुछ प्रतिवाद नहीं किया । इस निरुपाय रोगी के रुँह से अपने लटकपन का नाम सुनकर उसके हृदय में अपूर्व आनन्द का उदय होने लगा था । सम्भवत इसी भाव में मग्न होकर वह अपना और पराथा, सामने का और पीछे का सब भूलकर बेसुध की तरह चुपचाप खड़ी थी । अचानक जीवानन्द के प्रश्न से उसको होश आया ।

“अलका ।”

इस नाम की अब वह उपेक्षा न कर सकी । बोली—कहिए ।

जीवानन्द ने कहा—अभी तक समय नहीं हुआ ? शायद वह न आवें, शायद कहीं चले गये हों ।

पोडशी—मैं जानती हूँ कि वे अवश्य आवेंगे । वे कहीं गये नहीं हैं ।

“यहाँ का कोई अभी तक लौटा नहीं क्या ?”

“नहीं” ।

जीवानन्द ने दम भर चुप रहकर कहा—शायद वे लोग अब न आवें, शायद एककौड़ी भी इसी वहाने खिसक गया हो ।

पोडशी चुप रही । जीवानन्द ने शायद अपने दर्द को दबाकर थोड़ा देर के बाद कहा—सब लोग चले गये । वे जा सकते हैं—केवल तुम्हीं न जा सकोगी ।

“क्यों ?”

“शायद मैं अब बचूँगा नहीं—इसी लिए । साँस लेने में भी मुझे कष्ट हो रहा है । मालूम होता है, मानो दुनिया में हवा ही नहीं है ।”

“आपको क्या घटुत कष्ट हो रहा है ?”

“हाँ । अलका, तुम मुझे चमा करो ।”

पोडशी ने कुछ नहीं कहा । जीवानन्द ने थोड़ा रुककर फिर से कहा—मैं ईश्वर को नहीं मानता, जरूरत भी नहीं होती । परन्तु अभी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था । मैंने जीवन में इतने पाप किये हैं कि उनका ओर छोर तक नहीं है । आज बार-बार यही मालूम हो रहा है कि शायद सब देना सिर पर लादे ही जाना पड़ेगा ।

पोडशी ने चुपचाप फिर उसके माथे का पसीना पोंछ दिया। जीवानन्द ने एकाएक वही हाथ पकड़कर पूछा— सन्यासिनी को क्या सुख-दुःख नहीं है? ससार में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें वह सुख हो?

पोडशी—परन्तु वह तो आपके हाथ में नहीं है।

जीवानन्द—ऐसा कुछ जो मनुष्य के हाथ में हो?

पोडशी—वह भी है, परन्तु आप अच्छे होकर यदि कभी पूछेंगे तो बतलाऊँगी।

उसके हाथ को जीवानन्द ने अपनी छाती के पास रींचकर कहा—नहीं, नहीं, अच्छे होने पर नहीं, इसी सख्त बीमारी की हालत में ही मुझसे कहो। मनुष्यों को मैंने बहुत दुःख दिये हैं, आज अपने दुःख के समय दूसरे को दुःख की बात, दूसरे की आशा की वाणी तो जरा सुन लूँ। इसी से मेरे दुःख का बोझ जरा हलका हो जाय।

अपने हाथ को धीरे धीरे छुड़ाकर पोडशी स्थिर हो बैठी। जीवानन्द ने एक मिनट चुप रहकर कहा—अच्छा, यही सही। सबकी तरह मैं भी तुम्हें आज से पोडशी ही कहा करूँगा। कल से आज तक मैंने इतने कष्ट के समय बहुत-सी बातें सोची हैं। शायद तुम्हारी बात ही अधिक है। मैं तो बच गया, परन्तु तुम्हें तो यहाँ—

पोडशी ने तुरन्त रोककर कहा—मेरी बात रहने दीजिए।

रोके जाने पर जीवानन्द ने दम भर चुप रहकर धीरे धीरे कहा—“मैं समझ गया पोडशो, तुम यह भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी चिन्ता करूँ। यही होना चाहिए।” यह कहते हुए वह एक लम्बी साँस छोड़कर चुप हो गया।

पोटशो शय्या से खड़ी हो गई। जीवानन्द ने आँस खोलकर कहा—तुम भी चलीं ?

पोडशो गर्दन हिलाकर बोली—“नहीं। घर बड़ा गन्दा हो रहा है, जरा सफाई कर डालूँ।” वह जीवानन्द की सम्मति की प्रतीक्षा किये बिना ही गृहकार्य करने लगी। घर को बहुत से जंगले, दरवाजे अब तक खोले ही नहीं गये थे, बहुत खोचतानी करके उन्हें खोलते ही क्षण भर में प्रकाश और हवा से सारा घर भर गया। फर्श पर कई जगह कूड़े का ढेर जम गया था, भाड़ू ढूँढकर पोडशो ने तमाम साफ कर डाला। अपने आँचल से बिज्रैना भाड़कर जब पोडशो ने दोनों तकियों को ठिकाने पर रख दिया तब भी जीवानन्द ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके मलिन मुख पर एक स्निग्ध व्योमि धीरे-धीरे आकर स्थिर हो रही थी। पोडशो काम कर रही थी, जीवानन्द सिर्फ आँसों से उसी का अनुसरण कर रहा था, मानो अपना सब कुछ खर्च भूलकर दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य की तरह जीवन में पहले-पहल देख रहा था कि शृङ्खला और सुधरापन क्या है।

एकाएक बहुत से पैरों की आहट पाकर पोडशो ने भाड़ू एक तरफ रख दी और सीधे खड़ी हो गई।

एककौड़ी दरवाजे के भीतर भाँकुर घोला—हुजूर डाक्टर साहब आये हैं ।

“उन्हे ले आओ ।” कहकर पोडशा अपने पहले के स्थान पर जा बैठी । दूसरे ही क्षण में जिन चिकित्सक का यश इस देश में बहुत हा प्रसिद्ध है वही बल्लभ डाक्टर कमरे के भीतर आये और पोडशा को यहाँ, इस तरह, देखकर मानो एकदम आसमान से गिर पडे ।

एककौड़ी ने उँगली से इशारा कर कहा—वह हैं सरकार, अगर आप अच्छा कर देंगे डाक्टर साहब, तो इनाम का कहना ही क्या है, हम लोग जिन्दगी भर आपके कृतज्ञ रहेंगे ।

डाक्टर धीरे-धीरे पलंग के पास आये और जेब से रवर का नल निकालकर चुपचाप रोग की परीक्षा करने लगे । बहुत जाँच-पड़ताल के बाद उन्होंने बडे डाक्टर की तरह ही राय दी । कहा—बहुत अत्याचार करने से इम रोग की उत्पत्ति हुई है, अगर अभी से सावधानी न की जायगी तो ‘लिवर’ का पक जाना असम्भव नहीं है, और उसमें भय की भी बात है, परन्तु सावधान होने से बचाव हो सकता है, और उसमें भय भी कम है । किन्तु मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि दवा खाना आवश्यक है ।

जीवानन्द ने पूछा—क्या आप कह सकते हैं कि इस हालत में कलरुत्ते जाना सम्भव है ?

डाक्टर ने उत्तर दिया—अगर जा सकें तो सम्भव है, नहीं तो किसी हालत में भी सम्भव नहीं ।

जीवानन्द ने फिर पृछा—क्या आप निश्चय करके कह सकते हैं कि यहाँ रहने से आराम हो जायगा ?

डाक्टर ने बड़े बुद्धिमान् की तरह सिर हिलाकर जवाब दिया—
जी नहीं हुजूर, मैं नहीं कह सकता । परन्तु यह निश्चित है कि यहा रहने से भी आपको आराम हो सकता है, और कलकत्ते जाकर आराम नहीं भी हां सकता ।

जीवानन्द ने मन ही मन चिढकर फिर दुबारा प्रश्न नहीं किया । डाक्टर दवा के लिए आदमी भेजने का इशारा करके, अपनी दक्षिणा लेकर, विदा हो गये । एककौड़ी उनके साथ-साथ दरवाजे के बाहर तक जाकर लौट आया । तब जीवानन्द ने उसके मुँह की ओर देखकर कहा—नया होगा एककौड़ी ?

एककौड़ी ठाढम बँधाकर बोला—डर क्या है सरकार, दवा आया ही चाहती है । बल्लभ डाक्टर का एक शीशी मिक्चर पीने से ही सब अच्छा हो जायगा ।

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—“नहीं एककौड़ी, तुम्हारे बल्लभ डाक्टर का मिक्चर तुम्हीं को मुवारक हो । तुम आज ही मेरे कलकत्ते जाने का इन्वजाम कर दो ।” यह कहकर वह उस दरवाजे की ओर उत्सुक नेत्रों से देखने लगा जिस दरवाजे से थोड़ी देर पहले पोडशी गई थी ।

परन्तु कोई लौटा नहीं । दो-तीन मिनट के बाद उससे धीरज धरते नहीं बना । उसने कहा—उन्हें बुलाकर तुम

मेरे जाने का कुछ इन्तजाम कर दो एककौड़ी, आज मुझे जाना ही चाहिए।

सुनते ही एककौड़ी इन इशारे का मतलब समझ गया। “जो हुक्म सरकार” कहकर वह उसी वक्त बाहर गया। परन्तु उसे लौटने में विलम्ब होने लगा। पन्द्रह मिनट के बाद जब वह सचमुच में आया तब अकेला आया। कहा—वे नहीं हैं हुजूर, घर चली गई है।

जीवानन्द को विश्वास नहीं हुआ। बेकली के साथ कहा—मुझसे बिना कहें चली जायँगी? यह हो ही नहीं सकता एककौड़ी।

विश्वास करना वास्तव में कठिन था। अलका कुछ व्यवस्था किये बिना ही चली गई, एक बात भी नहीं कह गई, डाक्टर की राय तक सुनकर जाने का धैर्य उसे नहीं रहा। इस बात पर जीवानन्द अपने मन में किसी तरह विश्वास नहीं कर सका।

एककौड़ी ने कहा—हाँ हुजूर, वे डाक्टर साहब के जाने के बाद ही चली गईं। बाहर गोपाल कहार बैठा है। भैरवी माई को सीधे जाते हुए उसने देखा है।

जीवानन्द ने प्रतिवाद नहीं किया। एककौड़ी बोला—तो जरा दिन रहते-रहते आपके जाने का इन्तजाम करूँ, सरकार?

“हाँ, ऐसा ही करो” कहता हुआ जीवानन्द करवट लेकर दीवार की तरफ मुँह करके लोट गया। एककौड़ी कलकत्ते

जाने की वदुत सी सुविगा-असुविगाओं की बातें कहने लगा, परन्तु मालिक की तरफ से कुछ जवाब नहीं मिला । बातें उनके कानों में जाती हैं या नहीं, यह भी समझ में नहीं आया ।

9

जमींदार के विलासकुञ्ज से जब पोडशो चुपचाप निकल गई तब दिन के नव-दस बजे होंगे । इस तरह चना आना उसी दुरी तरह खटखटा था, परन्तु उसी दम मन में हुआ कि कह-सुनकर, विदा लेकर, आने में और भी ज्यादाती होती । परन्तु फाटक के बाहर आकर उसने देखा कि अब एक कदम आगे बढ़ना भी कठिन है । खेतों में चारों ओर किसान काम कर रहे हैं, गाँव में जाने का रास्ता उन्हीं के बीच से है । दिन के उजेले में, इसी रास्ते से, मुँह ऊँचा या नीचा करके किसी तरह भी जाने में उसका पाँव नहीं उठता था । विजली की चमक झँधेरे के पर्दे को हटाकर बादल से घिरी हुई घरती की छाती को जैसे क्षण भर में सुस्पष्ट कर देती है, उसी तरह दूर के उन किसानों की दृष्टि ने पोडशी की गत रात्रि की घटनाओं को उसी के सामने पलक मारते ही प्रकट कर दिया । पर्दे की ओट में इतनी चीजें ढकी हुई थीं । एक ही रात के अन्दर किन्हीं मनुष्य के भाग्य में इतनी बड़ी घटना हो सकती है, यह देखकर उसके हवास उड़ गये । पूरा एक दिन भी तो नहीं बीता । कल ही शाम को अनमान के मारे विलकुल बेसुध

होकर इसी रास्ते से वह चली आई थी, परन्तु उसके बाद ? उसके बाद की घटना होने में साधारण मनुष्य को बहुत समय लग सकता है, परन्तु पौडशी को नहीं लगा। यह मानो कोई इन्द्रजाल हो गया, इसलिए इस परिचित रास्ते के उस पार उसके भाग्य में क्या प्रतीक्षा की जा रही है उसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकी। फाटक के बाहर, बागोचे के पास से, एक पगडण्डी नदी की तरफ गई है। थोड़ी देर आना-कानी कर वह इसी पगडण्डी पर धीरे-धीरे चलकर नदी-किनारे आ खड़ी हुई। उधर कोई बस्ती नहीं है, गाय भँस चराने के लिए कदाचित् किसी गडरिये के लडके के सिवा इस रास्ते में कोई नहीं आता। इसी सुनसान जगह में सन्ध्या होने की प्रतीक्षा करके, अँधेरे में छिपकर घर लौटने की आशा से, वह एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे जा बैठी। अब तक वह जिस भँवर में फँसी हुई थी उममें वर्तमान के सिवा और कोई चिन्ता उसके मन में नहीं थी। अब जो भविष्यत् आग्रह से उसकी राह देख रहा है, उसकी एक-एक बात वह अपने मन में विचारने लगी। उसके छोटे से गाँव में अब तक कोई बात किसी से छिपी नहीं है, जमींदार ने उसे पकड़वा मँगाया है, रात भर रोक रक्खा है—यह इन दो चार दिनों के (जमींदार के) अत्याचार से ऐसी ही मामूली बात हो गई है कि, इसके लिए अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि, उमने किसलिए भूठ कहकर

मजिस्ट्रेट के हाथ से जमाँदार का उद्धार किया है, इसका भेद समझने के लिए बुद्धिमानों की इस गाँव में कमी नहीं होगी। सभी समझेंगे कि यह रिश्वत का बड़ा भारी मामला है। परन्तु रास भ्रष्ट है पिता तारादास को लेकर। दोनों का सहज सम्बन्ध भीतर ही भीतर बहुत दिनों से सड़ता जा रहा था, अब वह सम्बन्ध घृणा की वाष्प के रूप में बहुत से स्थानों में व्याप्त होकर जलता रहेगा। उसकी ज्वाला का किसी की दृष्टि से छिपना सम्भव नहीं। ससार में उम आदमी के लिए असाध्य कोई काम नहीं है। उसके बुरे कामों में रोक-टोक करने से वाप बेटी के बीच अब तरु बहुत लड़ाई-भगड़े हुए हैं, उसमें बराबर वाप का ही हार माननी पड़ी है। परन्तु कई कारणों से उसे पोडशो की माता के सम्बन्ध में चुप ही रहना पड़ा है। आज उसने क्रोध के मारे एक बार जब उस बात को जाहिर कर डाला है तब वह किसी हालत में चुप नहीं रहेगा। इस कलङ्क के प्रचार से वह अपने साथ उसका भी सत्यानाश करके इस गाँव से निकलेगा। यह मामूली बात नहीं है, यह उसके सारे भविष्यत् जीवन का अँधेरे में डाल रखेगा। यह भी पोडशो को साफ मालूम होने लगा। परन्तु उस अँधेरे के भीतर उसके लिए कैसा परिणाम नियत है, उसका आभास तक उसे दिखाई नहीं पड़ा। दिन चढ़ने लगा, गाँव में उसकी चर्चा का अस्पष्ट कालाहल यहाँ से मानो उमके कानों में गूँजने लगा। उसी के अन्दर जीवानन्द के मुँह से

सुना हुआ 'अलका' नाम, उसका लज्जा के साथ माफी माँगना और उसकी व्याकुल प्रार्थना याद कर पोडशी के अन्त-करण में आनन्द का आवेश होने लगा। परन्तु उस गाँव के भीतर जो सड़क उसकी प्रतीक्षा कर रहा है उसकी विभीषिका की तीव्र यातना काँटे की तरह उसके मन में चुभने लगी।

धीरे-धीरे सूर्यदेव आकाश के दूसरे प्रान्त में ढल गये और उन्हीं की एक दीप्त रश्मि से अपना मुँह फेर लेते ही एका-एक दूर के खेतों में से जाते हुए जमींदार की पालकी पर उसकी नजर पड़ी।

इसी रास्ते से जब वे लोग गये हैं तब जरूर मेरे पास होकर ही गये होंगे, मुझे मालूम भी नहीं पडा। ध्यान देती तो शायद जरा देखा भी लिया जा सकता था। अब पोडशी के अनजान में सिर्फ एक लम्बी साँस निकल आई।

क्रमशः सन्ध्या और उसके बाद अँधेरा होने में देर नहीं लगी। पोडशी उठकर जब गाँव के लिए रवाना हुई तब मैदान में एक भी आदमी नहीं था। और इस सुनसान रास्ते से होकर जब वह अपने घर के सामने आ खड़ी हुई तब रात हो चुकी थी। किसी से भेंट न होने पर भी उसके मन में अन्धड चल रहा था, परन्तु मंदर दरवाजे पर ताला देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। घूमकर पिछवाड़े के द्वार पर जाकर देखा तो उसे भी भीतर से बन्द पाया। उसको आशा भी ऐसी ही थी, परन्तु

थोड़ी ही देर में भाँतर घुसकर उसने देखा कि तमाम कोठरियों में ताले लगे हैं, कहीं कोई नहीं है, सारे मकान में सन्नाटा है।

सन्यासिनी को बहुत उपवास करने पड़ते हैं, भोजन की उसे याद भी नहीं रही। किसी निर्जन स्थान में विश्राम करने के लिए उसका मन तरस रहा था। परन्तु जब किसी कमरे के अन्दर जाने का कोई उपाय ही नहीं है, तब वह बरामदे में एक ओर अपना आँचल बिछाकर लेट गई। तारादास घर में नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, कहाँ गये हैं, इन प्रश्नों का अवकाश उसके क्लान्त शरीर और मन में नहीं था। वह रात भर आराम से सो सकेगी, इसी वृत्ति में वह देखते-देखते निद्रित हो गई।

सुबह नौद टूटते ही पोडशी को सदर दरवाजे का ताला खोलने का शब्द सुनाई दिया और साथ ही साथ वह विधवा स्त्री आकर हाजिर हुई जो मन्दिर और मकान का काम-धन्धा करती है। पोडशी को देखकर वह अकचकाई नहीं। उमने पूछा—माई, रात को कन आई ? क्या पिछवाडे का दरवाजा खोलकर आई हो ?

पोडशी के सिर हिलाकर हाँ कहने से वह फिर बोली—मब लोग यही चर्चा कर रहे थे माजी ! राजा धाबू जन शाम को चले गये तब सब लोगों ने कहा कि अब तुम्हें छोड देंगे। तुमने तो कुछ खाया-पिया न होगा। क्या करूँ माजी, घर की चाभी तो पण्डितजी साथ लेते गये हैं। अच्छा, मैं मोदी के यहाँ से सौदा ला देती हूँ, लफडी वगैरह का इन्तजाम किये

देती हूँ, तुम भटपट नहा-धोकर रसोई करके थोड़ा सा खा लो। फिर जो होना है, होगा।

पोडशी ने पूछा—रानी की माई, बाबूजो कहीं गये हें ?

रानी की माँ ने कहा—सुना है, काँई उनकी भानजो है, उसी को लाने गये हैं। अभी आ जायँगे। आज बड़े बाबू के नाती की मनौती की पूजा है। आज क्या और कहीं रहा जा सकता है ? मन्दिर में तो दो घड़ी रात रहते ही धूम मची हुई है।

पोडशी को तुरन्त याद आई कि आज मङ्गलवार है, आज जनार्दन राय के दैहित्र की मनौती की पूजा में मन्दिर में बड़ा समारोह होगा। आज तो किसी हालत में वह कहीं छिपी नहीं रह सकती। वह है देवी की भैरवी, इतने बड़े उत्सव में उसे मौजूद रहना ही होगा।

यहाँ जनार्दन राय का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। ये जैसे धनी हैं, वैसे ही भयङ्कर हैं। एक बार किसी किसान से वेगार लेने के मामले में पोडशी से इनका झगडा हो गया था। वह बात अभी तक दोनों ओर किसी को भूली नहीं है। पोडशी ही क्यों, यहाँ के सभी लोग उनसे बहुत डरते हैं। जमींदार भी इनकी खातिर करता है, एककौड़ी तो इनके हाथ में ही है। जिस साल किसानों से मालगुजारी वसूल नहीं होती उस साल सरकारी मालगुजारी भेजने में जमींदार का यही मदद देते हैं। दो सौ बीघे खेत तो वे खुद जोतते हैं, इसके सिवा अनाज का व्यापार और

महाजनी का काम भी काफी है। परन्तु एक समय था जब यही बड़े बाबू विलकुल छूँछे थे। कहा जाता है कि, यह सब इनके भैंसले दामाद मिस्टर बसु का रुपया है। वे पश्चिम के किसी बड़े शहर में नामी वैरिस्टर हैं। विलायत से लौटने पर वे यथाविधि प्रायश्चित्त करके जाति में मिल गये थे। आज उन्होंने मिस्टर बसु के एकलौते पुत्र को सर्वविध कन्याण के लिए चण्डी देवी की पूजा की तैयारी हो रही है। महीने भर से गाँव में इस धूम धाम की पूजा की वातचात चल रही है। बड़े बाबू की जो लडकी इतने बड़े घर में व्याही है, उस हैमवती से बचपन में पोटशी की जान-पहचान थी। उससे हैमवती उम्र में दो-एक साल छोटी ही होगी। मन्दिर के आँगन में जो छोटी सां पाठशाला अभी तक है, उसमें सबके साथ हैमवती भी पढने-लिखने आती थी। उस समय यदि किसी राज पोटशी वहाँ आती थी तो सबके साथ वह भी उसे प्रणाम करके पैरों की धूल ले लेती थी। आज वह बड़े घर की बहू है। आज शायद उसके शरीर में सौन्दर्य और ऐश्वर्य के प्राचुर्य की सीमा ही नहीं है, आज शायद वह उसे पहचान भी न सके। परन्तु एक दिन ऐसा नहीं था। उस समय रूप या वयस में उसमें कुछ अधिकता नहीं था। ऐसा होने पर भी वह इतने बड़े घर में देवी की कृपा के कारण ही व्याही गई है, यही सुना जाता है। किमी अभावस को कोई सिद्ध तान्त्रिक देवी के दर्शन को आये थे। राय

बाबू ने अपनी कन्या की भलाई के लिए उन्हीं से, गुप्त भाव से, कुछ अनुष्ठान करा लिया था। शायद यह पुत्र भी देवीजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। हताश होकर हैमने विदेश में इन्हीं देवी की मनैती करके पुत्र प्राप्त किया है।

नौकरनी काम करते हुए बोली—भाजी, आज न मालूम कब मन्दिर से बुलाहट आ जाय। तब तक आप नहा धोकर तैयार हो लो न ?

षोडशी का चित्त दूसरी तरफ था। मन्दिर की बुलाहट का नाम सुनकर वह चौंक उठी। परन्तु उसके लिए न सही, दिन निकलने के पहले एकान्त में नहा आना ही अच्छा समझकर वह चटपट पिछले दरवाजे से पोखरे पर चली गई। गाँव का कोई भी प्रायः इस तालाब पर नहाने नहीं आता था, इसी लिए वहाँ किसी से उसकी भेंट नहीं हुई। घर लौटकर उसने देखा कि कपड़ा बदलने को दूसरी धोती नहीं है देह पोछने का अँगौछा तक बाहर नहीं है। यह देखकर रानी की मासकुचाने लगी। वह तारादास से चिढ़ती थी। नाराज होकर बोली—बुढ़्ढा घास-फूस तरु को ताले में बन्द कर गया है। मेरे घर एक टसर की धुली हुई धोती है, उसे ला दूँ ? उसमें तो कोई दोष नहीं।

षोडशी—नहीं, रहने दे।

“गीला कपड़ा शरीर में सूखेगा। इससे भाजी बीमार हो जाओगी।”

पोडशी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके सूखे चेहरे की ओर देखकर दासी समवेदना के साथ बोली—न मालूम कितने दिनों से उपवास कर रही हो माजी, मैं जानती हूँ कि मलेच्छ आदमियों के यहाँ तुम पानी तक नहीं छुओगी। तो अब मैं कुछ सामान दूकान से या, कहो तो, अपने घर से लाकर रग जाऊँ न ?

पोडशी ने सिर हिलाकर कहा—नहीं, रानी की माँ, वह सब रहने दो।

यह नौकरनी कायस्थ की लडकी है। उसे कुछ अछू धी, इसी से उसने इस बात पर वृथा जोर नहीं दिया। काम-धन्धा फरके जाते समय उसने पूछा—पण्डितजी मन्दिर में मिल जायँ तो क्या उन्हें एकान्त में बुलाकर यहाँ भेज दूँ ?

पोडशी ने कहा—रहने दो, आवश्यकता नहीं है।

दासी बोली—ताला बन्द करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा आप भीतर से ही बन्द कर ले। अच्छा माजी, कोई अगर कुछ पूछे तो—

पोडशी घोड़ी देर चुप रही, फिर सिर उठाकर बोली—“कह देना कि मैं घर में ही हूँ।” रानी की माँ के चले जाने पर वह दरवाजा ज्यों का त्यों खुला पड़ा रहा। पोडशी को मालूम भी नहीं हुआ कि सामने के वरामदे में मुँह नीचा किये चुपचाप बैठे बैठे दो-तीन घण्टे कैसे बीत गये। किसी अनजान व्यथा की तरह उसके मन में यही भाव उठ रहा था कि

अब मुझे किसी कठोर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। मेरे सम्बन्ध में बड़ो कुत्सित चर्चा गाँव भर में चल रही होगी। परन्तु लडने या आत्मरक्षा के लिए उसका मन किसी तरह भी सन्नद्ध नहीं होता था, बल्कि वह उसके कानों में बार-बार यही कहने लगा कि आज तुम्हें यही सब से बड़ा बात याद रखनी होगी कि तुम सन्यासिनी हो। अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से, जान बूझकर हो या अनजान में, एक रोज तुमने अपनी देह को देवता के कार्य में दान कर दिया था—इस सबसे बड़े सत्य को आज तुम्हें किसी हालत में भी इनकार करने से नहीं चनेगा। तुम्हें दाँव में रखकर जो लोग मिथ्या का जूआ खेल रहे हैं, वे लोग मार-काट कर मरे। तुम्हारी तो अब रिहाई है।

इसी समय मन्दिर के वृद्ध पुजारी दरवाजे से होकर आँगन में आ सडे हुए। उन्होंने कहा—माँ, ये लोग तुम्हें बुला रहे हैं।

“चलिए” कहकर पीडशो उठ खडी हुई। उसने प्रश्न तक नहीं किया कि किमलिए, कहाँ या कौन लोग बुला रहे हैं, मानो वह इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आने-वाला विपत्ति के सम्बन्ध में पुजारी को कुछ इशारा करने की इच्छा थी, परन्तु भैरवी के मुँह की ओर देखकर उसके मुँह से कुछ भी नहीं निकला।

आज मन्दिर के आँगन का बड़ा फाटक खुला है। घुसते ही उसने देखा कि उस तरफ की दीवार के पास काले रङ्ग

के दो बकरे बंधे हुए हैं। दालान में पूजा के सामान का ढेर लगा है। वहाँ ढलती उम्र की पाँच-छ ब्रियाँ वास्य तथा कार्य में बड़ी उतावली दिखाती रही हैं, परन्तु मजसे ज्यादा शोर-गुल मचा हुआ है आँगन के भीतर। वहाँ राय गवू का सुन्दर कोमल गलीचा बिछा हुआ है और उन्हीं को बीच में करके गाँव के मुखिया लोग, अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार, बैठकर सम्भवतः पोडशो के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। मालूम नहीं, अत्र तक कौन सुन रहा था परन्तु जिसको सुनना सबसे अधिक आवश्यक है उसके पास आकर खड़े होते ही यह सैकड़ों कण्ठों की उद्दाम वक्तृता एकाएक बन्द हो गई।

थोड़ी देर तक किसी तरफ से कोई प्रसङ्ग नहीं उठा। सभी आदमी उसके परिचित थे और ब्रियाँ जो हाथ का काम छोड़कर एक-एक करके खम्भों की ओट में आ खड़ी हुई थीं वे भी, उसकी अपरिचित नहीं थीं, केवल जो युवती सबके पीछे मन्दिर से धीरे-धीरे आकर उसके सामने-वाले खम्भे के आश्रय से चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी ओर एकटक ताकने लगी वह अनजान होने पर भी पोडशो को मालूम हुआ कि यही हैमवती है। यह खो अपनी ससुराल से बहुत दिन तक मैके नहीं आ सकी थी, इसलिए यहाँ इसके सम्बन्ध में तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। वह असाध्य खाना खाती है, घाँघरा और जूता-मोजा पहनती है, सड़को पर पुरुषों के हाथ पकड़कर चलती है, वह एक-

दम किस्तान मेम वन गई है, ऐसी ही बहुत कुछ अफवाहे थीं। परन्तु आज षोडशी को उन अफवाहों में से एक की भी सत्यता नहीं दिखाई दी। उसकी देह पर एक कीमती बनारसी साडी और दो-एक कीमती जेवरों के सिवा जूता-मोजा-घाघरा कुछ भी न था, बल्कि उसके माथे में सिन्दूर और पैरों में महावर इतना अधिक लगाया गया था कि किसी तरह मालूम नहीं होता था कि यह वेश वह सिर्फ आज के ही लिए बना लाई है। वह सुन्दरी है सही, परन्तु असाधारण नहीं है। रङ्ग बहुत साफ नहीं है, लेकिन बड़े घर की छियाँ जैसे घिस-मॉजकर देह को रङ्ग को कुछ साफ कर लेती हैं वैसे ही इसका है—उससे अधिक नहीं। क्षण भर देखने से ही षोडशी को मालूम हो गया कि इस धनी गृहिणी ने जैसे धन के आडम्बर से अपनी देह की, वसन भूषणा की, दृकान नहीं सजाई है वैसे ही इसने लज्जा या निर्लज्जता किसी की भी ज्यादाती से अपने वचन के इस गाँव को विडम्बित नहीं कर डाला है। हैमवती चुपचाप उसकी ओर देखने लगी, शायद अन्त तक इसी प्रकार चुपचाप रहेगी, परन्तु इसी के सामने अपनी होनेवाली दुर्गति की आशङ्का से लज्जा के मारे षोडशी का सिर झुक गया।

दो तीन मिनट और चुपचाप बीत जाने पर वृद्ध सर्वे-श्वर शिरोमणि, षोडशी के सम्बन्ध में, अपनी राय प्रकट करके उसी के उद्देश्य से बोले—आज हैमवती अपने पुत्र के कल्याण

के लिए जो मनीषी की पूजा करा रही हैं, उसमें तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी यह सम्मति हम लोगों को जताई है। उनको आशा है कि तुम्हारे द्वारा उनका कार्य सिद्ध न होगा।

पोडशी का मुँह पीला पड़ गया था, परन्तु उसके स्वर में जड़ता नहीं थी। उसने कहा—बहुत अच्छा, वे वैसे ही करे जिसमें उनका काम सिद्ध हो जाय।

उसके कण्ठस्वर की स्पष्टता से सर्वेश्वर शिरोमणि अपने गने में भी जोर पाकर बोले—इतना ही नहीं। गाँव के मुखियों ने निश्चय कर लिया है कि देवी का काम अब तुमसे नहीं चलेगा। कोई है ? जरा तारादास पण्डित को बुला दे।

एक आदमी उसे बुलाने गया। पोडशी के मुख में जो जवाब आया था वह अपने पिता के नाम से वहीं रुक गया। मुँह उठाकर एकाएक उसने पूछा—“क्यों नहीं चलेगा ?” अब वह खुद ही चौंक उठी। भीड़ में से किसी ने कहा—वह तुम अपने बाप के मुँह से ही सुन लेना।

पोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। देखा कि उसके पिता एक नव दस वर्ष की लड़की को साथ लिये चले आ रहे हैं, उनके पीछे एक अधिक उम्र की स्त्री साथ साथ आ रही है। इनमें से किसी को पोडशी ने पहले कभी देखा नहीं था, तो भी समझ लिया कि यही फूफी हैं और यह लड़की ही उन अनजान फूफी की बेटा है।

भीतर-भीतर सभी समझते थे कि यह सब राय बाबू की ही कृपा है। पौडशी को भी यह अज्ञात नहीं था। मौन बैठ हुए राय बाबू की दृष्टि से उत्साह पाकर भा तारादास पहले कुछ कह नहीं सका। इसके बाद रुकती आवाज से उसने जो कुछ कहा, उसका अधिकांश स्पष्ट नहीं हुआ। इतना ही समझ में आया कि जिले के मजिस्ट्रेट साहब बहुत क्रुद्ध हुए हैं और उसे भैरवी के पद से हटाये बिना अच्छा नहीं होगा।

यही यथेष्ट है। सभा में शोर-गुल होने लगा। बहुतों ने राय दी कि इतने बड़े मामले में किसी को कुछ आपत्ति नहीं हो सकती। जो लोग चुप थे उन्होंने भी इसी सत्य को मान लिया। क्योंकि आपत्ति क्यों नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न करने का साहस किसी को नहीं था। हुआ भी वैसा ही। कोलाहल बन्द होते ही शिरोमणि महाशय इसी फैसले को और जरा साफ करके जाहिर करना चाहते थे कि इतने में एक मृदु कण्ठस्वर सुनाई दिया—बाबूजी ?

सब लोग मुँह उठा-उठाकर देखने लगे। राय बाबू ने भी पहले इधर-उधर देखकर अन्त में अपनी कन्या का स्वर पहचान लिया और सस्नेह स्वर से आवाज दी—क्यों बेटों ?

हैम ने जरा मुँह आगे बढ़ाकर पूछा—अच्छा बाबूजी, यह कैसे मालूम हुआ कि साहब नाराज हैं ?

कन्या की बात सुनकर बड़े बाबू पहले तो अकचकाये, फिर बोले—“मालूम क्यों नहीं होगा ? अच्छी तरह से

मालूम हो गया है बेटी ।” इतना कहकर वे तारादास की ओर ताकने लगे ।

हैम ने पिता की दृष्टि का अनुसरण कर कहा—परसों से ही सब सुन रही हूँ बाबूजी । इस पर भी क्या इन्हीं की बात को सत्य मानना पड़ेगा ?

राय महाशय को इसका ठीक उत्तर नहीं सूझा, उन्होंने धीरे से कहा—क्यों नहीं ?

तारादास के सामने की लडकी को दिखाकर हैम बोली—इसे जत्र ढूँढकर हाजिर किया गया है तब क्या भूठ बोलना इतना कठिन काम है ? सिवा इसके भूठ-सच की जाँच भी तो होनी चाहिए । इस तरह एक तरफ का कहना सुनकर राय तो नहीं न दी जा सकती ?

बात सुनकर सब लोग अकचका गये । यहाँ तक कि घोड़शी भी अचम्भे में आकर हैम की ओर देखने लगी । सर्वेश्वर शिरोमणि ने इसका उत्तर दिया । वे हँसकर बोले—“बेटी वकील की घरनी है न, जिरह करना शुरू किया है । अच्छा, मैं देता हूँ इसका उत्तर ।” अब वे हैम की ओर देखते हुए बोले—यह देवता का मन्दिर—पीठ-स्थान है । यह तो मानती हो ?

हैम ने सिर हिलाकर कहा—मानती हूँ ।

“यदि ऐसा ही है तो क्या तारादास, ब्राह्मण होकर, इस देवमन्दिर में भूठ बोलते हैं पगलों ?” यह कहकर शिरोमणि ठठाकर हँसने लगे ।

उनकी हँसी की लहर कुछ कम होने पर हैम ने कहा—
आप भी तो वैसे ही ब्राह्मण हैं ताऊजी। आपने भी तो इस देव
मन्दिर में रखे होकर मिथ्या की वृष्टि कर दी। 'मैंने कहा है
कि इनसे पूजा कराने से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा' इसमें
रक्षो भर भी तो सत्य नहीं है।

शिरोमणि के होश उड़ गये। राय महाशय भीतर ही
भीतर जल-भुनकर रूखे स्वर से बोले—किमने तुमसे कहा है
हैम, कि यह सच नहीं है ?

हैम ने तनिक हँसकर कहा—“मैं कहती हूँ बाबूजी, यह
सच नहीं है। क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात न तो मुँह
से निकाली है, और न मन में सोची है। मैं उन्हीं से पूजा
कराऊँगी, इससे मेरे लडके का मङ्गल हो चाहे अमङ्गल।” पोडशी
की ओर देखकर बोली—“आपने शायद मुझे नहीं पहचाना,
परन्तु मुझे आपकी याद वैसी ही है। चलिए मन्दिर में, मुहूर्त
टला जा रहा है।” अब वह कदम आगे बढ़ाती हुई शायद
उसी की ओर जा रही थी। परन्तु अपनी लडकी के किये
अपमान के अत्यन्त कठोर आघात के कारण पिता से धोरज
वरते नहीं बना। वे एकाएक रखे होकर तीव्र स्वर से बोल
उठे—कभी नहीं। मैं जीते जी उसे मन्दिर में घुसने न दूँगा।
तारादास, फहो तो उसकी माँ की कहानी। जरा सुन तो वे
सब लोग। सोचा था कि उस बात के उठाने की जरूरत न
होगी, सहज में ही काम हो जायगा।

परन्तु शिरोमणि उसी दम खड़े होकर बोले—नहीं, तारादास को रहने दीजिए। उसकी बात पर शायद आपकी खडकी को विश्वास नहीं होगा राय महाशय। वही स्वयं कहे। चण्डी की ओर मुँह करके वही अपनी माँ की कहानी कह जाय। क्या राय है आपकी चौधरी साहब ? तुम क्या कहते हो जोगेन भट्टाचार्य ? क्यों ? वही खुद कहे।

गाँव के इन दोनो दिक्पालों के इस निर्मम अभियोग से सब लोग सन्नाटे में आ गये। पोडशी के पीले होंठ कुछ कहने की चेष्टा से बार-बार काँपने लगे। दूसरे ही चण् में शायद वह कुछ कह भी डालती, परन्तु हैम तेजी से उसके सामने आ गई और उसके हाथ पकड़कर शान्त दृढ़ स्वर से बोली—“रहने दीजिए, आप कुछ भी न कहिए।” फिर पिता के मुँह की ओर घूमकर कहा—“आप लोग इनका मामला तय करना चाहें तो स्वयं ही कर ले, परन्तु इनकी माँ की बात इन्हीं के मुँह से कबूल करा ले, इतना बड़ा अन्याय मैं कभी न होने दूँगी।” “ये लोग जो कर सके, करें। चलिए आप मेरे साथ मन्दिर के भीतर।” —यह कहकर हैम, किसी तरफ खयाल न करके, पोडशी को मानो उसकी अनिच्छा से ही सामने की ओर ढकेल ले चली।

८

मन्दिर के भीतर, एक तरफ, खड़ी होकर पोडशी ने कहा—
नहीं बहिन, मैं पूजा न करूँगी।

“क्यों ?” कहकर हैम ने विस्मय के साथ देखा कि भैरवी का चेहरा उदास है, उसमें किसी प्रकार के आनन्द या उत्साह का लेश भी नहीं है। हैम को प्रश्न का उत्तर उसने सोच-विचारकर ही दिया। कहा—“इसका कारण बतलाना होगा तो तुम्हीं को बतलाऊँगी, परन्तु आज नहीं। इसके सिवा मैं रोज पूजा करती भी नहीं, जो नित्य पूजा करते हैं, वही करें, मैं यहा खड़ी-खड़ी तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देती हूँ, वह दीर्घजीवी होकर नीरोग हो, और आदमी बने।” अपनी सन्तान के प्रति भैरवी के इस हार्दिक आशीर्वाद से भी माँ के चित्त से असन्तोष नहीं हटा। वह मुँह ताकती हुई बड़ी नरमी से बोला—“परन्तु आज के दिन की बात हो अलग है। अगर आप अपने हाथ से पूजा नहीं करोगी तो मुझे उन लोगों के सामने नीचा देखना पड़ेगा।” यह कहकर हैम खुले द्वार से बाहर की चञ्चल जनता की ओर देखने लगा। पोडशी ने भी उसी की दृष्टि का अनुसरण कर बाहर नजर दौड़ाई। देखा कि सब लोग एकटक इधर ही देख रहे हैं। उनके चेहरों पर तीव्र कलह का चिह्न स्पष्ट झलक रहा है—मानों अधीर सैन्य का दल अपने सेनापति की आज्ञा न पाकर बड़ी कठिनाई से युद्ध के वेग को रोक रहा है। परन्तु राय महाशय ने कोई आज्ञा नहीं दी। वे बड़े हेरिशियार आदमी हैं। वे उसी दम समझ गये कि इस हालत में धनी बेटों-जमाई से विरोध नहीं किया जा सकता। क्षण भर में ही

उनकी लाल आँखें नीची हो आईं । किसी से कुछ कहे-सुने बिना वे धीरे-धीरे मन्दिर के आँगन से उठ गये । दो-चार अनुगत आदमियों के सिवा और कोई उनके साथ नहीं गया । वृद्ध शिरोमणि भी बैठे रहे । और लोग यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि देखें इस मामले की समाप्ति कहाँ और कैसे होती है ।

हैम ने विनती के साथ कहा—माता भैरवी के आशीर्वाद को हम माता-पुत्र दोनों सिर आँखों पर लेते हैं, परन्तु उम आशीर्वाद को मैं आपसे ही पक्का करा लेना चाहती हूँ । बहुत अच्छा, मैं बात जोहूँगी । आज पूजा बन्द कराये देती हूँ । जिस दिन आपकी आज्ञा होगी उसी दिन फिर ऐसी ही तैयारी कर ली जायगी ।

षोडशी ने सिर हिलाकर कहा—बहिन, मैं यह बात आज तुम्हें बतला नहीं सकती कि ऐसा मौका फिर कभी आवेगा कि नहीं ।

हैम ने विस्मय के साथ पूछा—तो क्या अब आप चण्डी माता की भैरवी नहीं रहेंगी ?

षोडशी ने कहा—आज भी तो यही बात है ।

“तब ?” कहकर हैम ने देखा कि शिरोमणि महाशय द्वार का चौखट पकड़े खड़े हैं । आँखें मिलते ही उन्होंने दम्भ के साथ आगे बढ़कर कहा—तुम्हारे पिता और मैं दोनों यही बात तो अब तक गला फाड़कर कह रहे थे । उहुव

अच्छा, हम विलम्ब की परवा न करेंगे। कल हो, परसों हो, चाहे दस दिन बाद हो, वे पूजा करें। दें हमका उत्तर।

हैम षोडशी का मुँह ताकने लगी, परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया।

शिरोमणि ने भैरवी को म्लान मुख को धक कटाच से देखकर मुस्कुराते हुए रूहा—बेटी हैम, यह तो मामूली प्रश्न नहीं है। यह पीठस्थान है, देवता जाग्रत हैं। देवी की भैरवी के सिवा मामूली स्त्रियों को देवता को छूने का साहम नहीं होगा। इसके लिए हृदय का बल चाहिए। हृदय का बल हो तो रहें न यही माँ की भैरवी—हमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु हमें अच्छी तरह मालूम है कि यह काम इनकी सामर्थ्य के बाहर का है।

यह इशारा इतना सुस्पष्ट था कि लज्जा के मारे हैम का भी सिर नीचा हो गया। स्वयं षोडशी भी थोड़ी देर तक बेसुध की तरह कुछ न बोली। फिर एकाएक अपने को मानों धक्का मारकर उसने सचेत कर लिया। शिरोमणि को तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, परन्तु वृद्ध पुजारी को उसने हुकूमत के स्वर से कहा—“पुजारीजी, आप आगा-पीछा क्यों करते हैं? मैं आज्ञा देती हूँ कि आप रीति के अनुसार देवी की पूजा समाप्त कर अपना हिस्सा ले लीजिएगा, बाकी हिस्सा भाण्डार में धन्द करके चाभी मेरे पास भेज दोजिएगा।” हैम की ओर देखकर कहा—“बहुत तैयारी की गई है, इसे धर्वाद

करना ठीक नहीं बहिन । मैं आशीर्वाद दिये जाती हूँ, इसी से तुम्हारे पुत्र का सब तरह भला होगा । मैंने अब तक पूजा-पाठ नहीं किया है, मैं जाती हूँ । फुरसत मिलेगी तो मैं फिर आ जाऊँगी ।” यह कहते हुए वह वाद-विवाद किये बिना ही वहाँ से चली गई । कुछ देर के लिए किसी के मुँह में बात नहीं निकली, परन्तु दूसरे ही क्षण अपमान और अवज्ञा से बूढ़े शिरोमणि अहङ्कृशाहत पशु की तरह पागल हो उठे । उनका वयसोचित मर्यादा-ज्ञान और नकली गाम्भीर्य कहीं बह गया, अनुपस्थित षोडशी के प्रति एक अभद्र इङ्कित करके वे चिल्ला उठे—“अपकी मन्दिर में घुसेगी तो गरदनिया देकर निकाल दूँगा । कहीं की भ्रष्ट औरत ! सोचती है कि गाँव में आदमी नहीं हैं । याद रख, अभी जनार्दन राय जीते हैं, अभी तरु नरेश्वर शिरोमणि नहीं मरा है ।” इन अभियोगों और आक्षेपों का प्रतिवाद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था, बल्कि स्त्रियों में से उन्हीं के पक्ष की किसी बड़ी उम्र की स्त्री ने झुँझुकाकर कहा—“भाइ मारकर निकाल दे पण्डितजी इसे । बड़ा घमण्ड हुआ है, बड़ा घमण्ड । जमींदार के बगोचेवाले मकान में समूची रात और एक दिन बिताकर कहती है कि राजा बानू बीमार हो गये थे । अगर बीमार हो ही गये थे तो तेरा क्या ?” ये बातें कहते-कहते एकाएक देवी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसकी ईर्ष्या पीडित उच्छ्वल रसना क्षण भर में शान्त और सयत हो गई । उसी दम अपने कानों को दोनों हाथों से

छूकर बड़ी नरमी के साथ बोली—“माँ की भैरवी हैं। निन्दा करने से महापातक होगा। मैं निन्दा नहीं करती। परन्तु इतनी ज्यादाती अच्छी नहीं है। साहब अच्छे आदमी हैं इसी से छोड़ दिया, नहीं तो भूठी शिकायत के इलजाम में सगे घाप के हाथ में हथकड़ी पड़ जाती।” परन्तु इसके साथ और किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। षोडशी कुछ भी करें, हैं तो वे चण्डी माता की भैरवी, इस सत्य का उल्लेख न किया जाता तो शायद इस ईर्ष्यामूलक निन्दा का प्रवाह एकाएक न रुकता, परन्तु शिरोमणि का क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे फिर कुछ कहना चाहते थे किन्तु हैमवती ने धीरे-धीरे अपना उतरा हुआ चेहरा उठाकर कहा—शिरोमणि ताऊजी, वे बातें अब रहने दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, अब मेरे बेटे की मानता की पूजा तो हो जाय।

‘हाँ, हाँ, होने दो’ कहते हुए शिरोमणि अपने क्रोध और चिढ़ को उस समय के लिए दबाकर चले गये और हैम एक तरफ वेदोश की तरह चुपचाप बैठ गई। इन अप्रिय और लज्जाजनक बातों की चर्चा इस तरह हैम ने बन्द कर दी सही, और पुजारी ने भी आडम्बर के साथ पूजा शुरू कर दी, परन्तु हैम के चित्त में चैन नहीं था। अपने पिता और अन्य आदमियों के इस तरह के वर्ताव से और सबसे अधिक इस बूढ़े ब्राह्मण की नीचता से उसको बड़ो घृणा हुई। इसी प्रकार षोडशी के इस तरह के अनोखे आचरण से भी उसका चित्त

ग्लानि और सशय से भर गया। पुजारी का काम बे-रोकटोक कल की तरह चलने लगा। देवता की पूजा, बलि, होम आदि जो कुछ करना था सभी धीरे-धीरे समाप्त हो गया। उसके पुत्र के कल्याण के शुभकर्म में कुछ भी विघ्न नहीं हुआ, परन्तु पौडशी लौटकर नहीं आई।

नौकरनी की गोद में लडके को देकर हैम जब घर लौटी तब दोपहरी ढल गई थी। आकर उसने देखा कि उसके पिता या शिरोमणि ने अब तक बैठकर वृथा समय नहीं गँवाया है, बाहर की बैठक में बड़ा भारी कोलाहल मचा हुआ है। कोलाहल की प्रबलता से मालूम हुआ कि एक ही साथ अनेक वक्ता अपना-अपना मन्तव्य प्रकट करने का प्रयाम कर रहे हैं। उसकी इच्छा किसी तरह छिपकर घर में घुसने की थी, परन्तु वह पिता की दृष्टि से नहीं बच सकी। उन्होंने हाथ हिला-फर पुकारा—हैम, जरा इधर तो आ बेटी।

क्लान्तदेह और मलिन मुख लिये धीरे-धीरे सामने आकर उसने देखा कि वहाँ एक ही मनुष्य चुपचाप बैठे हुए हैं, जिन्हें श्रोता कहा जा सकता है—वह हैं उसी के पति मिस्टर एन० घसु, वैरिस्टर। वही सबकी वक्तृता के लक्ष्य हैं। दिन के डेढ़ बजे की ट्रेन से उनके आने की बात थी सदा, परन्तु निश्चय कुछ नहीं था। स्वामी को मामने देखकर हैम ने सिर का घूँघट जरा सा और खँच लिया। वह दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। उसके पिता ने सस्नेह आक्षेप के स्वर

से कहा—उस समय तो तुम बिना समझे-बूझे ही हमारी बातों से नाराज हो गई थीं बेटो । परन्तु अब तो अपने ही कानों सब सुन लिया न ? भेद समझने में अब तो तुम्हें कुछ बाकी नहीं न रह गया ? अब तुम्हीं कहो, ऐसी औरत को क्या देवता के स्थान में रक्खा जा सकता है ? यह खेल नहीं है ।

हैम ने धीरे से जवाब दिया—आप लोग जो अच्छा समझें, करें ।

उसके पिता ने हँसकर कहा—“कहूँगा क्यों नहीं बेटो । कहूँगा क्यों नहीं । करना ही तो हम लोग चाहते थे । अब अच्छा हुआ कि निर्मल आ गये । अगर कोई मुक़दमा ही लड़ना पडा तो मदद मिलेगी ।” उनके मन में शायद उस समय दूसरी तरफ जमींदार की मदद की आशङ्का हुई । परन्तु शिरोमणि ने एकाएक गरम होकर चिल्लाकर कहा—‘गरदनिया देकर निकाल दूँगा, इसमें नालिश की क्या जरूरत ? आपके दामाद जब खय उपस्थित हैं तब वही तसफिया करें । वही हमारे जज, वही हमारे मैजिस्टर हैं । हम दूसरे जज-मैजिस्टर को नहीं मानते । तुम क्या कहते हो जोगेन बाबू, तुम्हारी क्या राय है मित्तिर भइया ?’ अब वे कई आदमियों की और दृष्टि डालकर एकाएक खुद ही हँस पडे । यहाँ जोगेन बाबू या मित्तिर भइया की सम्मति लेने का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आया, परन्तु इतना अवश्य मालूम हुआ कि धनी दानशील जामाता विचार करें या न करें, भविष्य में

उनके अनुग्रह को प्राप्त करने का रास्ता उन्होंने अपने लिए बहुत सुगम कर लिया ।

ये दामाद बाबू पोशाक-पहनावे से, नख से शिख तक, पूरे अँगरेज थे । उन्होंने हँसकर जो जवाब दिया वह भी पूरे अँगरेजी ढङ्ग से । कहा—इन महन्त-महन्ताइनो का रहस्य सभी जानते हैं । ये जैसे असाधु हैं वैसे ही चरित्र-हीन भी । दुनिया में इनके लिए अकरणीय काम ही नहीं है । किसी कारण से भी इन्हें क्षमा न करना चाहिए । परन्तु पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आपकी इस भैरवी ने ऐसा कुछ अपराध किया है या नहीं ।

“निर्मल बाबू, जानने में बाकी कुछ भी नहीं है । कहो बेटो, अब तक क्या तुम्हें कुछ सन्देह है ? इसके सिवा उसकी माँ—यही तो एक बड़ी भारी बात है ।” यह कहकर शिरो-मणि ने हैम की ओर जरा कटाक्ष किया । हैम नीचे की ओर मुँह झुकाये चुपचाप खड़ी रही । उसके सलज्ज मौन भाव से सबको मालूम हुआ कि वह भैरवी के विरुद्ध अभियोग करने में सज्जुचा रही है और उसके पक्ष में भी कहने का उसके पास कुछ नहीं है ।

कन्या को पुकारकर जनार्दन राय ने कहा—दिन भर के उपवास से तुम्हारा चेहरा सूख गया है बेटो । जाओ, तुम भीतर जाओ । भैरवी को बुलाने आदमी भेजा गया है । उसके आने पर तुम्हें खरर दूँगा ।

हैम चली जा रही थी कि इतने में जो आदमी बुलाने गया था, उसने आकर जो कुछ कहा उसका सारांश यह है कि भैरवी ने अपने असामी दिगम्बर और विपिन से ताले तुडवाकर सब घरों पर दखन कर लिया है। यही नहीं, राय महाशय के हुक्म की परवा न करके वह यहाँ आने को भी राजी नहीं हुई। अन्व में फकार साहव के अनुरोध से राजी हुई है। शायद दस-पन्द्रह मिनट के अन्दर आ जाय।

शायद आ जाय। इतना घमण्ड। मानो जलती आग में घो की आहुति पड़ी। एक मामूली खो के इस प्रकार के प्रचण्ड दु साहस और स्पर्द्धा से वहाँ पर उपस्थित भतेमानसों के मुँह से जिन शब्दों और वाक्यों का प्रवाह निकलने लगा उसका पूरा हाल न बताकर एक बात बता देना आवश्यक है। इस भ्रष्टा खो को इसी दम गाँव से निकाल बाहर करने की ही नहीं, बल्कि इसे ताले तोड़ने और अनधिकार-प्रवेश करने के लिए पुनोस में गिरफ्तार करवा देने की भी आवश्यकता सब लोगों ने प्रकट की। एक जमाई बाबू ही इसमें शामिल नहीं हुए। शायद वे अपने साहबी ठाट और बैरिस्टरी की मर्यादा की रक्षा के लिए ही चुपचाप बैठे रहे हों। थोड़ी देर के बाद जब फोलाहल कुछ शान्त हुआ तब जमाई बाबू ने पूछा—ये फकीर साहव कौन हैं? ये एकाएक कहाँ से आ गये?

इनके सम्बन्ध में लोग तरह-तरह के मन्तव्य प्रकट करने लगे। शिरोमणि ने सबको रोककर कहा—अच्छे हैं खाक।

कहीं मुसलमान सिद्ध पुरुष हुआ है। वह कुछ नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि वे किसी की बुराई नहीं करते। बारुई नदी के उस पार एक बड़ के नीचे, बहुत दिनों से, रहते हैं। बीच-बीच में कहीं चले भी जाते हैं, फिर लौट आते हैं। दो साल तक नहीं थे, सुना है कि उन्हें इस बार यहाँ आये पाँच-छ दिन हो गये। शायद उन्हा की राय से उसने ताले तोड़े हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। हजार हो, है तो म्लेच्छ ही।

जमाई बाबू ने पूछा—परन्तु आज कैसे आ गये ?

तारादास अत्र तक चुप बैठा था। अब वह बोला—उस पार के उस धरगद के पासवाली जमीन चण्डी माता की है। इसी सिलसिले से जान-पहचान है। फकोर साहब पोडशी का, बहुत प्यार करते हैं। वे जब वहाँ रहते हैं तब पोडशी वहाँ जाया करती है। उनसे कुछ पढती भी है।

जमाई बाबू मुस्कराते हुए बोले—प्यार करते हैं। पढाते-लिखाते भी हैं। उम्र कितनी है इन फकोर साहब की ?

तारादास ने लज्जित होकर कहा—उड़्डे आदमी हैं। उम्र साठ-बासठ से कम न होगी। पोडशी को माता कहते हैं। एक बार पोडशी इतनी सख्त बीमार हो गई थी कि मरने को हो गई थी। उन्होंने उसे आराम किया था।

जमाई बाबू ने कहा—“अच्छा, ऐसा है। बात यह है कि उधर साधु-फकोर हैं, इधर डाकिनी-योगिनी हैं। इन भैरव-भैरवियों के दल को मैं—” वे अपनी बात पूरी नहीं कर सके।

अचानक अपनी खीं के मुँह के एक अश पर नजर पडते ही वे सँभल गये। और किसी ने कुछ नहीं कहा। परन्तु शिरोमणि चुप रहनेवाले जोव नहीं हैं। वे उस अपराध का वाकी हिस्सा पूरा करने के लिए चिन्ता उठे—“बहुत ठीक बाबूजी, बहुत ठीक। ये भण्ड साधु और सधुआइनें जैसी दुष्ट हैं वैसी ही भ्रष्ट हैं।” अब दाहिने और बायें नजर धुमाकर उन्होंने शायद जोगेन बाबू और मित्तिर भइया के कम से कम सिर हिलाने की भी आशा की। परन्तु अब की वे भी चुप रहे और द्वार की ओट में खड़ी हैमवती का मलिन मुख चण भर के लिए लाल हो उठा।

इसी समय भैरवी को साथ लिये वही मुसलमान फकीर, धीमी चाल से, आँगन के भीतर आ गये। किसी को सशय नहीं रहा कि शिरोमणि का उच्च स्वर उनके कानों तक पहुँचा है।

देखते देखते जब दोनों सामने आकर खडे हो गये तब किसी के मुँह से आवाज नहीं निकली। किसी ने स्वागत नहीं किया। बैठने को कहने की मौखिक सभ्यता भी किसी में न थी। परन्तु भीतर-भीतर सभी चञ्चल हो उठे। शिरोमणि को भी मालूम हो गया कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई है। परन्तु सब लोग वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। बसु साहब के लिए ये दोनों ही अपरिचित थे। दो-तीन मिनट तक वे इन दोनों को नय से शिख तक तीक्ष्ण दृष्टि से बार-बार देखने लगे। फकीर

के सिर के बाल, दाढ़ी, मूँछ सब दूध की तरह सफेद हैं। वे मुसलमान फकीर की मामूली पोशाक पहने हुए हैं सही किन्तु उनकी सबल सुदीर्घ देह के ऊपर यह साधारण पोशाक साधारण की अपेक्षा कहीं अच्छी मालूम होती है, यह नहीं जान पड़ता कि इनके कपड़े मिलकुल मामूली हैं। उनकी देह का रङ्ग पानी में भोंगकर और धूप से जलकर इस ढङ्ग का बन गया है जिससे यह अनुमान करना भी कठिन है कि इससे पहले असली रङ्ग क्या था। उनकी आँसों पर और चेहरे पर जरा सी उत्कण्ठित कौतूहल की छाया है सही, परन्तु और जरा ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इसके पीछे जो चित्त विराजमान है वह जैसा शान्त है वैसा ही उद्वेग-रहित और निडर है। पोंडगी इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी गेहआ रङ्ग की धोती, उसकी सुन्दर सुगठित गुले सिर के रूखे केश, उसकी उपवास-कठिन यौवन-सन्नद्ध देह की सब प्रकार के बाहुल्य से वर्जित विचित्र सुपमा, सबके ऊपर उसके नत नेत्रों की अपरिदृष्ट वेदना का अनुक्त इतिहास—इन सब ने एक साथ मिलकर बैरिस्टर साहब को क्षण भर के लिए विह्वल कर डाला।

फकीर की एक बात के धक्के से उनका यह विह्वल भाव छूट गया। साथ ही साथ अपनी दुर्बलता से लजित होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने में वे अकारण कठोर हो उठे। फकीर ने अपनी कौम के रिवाज के मुताबिक सलाम करके पूछा—

“बाबू साहब, क्या आपने ही बुला भेजा था ?” बाबू साहब ने उत्तर दिया—तुम्हें नहीं बुलाया, तुम जा सकते हो ।

फकीर खफा नहीं हुए । तनिक मुस्कराते हुए वे पोडशी को दिखाकर शान्त स्वर से बोले—लेकिन मुजरिम को मैंने ही हाजिर किया है बाबू साहब । ये तो आना ही नहीं चाहती थी । कुसूर सिर्फ इन्हीं का नहीं माना जा सकता, क्योंकि सब लोगों के शोर-गुल के बीच जो न्याय किया जाता है, उसमें न्याय (विचार) की अपेक्षा अविचार ही अधिक होता है । और वह भी तो आज सबेरे एक दफा हो चुका था । परन्तु आपका नाम सुनकर मैंने कहा कि चलो बेटो, हम चले । वे कानूनदों हैं, फिर बाहरी आदमी हैं । मुमकिन है, वे वाजिब फैसला ही कर दें ।

ट्रिस्टर साहब को मालूम हो गया कि इन फकीर के सम्बन्ध में उन्होंने ठाँक ही धारणा की है । ये कुछ भा क्यों न हों, मामूली गँवार भिखमङ्गे नहीं हैं । अतः जवाब में अब उन्हें कुछ भलमनमाहत दिखानी पड़ी । कहा—ये लोग तो ताला तोड़ने और अनधिकार-प्रवेश के लिए इन्हें पुलिस के सिपुर्द कराना चाहते थे । सुना है कि आपकी ही सलाह से ताले तोड़े गये हैं ।

फकीर ने हँसकर कहा—बाप रे बाप ! तो कुसूरवार वही अकेली नहीं हैं, उनके साथ एक मददगार भी है । परन्तु बाबू साहब, ताले तोड़ने की राय ही मैंने दी है, कानून तोड़ने

की सलाह नहीं दी। वह मकान देवोत्तर सम्पत्ति है और भैरवी ही हैं उसकी मालकिन। तारादास अगर नाहक ताला बन्द करने न जाते तो ऐसे अच्छे-अच्छे ताले इस तरह तोड़े न जाते। तारादास की ओर देखकर कहा—तारादास, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने दी थी बेटा? खैर, किसी ने दी हो, अच्छी सलाह नहीं दी।

तारादास उत्तर नहीं दे सका। किसी दूसरे आदमी को भी जब कोई बात नहीं सूझी और सब लोग चुप ही रहे तब शिरोमणि ने आडम्बर को साथ खड़े होकर कहा—फकीर साहब, उसे भैरवी किसने बनाया था? इसी तारादास ने। अब वह अगर उसे भैरवी न रखना चाहे तो उसकी इच्छा। यह मेरी राय है।

फकीर साहब ने कहा—पण्डितजी, राय आपकी है सही और इच्छा भी तारादास की ही है, लेकिन सम्पत्ति तो दूसरे की है। वह दूसरा व्यक्ति इन दोनों में से किसी में भी राजी नहीं है। कहिए, अब आप क्या करेंगे?

उनके जवाब और कहने के ढङ्ग से वैरिस्टर साहब हँस पड़े। कहने लगे—“इन लोगों का कहना यह है कि वर्तमान भैरवी ने जो अपराध किया है उससे ये देवी की सेविका नहीं रह सकती। इसका कुछ जवाब है इनके पास?” अब उन्होंने पीढगी के आन्त मुस को एक बार तिरछी नजर से देग लिया।

फकीर ने कहा—इन्हे अभियुक्त के रूप में आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, फिर अपने को बेकसूर साबित करने का बोझ भी इन्हीं पर लादने का जुल्म मैं कर नहीं सकूँगा दावू साहब ।

वैरिस्टर साहब मन ही मन लज्जित होकर चुप हो गये । परन्तु शिरोमणि ने तीव्र स्वर से पूछा—जमींदार जीवानन्द चौधरी ने भैरवी को नौकरो से पकडवा मँगाकर रात भर रोक रक्खा था, यह बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, तब क्यों उमने मजिस्टर साहब के सामने कल भबरे भूठ कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और जमींदार के बीमार होने से रात भर अपनी ही इच्छा से वहाँ रही थी ? वह यदि निष्पाप है तो दे इसका जवाब ।

फकीर ने कहा—जमींदार के अत्याचार से चिढकर वह क्रोध की भोंक में अपनी इच्छा से ही चली गई थी । यह बात तो भूठ नहीं है पण्डितजी, और जमींदार भी अचानक बहुत बीमार हो गये थे यह घटना भी सच ही है ।

जनार्दन राय अब तरु चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे । उनसे और सहा नहीं गया । वे कह उठे—अगर यही सच है फकीर साहब, तो अपने पिता के विरुद्ध खड़े होकर अत्याचारी को बचाने की क्या जरूरत थी ? वह बीमार पड़े तो इसका क्या ? बीमारी में सेवा करने के लिए बीजगाँव के जमींदार, पालकी भेजकर, इसे बुला तो नहीं न ले गये थे ? असल बात

यह है कि इसे हम लोग अब नहीं रखेंगे। हमें भीतर का भेद मालूम हो गया है। इसके सिवा इसको अगर कुछ कहना है तो इसे ही कहने दीजिए। आप मुसलमान, परदेशी हैं, आपको तो हिन्दू धर्म के बीच में पडकर पश्व होने की जरूरत नहीं।

उनकी बात की तेजी और तीव्रता कुछ देर तक घर में गूँजने लगी। वैरिस्टर माहब को भी एक तरह की बेचैनी मालूम होने लगी। और मौन भैरवी की छाती के अन्दर से कोई उत्तर, निकल आने के लिए, धार-धार उच्चुसित हो रहा था। उसी के चिह्न को पल भर में पोडशी के मुँह पर देखकर फकीर साहब थोड़ा हँसे। इसके बाद जनार्दन राय की ओर घूमकर वे हँसते हुए बोले—“राय बाबू, बहुत दिन की बात है, आपको शायद याद नहीं है। मैं उन दिनों मन्दिर के पीछे, उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, रहता था। पोडशी तब छोटी सी लडकी थी, तभी से मैं उसे माई कहा करता था। मुसलमान होकर भी जो गलती एक धार मँने कर डाली है उसके लिए आज मुझे माफ कीजिएगा। उसी माता की इतनी बड़ी विपत्ति के समय भी क्या मैं बिना आये रह सकता था? माता तो मामूली चीज नहीं है राय बाबू, नहीं तो आज सबेरे जब आप इन्हीं के मुँह से इनकी माता की लज्जा की बात कहलवाना चाहते थे तब अपनी इस बेटी की धमकी से आपको इतना घबराना नहीं पडता।” यह कहकर फकीर साहब ने द्वार से सटी सडी हैमबती की ओर इगारा किया।

राय महाशय को एकाएक कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने अन्त में कहा—ये सब वाहियात बातें हैं।

फकीर साहब ने वैसे ही हँसकर कहा—पका बीज भी पत्थर पर पडने से वाहियात हो जाता है—यह मैं अपनी इस उम्र में जानता था। मैं वाजिब बात ही कहता हूँ। मेरी माँ ने उस महापापी जर्मोदार को क्यों बचाया, यह मैं भी नहीं जानता—पृछने पर भी जवाब नहीं मिला। मुझे एतवार है कि कोई सबब जरूर था, लेकिन आप लोग उस सबब को घुरा समझते हैं। यहाँ मैं मातङ्गिनी भैरवी की नजोर दे सकता था, मगर एक की भलाई करने के लिए दूसरे की घुराई करना मेरे मजहब मे मना है। इसलिए मैं वह नजोर न दूँगा। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है राय बाबू। अगर यह भगडा सिर्फ तारादास के साथ ही होता तो मैं बीच में न पडता। उस बेचारे ने अपनी अकृ और ताकत के मुताबिक अपना कर्तव्य किया है, लेकिन आप लोग—प्रासकर आप—कमर कसकर क्यों खडे हो गये। षोडशी तो अकेली नहीं है, और भी बहुत सी लडकियाँ हैं। गाँव की छाती पर बैठकर जब वह आदमी दिन-रात बहू-बेटियों की इज्जत बिगाड रहा था तब कहाँ थे शिरोमण्जि और कहाँ थे जनार्दन राय? वह जब गरीबों का खून चूसकर पाँच हजार रुपया वसूल कर लें गया तब उनकी छाती का कितना खून आपने उनकी जमीन-जायदाद घर-द्वार रेहन रखकर भरा था? लेकिन

ज्यादा खोद-विनोद करने की अब क्या जरूरत । यहाँ आपके बेटी-दामाद मौजूद हैं, उन लोगों के सामने मैं आपके महापाप का भण्डा नहीं फोडना चाहता ।

इतना कहकर फकीर साहब चुप हो गये, परन्तु उनके इस उत्कट अभियोग के अन्तिम शब्द समाप्त हो जाने पर भी मानो घर में गूँजने लगे । किसी के मुँह से बात नहीं निकली, घर में सन्नाटा छा गया । केवल एक तीव्र कण्ठ की ध्वनि चारों ओर की दीवारों में धक्के खा-खाकर धिक् ! धिक् ! करने लगी ।

हैम ने किसी की ओर नहीं देखा । वह चुपचाप नीचे की ओर मुँह किये वहाँ से खिसक गई । बैरिस्टर साहब वहाँ, अपनी कुर्सी पर, कठपुतली की तरह चुपचाप बैठे रहे ।

फकीर ने भैरवी को लक्ष्य कर कहा—“चलो बेटी, हम लोग जायें ।” अब वे उसके साथ वहाँ से चल दिये । आँगन के बाहर आकर देखा कि हैमवती फाटक के पाम चुपचाप खड़ी है । उसकी आँखों में आँसू भर आये हैं । अपने वही आँसू-भरे नेत्र फकीर के मुँह पर स्थापित करके उसने कहा—
बाधा, आप मेरे पति को माफ कीजिएगा ।

फकीर ने विस्मित होकर कहा—क्यों बेटी ?

हैम ने इसका उत्तर न देकर पृच्छा—मैं उनको साथ लेकर आपके आश्रम में आऊँ तो आप मिलेंगे ?

अब फकीर साहब स पड़े, फिर स्निग्ध स्वर से बोले—
क्यों नहीं मिन्नूंगा बेटी ! तुम दोनों का नेवता है, फुरसत
पाते ही आना ।

६

पोडशी को अच्छी तरह मालूम था कि मन्दिर का मामला
यहीं खतम नहीं हो गया, परन्तु विपत्ति ने उसे दुबारा जिधर
से घेरा उस ओर से आक्रमण होने की उसे आशङ्का तक न थी ।
यहाँ रहने पर फकीर साहब ऐसे ही बीच बीच में आया करते
थे, परन्तु कल शाम को ही वह यहाँ से गये, बीच से एक ही
रात बीती है, फिर आज सवेरे ही आकर हाजिर हो जायँगे ऐसा
नियम उनका कभी न था । पोडशी अभी नहा आकर पूजा
पाठ करने के लिए घर में जा रही थी कि एकाएक, असमय
में, उन्हें देखकर चिन्तित हुई । तुरन्त नमस्कार कर एक आसन
विछा दिया और घबराकर पूछा—इतने सवेरे कैसे पधारे ?

वे बैठकर जरा हँसने की चेष्टा करते हुए बोले—फकीर
आदमी हूँ, दुनिया के सुख दुःख की कुछ परवा नहीं है बेटी,
तो भी कल रात को अच्छी तरह नोंद नहीं आई । पोडशी,
देह धारण की ऐसी ही विडम्बना है । न मालूम यह मिट्टी
के नीचे फव जायगी ।

पोडशी ने शरीर की घोमारी ही समझकर पूछा—तो क्या
आपकी तबीयत कुछ स़राब है ?

फकार ने सिर हिलाकर कहा—नहीं। तबोयत मेरी अच्छी ही है। कन शाम को ये लोग मेरे आश्रम में गये थे। साथ में जमाई बाबू साहन भी थे, एक कौड़ा भा था। उसे मैं बखूबी जानता हूँ—उसने बहुत सी बातें घटाई। उनमें से दो-एक बातें तुमसे बिना पूछे मैं नहीं रह सका बेटी।

पोडशी बोली—पूछिए।

फकार ने कहा—देखो बेटी, मैं मुमलमान हूँ। तुम्हारे देवी-देवताओं के बारे में मुझे कोई आग्रह नहीं रहना चाहिए, है भी नहीं—परन्तु मैं तुम्हें माँ कहता हूँ, तो क्या तुमने कह दिया है कि अपने हाथ से फिर कभी चण्डी माता की पूजा न कर सकोगी ?

पोडशी ने गरदन हिनाकर जताया कि यह बात मत्य है।

फकार ने कहा—“लेकिन अब तक तो तुम्हें यह रुकावट नहीं थी।” पोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर उन्हेने कहा—जो लोग तुम्हें नहीं चाहते वे अगर तुम्हारे इस नये बर्ताव को जुरा समझें तो उसका तो कोई जबाब नहीं दिया जा सकता पोडशी ?

इसका भी कोई सद्बुत्तर देने की चेष्टा न कर पोडशी चुपचाप खड़ी रही। तब फकार का मुँह भी बहुत गम्भीर हो गया, वे कुछ देर तक चुप रहकर बोले—इसका सब कहने लायक होता तो तुम मुझसे जरूर कहतों। इसके सिवा एककौड़ी ने एक बात और भी कही है। उसने कहा कि

जर्मीदार साहब को बहुत उम्मेद थी कि तुम उनके साथ जाओगी। यहाँ तक कि एक दूसरी पालकी भी मँगा रखी थी और जाने के पहले तक उन्हें पूरा भरोसा था कि तुम लौट आओगी।

अबकी षोडशी ने उत्तर दिया। कहा—उनकी उम्मेद या भरोसे के लिए भी क्या मैं ही जिम्मेवार हूँ ?

फकीर ने तुरन्त सिर हिलाकर कहा—नहीं, कभी नहीं। परन्तु बात ऐसी है कि सुनने से भी बुरी मालूम होती है। अच्छा बेटी, जिस घटना से ये बुरी बातें पैदा हुई हैं उसका सबब क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती ? उस आदमी को तुमने इस तरह क्यों बेदाग बचा दिया, इसकी तो कोई याद ही मुझे नहीं लगती षोडशी।

षोडशी ने पहले सोचा कि इस प्रश्न का भी वह उत्तर न दे, परन्तु बुढ़े आदमी के उद्विग्न मुख के स्नेह-करुण नेत्रों को देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा—फकीर साहब, क्या उस बीमार आदमी को जेल भेजना ही ठीक था ?

फकीर साहब अकचकाये। शायद कुछ चिढ़े भी। कहने लगे—उसके निर्णय का भार तो तुम्हारे ऊपर नहीं है माँ, वह तो राजा के जिम्मे है। इसी लिए सरकारी जेल में भी अस्पताल है, बीमार मुजरिम का भी वहाँ इलाज कराया जाता है। लेकिन यही अगर किया हो तो कहना होगा कि तुमने बेजा किया है।

उनके मुख की ओर षोडशी एकटक देखने लगी। फकीर ने कहा—जो होना था, हो गया, मगर आइन्दा यह फसर पूरी कर लेनी होगी।

उनके मुँह की ओर ताकती हुई षोडशी बोली—इमका मतलब ?

फकीर ने कहा—उस आदमी के जुल्म और ज्यादाती की कोई हद नहीं है, यह तुम्हें मालूम है। उमको सजा होनी चाहिए।

अब की षोडशी बहुत देर तक चुप रही। इसके बाद सिर हिलाकर धीरे धीरे बोली—मैं सब जानती हूँ। उन्हें सजा दिलाना ही शायद आप लोगों को उचित है, परन्तु मुझे इस झमेले में डालने की जरूरत नहीं—उनके विरुद्ध मैं गवाही न दे सकूँगी।

फकीर ने पूछा—घात क्या है षोडशी ?

षोडशी मुँह नीचे किये चुपचाप खड़ी रही। बहुत देर तक किसी के मुँह से कुछ घात नहीं निकली। नौकरनी धन्धा करने आ रही थी, दरवाजे के पास उसे देखकर फकीर ने अपने को सँभालकर मृदु स्वर से कहा—ना मैं अब जाता हूँ।

षोडशी ने जरा झुककर उन्हें नमस्कार किया। वे धीरे-धीरे वहाँ से चले गये।

आज दिन भर षोडशी को फकीर साहब के प्रशान्त मुख की गम्भीर विपण्यता ही जय-त्रय नहीं याद आने लगी बल्कि जिस अनुच्चारित वाक्य को वे एकाएक पीकर चुपचाप चले

गये वह भी भिन्न-भिन्न रूपों में, भिन्न-भिन्न ढाँचों में, उसके कानों में गूँजने लगा। उसे स्पष्ट मालूम होने लगा कि इस साधु को मेरे प्रति जितनी इच्छा और स्नेह था उसे, मेरे विषय में ठीक-ठीक पता न मिलने पर, उनको आज बहुत कम करके ले जाना पडा। इस घाटे का परिमाण कितना अधिक है, इसे षोडशी के सिवा और कोई नहीं जानता था। उस स्नेह के वापस मिलने का भी कोई रास्ता उसको नहीं सूझा। अपना बाल्य-इतिहास किसी से कहा नहीं जा सकता—यहाँ तक कि इस फुकार से भी नहीं। क्योंकि उससे जो पुरानी कहानियाँ प्रकट होंगी वे अपने लिए कितनी ही लज्जा की क्यों न हों, सह स्वी जा सवेगी, किन्तु उसकी जो माता आज पर लोक में है उसे भी इस धरती पर, इस सिलसिले में, खींच लाकर धूल में मिला देना होगा। इसका अन्त यहाँ थोड़े हो जायगा। स्वामी का स्पर्श करना भैरवी के लिए मना है। मुहव से यही निष्ठुर नियम मानना पड रहा है। अतः भला-बुरा कुछ भी हो, जीवानन्द के दिखौने पर बैठकर एक दिन जिस हाथ से उसकी शृश्रूपा की है उसी हाथ से देवी की सेवा पूजानहीं की जा सकती, यह निश्चित है। फिर भी इसी देव मन्दिर के आँगन में तारादास ने जब उसे एक अज्ञात कुल-शील व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया था तब उसने कोई आपत्ति नहीं की और यह सब जानकर भी, इतने दिनों तक जरा भी आगा-पीछा न करके, वह भैरवी का काम करती आ रही है, आज

यदि क्रुद्ध हिन्दू समाज उससे कैफियत तलब करे तो नतीजा क्या होगा, यह तो उसके लिए चिन्तातीत ही है। यह तो हुई एक तरफ की बात, परन्तु जिधर उसका कोई धस नहीं चलता, कौन जानता है वहाँ क्या होगा ? एक रोज जो जीवानन्द ने उसके साथ निरी दिल्लगी समझकर विवाह कर लिया था, उस इतिहास को वह अगर आज सिर्फ़ किस्सा बताकर उड़ा दे तो उसको प्रमाणित करने के लिए सिवा उसके और दूसरा आदमी जीवित नहीं है।

घर के काम-धन्धे के बारे में रानी की माँ के पृछने पर षोडशी ने क्या जवाब दिया, उसका मतलब समझ में नहीं आया। मन्दिर के पुजारी ने एक विशेष आज्ञा लेने के लिए आकर अन्यमनस्क भैरवी से जो हुक्म पाया उसे वह समझ नहीं पाया। अपनी नित्य की पूजा में बैठकर आज षोडशी किसी तरह मन को स्थिर नहीं कर सकी। दूसरी ओर जिस लिए उसका चित्त उद्भ्रान्त और चञ्चल हो रहा है उसका ठोक स्वरूप भी उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। केवल कुछ अस्फुट और अनुच्चारित वाक्यों ने सवेरे से अर्धहीन प्रलाप के रूप में उसे आच्छन्न कर रक्खा। रसोई का सामान ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, उसने रसोईघर में पैर तक नहीं रक्खा—यह सब उसे अच्छा नहीं लगा। उसको पता भी न लगा कि उसका सारा दिन कैसे और कहाँ बीत गया। इसी तरह शीतकाल के तीसरे पहर जब असमय

में ही अंधेरा घना होने लगा तब उससे घर के भीतर अकेले नहीं रहा गया। वह उसी दम बाहर निकल आई और फकीर साहब को याद कर नदी के उस पार उन्हीं के आश्रम की ओर चल पड़ी। कई वार ऐसा हुआ है कि जरा धूमकर अपने आश्रित विपिन या दिगम्बर को, उनके मकान के सामने से बुलाकर, साथ ले गई है, परन्तु आज बत्ती के भीतर उन्हें बुलाने जाने का न तो उसको साहस हुआ और न इच्छा ही हुई। वह अकेली खेतों में होती हुई नदी की ओर तेजी से चलने लगी। उसको याद भी नहीं हुई कि सारा मकान खुला पड़ा है।

इस रास्ते से फकीर साहब का आश्रम बहुत दूर नहीं है, शायद मील भर भी न हो और नदी में इतना पानी भी नहीं है कि सहज ही उसे पैदल पार न किया जा सके। अतः इधर चिन्ता की कोई बात न थी। केवल लौट आने की बात एक वार याद आई, परन्तु भीतर से भरोसा भी था कि यदि रात हो जायगी तो फकीर साहब कुछ उपाय करेंगे ही, उसे अकेला कभी न छोड़ देंगे। मन की इस हालत ने उसे इस सुनसान मार्ग में और उससे भी अधिक सुनसान बालुकामय नदी के तट पर सन्ध्या को आते देखकर भी आगा-पीछा करने नहीं दिया और बारूई के उस पार सीधे उस विशाल वरगद के नीचे साधु के आश्रम में लाकर पहुँचा दिया। वहाँ पहले ही जिनसे भेंट वे फकीर साहब नहीं, राय महाशय के दामाद बैरिस्टर

साहब थे। इनको देखते ही पोंडशी थकचका गई। आज ये कोट-पेंट के बदले साधारण बङ्गाली भले आदमी की तरह धोती और कमीज-वगैरह पहने हुए थे। वे भी भैरवी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। सोचकर कुछ कर्तव्य निश्चित न कर सकने के कारण, शायद अभ्यासवशत, खड़े होकर उन्होंने किसी तरह नमस्कार कर डाला।

भैरवी ने चारों ओर देखकर पूछा—ये कहाँ गये ?

बसु साहब ने कहा—मेरा भी प्रश्न यही है। शायद नजदीक ही कहीं गये हों। मैं कोई घण्टे भर से इन्तजार कर रहा हूँ।

भैरवी ने सिर हिलाकर कहा—शाम को वे कहीं रहते नहीं हैं, शायद अभी आ जायें।

“यहाँ पर उनका यही नियम है, यही मैं सुन आया हूँ। परन्तु शाम तो हो गई। आकाश की हालत भी अच्छी नहीं है।” कहकर बसु साहब मामले के मैदान के उस ओर देखने लगे। पोंडशी भी उन्हीं की दृष्टि का करके उस तरफ देखकर चुप हो गई। पश्चिम दिशा के में काले-काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। इम सुनसान छायाच्छन्न पृथ्वी के नीचे, अँधेरे में खड़े होकर दोनों बात नहीं सूझी, परन्तु इस बेमौक़े की हालत में खड़े ही सड़क जाने लगे। इम चुप्पी के सङ्घट से छुटकारा ही मानो बसु साहब एकाएक शील उठे—“काल

चला जाऊँगा। नहीं मालूम फिर कब आना हो, परन्तु फकीर साहब से मिले बिना ही चले जाने से हैम ने रोका—इसलिए—परन्तु फकीर साहब कहीं चले तो नहीं गये ?” यह कहकर वे एक कदम आगे बढ़ गये और भोपड़ी के सामने जाकर भीतर की ओर भाँकते हुए बोले—साफ-माफ़ दिखाई नहीं पड़ता, परन्तु मालूम नहीं होता कि कहीं कुछ है। मालूम नहीं, मुसलमान फकीर लोग धूनी जलाते हैं या नहीं, परन्तु ऐसा ही कुछ पानी से बुताया गया जान पड़ता है। आप जरा देखिए तो, मैं भीतर नहीं जाऊँगा। फि जूल इन्तजार करने में कोई लाभ नहीं—अब वे पोडशी के पास लौट आये।

यह सुनते ही पोडशी की छाती धडकने लगी। फकीर के रहने न रहने की जाँच किये बिना ही उसको निश्चय हो गया कि दुनिया में उसके एकमात्र शुभेच्छु आज चुपचाप चले गये हैं। इस चुपचाप चल देने का कारण ससार में उसके सिवा और कोई नहीं जानता। पोडशी बेवस की तरह साधु की भोपड़ी के भीतर जाकर बीच में चुपचाप खड़ी हो गई। कहीं कुछ नहीं है, भीतर घुसते ही उसको मालूम हो गया कि यह भोपड़ी आज विलकुल खाली है, परन्तु वह उसी दम बाहर नहीं निकल सकी। उसकी छाती के अन्दर यही बात अँगारे की तरह जलने लगी कि वे उसे, सचमुच दोषी समझकर ही, छोड़ गये हैं, और इसकी सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। वहाँ निश्चल मूर्ति की तरह खड़ी

हुई उसको बहुत सी बातें याद आने लगीं । फकीर साहब उसको कितना चाहते थे, इसको उससे अधिक और कौन जानता है ? तो भी बिना जाने-बूझे वे अपराधी का पत्त लेकर उन लोगों से लड़ने गये थे—इसी की लज्जा और पश्चात्ताप ने इस सत्याश्रयी सन्यासी को चुपचाप चले जाने के लिए बाध्य किया है—यह अनुभव उसको निःसंशय रूप से होने लगा और जिस वेदना के कारण वे चले गये हैं उस वेदना के गुरुत्व की उपलब्धि करने में भी उसको देर नहीं लगी । परन्तु यह हाल उन्हें बतलाने का मौका कब मिलेगा, या कभी मिलेगा कि नहीं, यह भी भविष्यत् के गर्भ में छिपा हुआ है । इसी चिन्ता में बहुत देर हो गई । एकाएक खुले दरवाजे से हवा का झोंका भीतर आकर उसके शरीर में लगने से उसको होश हुआ और याद आई कि बाहर एक आदमी अब तक उसी की बाट जोह रहे हैं । परन्तु इतनी ही देर में आकाश ऐसा मेघाच्छन्न तथा इतना प्रगाढ़ अन्धकार हो सकता है और हवा इतनी प्रबल होकर आँधी-पानी की सम्भावना निकट ही हो सकती है यह उसको नहीं मालूम था । बाहर आने पर उसने देखा कि वृत्त के नीचे बसु साहब बैठे हुए हैं, उनके मफोद फपडों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता । वास्तव में उन्हें इस तरह प्रतीक्षा करते देखकर षोडशी के मन में बड़ा सङ्कोच होने लगा । बसु साहब ने सटके होकर कहा—अभी तक तो नहीं आये, क्या आपको अभी आशा है कि वे आ सकते हैं ?

पोडशी ने मृदु स्वर से उत्तर दिया—क्या मालूम, शायद अब न आवें ।

बसु साहब ने कहा—मुझे नहीं मालूम कि यहाँ फकीर साहब का असवाव वगैरह क्या-क्या था, परन्तु घर तो बिलकुल खाली पडा है,—उनका यों एकाएक चला जाना क्या आपको सम्भव प्रतीत होता है ?

पोडशी धीरे-धीरे बोली—सोलहों आने असम्भव भी नहीं है । बीच-बीच में वे इसी तरह एकाएक चले जाते हैं ।

“फिर कितने दिन में लौटते हैं ?”

“कुछ ठोक नहीं है । अब की तो कोई तीन माल के चाद लौटे थे ।”

बसु ने कहा—तो चलिए, घर लौट चलें ।

“चलिए”—कहकर पोडशी के आगे बढ़ते ही बसु ने कहा—परन्तु जाने का सुभीता तो सोलहों आने देस पडता है । एक तो रेती के ऊपर रास्ते का चिह्न तक नहीं है, दूसरे अँधेरा इतना गहरा है कि अपने ही हाथ-पैर नहीं सूझते ।

पोडशी चुपचाप धीरे-धीरे चल पडी थी, कुछ बोली नहीं । बसु ने कहा—“हवा के शब्द से मालूम नहीं होता, परन्तु पानी पडने लगा है । पेड के नीचे से निकलते ही भीगना पडेगा ।” इस पर भी जब पोडशी कुछ नहीं बोली तब बसु साहब ने कहा—देरिए, मैं यहाँ का रास्ता नहीं पहचानता,

इसके सिवा सुना है कि यहाँ साँप का भी भय बहुत है। इस अँधेरे में क्या—

पोडशी रुकी नहीं, चलते-चलते ही बोली—रास्ता मैं जानती हूँ। आप मेरे पीछे-पीछे चले आइए।

बसु साहब हँस पड़े, बोले—यानी माँप वसे तो आपको ही वसे। आप सन्यासिनी हैं, आपकी तरफ से यह प्रस्ताव ठीक ही है, परन्तु मुश्किल यह है कि मैं भी मर्द हूँ। यह बात आप किसी से कहेंगी नहीं, मैं जानता हूँ—यहाँ तक कि हैम से भी नहीं कहेंगी—परन्तु तो भी मैं वैसा नहीं कर सकूँगा।

अब पोडशी को रुकना पडा। अँधेरे में ठीक मालूम नहीं हुआ, परन्तु बसु साहब की बातें सुनने से उसके भी मुँह पर हँसी की रेखा झलक गई। दम भर चुप रहकर उसने पूछा—तब फिर क्या करना चाहिए ?

साहब ने कहा—कहना कठिन है। परन्तु सलाह पकी होने के पहले ही भोग जाना पडेगा। बरगद के पत्तों से अब पानी नहीं रुकता।

बात ठीक थी। क्योंकि ऊपर की जलधारा अब पत्तों के भीतर से होकर नीचे आ रही थी। पोडशी बोली—तो आप उस भोपडी में थोड़ी देर ठहरिए, मैं हैम को खबर देकर आदमी और लालटेन भेजने का इन्तजाम कर दूँगी। मुझे अभ्यास है, इस पानी से मेरी कोई हानि नहीं होगी।

साहब ने कहा—प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर है। क्योंकि साहब हो जाने से वज्जाली क्या होते हैं, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। परन्तु मुझमें अभी तक जरा सी फसर रह गई है। हैम के कारण मेरे भीतर के साथ बाहर का अभी तक पूरा मेल नहीं हो सका है। आपका यह प्रस्ताव भी अचल है—अतः चलना ही स्थिर है। चलिए।

वृत्त की छाया को छोड़कर बाहर आने से दोनों को मालूम हो गया कि चलना प्रायः असम्भव है। क्योंकि हवा के वेग से वृष्टि की धाराएँ केवल तीर की तरह देह में चुभ ही नहीं रहो हैं, बल्कि पहले जो धूल उड़कर आकाश में छा गई थी, वह जब तक जलधारा से धुलकर जमीन में न गिरे तब तक आँसु खेलकर चलना भी दुःसाध्य है। चुपचाप चलते-चलते एकाएक, पोछे आइट पाकर, पोडशी खड़ी हो गई। पूछा—क्या आपको चोट लगी ?

वसु साहब ने किसी प्रकार अपने को सँभाल लिया और सीधे खड़े होकर कहा—हाँ, लेकिन आशा से अधिक नहीं लगी। चश्मा समेत मेरी आँखें चार हैं सही, पर देखने की शक्ति चौथाई भी होती तो कुशल थी। चलिए।

पोडशी आगे नहीं गइो। उसने पल भर चुप रहकर पूछा—क्या आपको सचमुच में ही अच्छी तरह नहीं देख पड़ता ?

वसु ने “हाँ” कह दिया। इसके बाद जरा हँसकर कहा—बहुत सी अँगरेजी किताबें याद करके साहब होना पडा

है—उसकी दक्षिणा उन्हेंने अच्छी तरह बसूल कर ली है। परन्तु अब रूडे होकर भिगाइए नहीं—चलिए। दोनों आँखे मूँदकर चलने से जितना दिखाई पडता है उतना मैं अवश्य देख सकूँगा—यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।

पोडशी का गला करुणा से कोमल हो गया। उसने कहा—तब तो नदी पार होने में आपको बड़ा कष्ट होगा।

धसु ने कहा—यह कैसे कहूँ। परन्तु नदी पार होने के पहले भी बहुत आराम नहीं मिल रहा है। खैर, इस मैदान में रूडे रहने से भी तो समस्या हल नहीं होगी।

पोडशी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा “आप मेरा हाथ पकडकर धीरे-धीरे चले आइए।” अब उसने अपना हाथ बढ़ा दिया।

इस अपरिचित नारी का आचरण और साहस देखकर वाक्पटु बैरिस्टर साहब जरा देर के लिए विस्मय से कुछ भी कह नहीं सके। फिर उसके फैलाये हुए हाथ का आश्रय व्यग्रता के साथ लेकर धीरे-धीरे बोले—चलिए। अब मैं सचमुच ही दोनों आँखे धन्द करके चल सकूँगा।

पोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। दोनों को धीरे-धीरे कुछ दूर घट जाने पर उसु साहब एकाएक बोले—मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके लिए माफी माँगता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए।

पोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह धीरे-धीरे चलने लगी। बसु साहब ने कहा—“आपसे हैम की बचपन की मित्रता है। मेरा उस दिन का वर्ताव कैसा भी रहा हो, किन्तु मुझे आप शत्रु न समझे।” अब उन्होंने उसके हाथ को जरा सा दवा दिया।

पोडशी बिलकुल चुपचाप थी। बसु साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा—मालूम होता है, ये लोग आपको सहज ही न छोड़ेंगे। बहुत सम्भव है, मुकदमा भी चल। शायद फकीर साहब सचमुच ही चले गये हैं। शायद मैं भी चला जाऊँ—

पोडशी ने कुछ नहीं कहा। वे थोड़ी देर में बोले—आप देवी की पूजा नहीं करेगी—यह आपने क्या नाराज होकर कहा है ?

इस बार पोडशी ने उत्तर दिया—नहीं।

“तो क्या वास्तव में इसका कोई कारण है ?”

पोडशी ने इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया। वाद को कहा—अब हम नदी में आ गये। आप जरा सँभलकर उतरिएगा।

इसके बाद देर तक कुछ बातचीत नहीं हुई। पोडशी उन्हें बड़ी सावधानी से नदी पार ले आई। आते समय साहब जूता उतारकर आये थे, परन्तु अब इस दुर्भेद्य अन्धकार में नङ्गे पैरों जाने का साहस नहीं हुआ। वे उस पार जूता

पहने हुए पहुँचे। आराम की साँस छोड़कर उन्होंने कहा—
अब जी में जी आया, एक बड़ी अलफ कट गई।

बड़ी अलफ से बच जाने पर साहब बहुत निश्चिन्त हो गये। उन्होंने कहा—मन्दिर में पुजारी है सही, तो भी पूजा करना आपके कर्तव्य का ही अङ्ग है। परन्तु उस प्रश्न को आपने दवा दिया। इधर जिस दुर्दान्त शैतान जमींदार को बचाना आपके कर्तव्य का अङ्ग नहीं था उसे आपने जिस उपाय से बचाया है वह विचित्र ही नहीं, अपूर्व भी है। ये दोनों बातें ऐसी दुर्बोध्य हैं कि गाँव के लोगों ने नहीं समझी, इसलिए उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता।

पोटशी ने इस तुहमत का उत्तर देते हुए मृदु स्वर से कहा—मैं आक्षेप तो नहीं करती हूँ।

“आक्षेप नहीं करती हूँ ? यह भी एक ही कही। आपके पिता का वर्ताव और भी अनोखा है। हैम कहती है—परन्तु छोड़िए हैम की बात। मेरा कहना है कि आप सारा अपराध खोलकर इन लोगों को बतला क्यों नहीं देती ? मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा,—परन्तु कुछ भी क्यों न हो, रमणी की आवरु भी तो अबहेला की चीज नहीं है।” यह कहकर उन्होंने थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा की, परन्तु पोटशी ने जब कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब एक साँस छोड़कर उन्होंने कहा—“मालूम होता है, साधारण स्त्रियों की तरह आपको अपनी इज्जत या बदनामी

की कुछ परवा नहीं है। आप साधारण स्त्री हैं भी तो नहीं। इसके सिवा सब बातों में चुप रहने की आपकी ज़िद भी अपूर्व ही है। वास्तव में आपकी सभी बातें अनोसी हैं।” पल भर चुप रहकर वे स्वयं बोले—उस दिन मैंने आपको एक ही बार देखा था और आज हाथ पकड़कर चल रहा हूँ। जिसके आश्रय से चल रहा हूँ वह जैसे मेरे लिए अन्धकार—अज्ञेय—है, वैसे ही जिनके भीतर से चल रहा हूँ वह भी अन्धकार है। तिस पर भी नि सङ्कोच भाव से साथ चलने में कुछ रुकावट नहीं हुई। आपकी भक्ति किये बिना रहा नहीं जाता।

अब थोड़ी देर तक किसी बात की प्रतीक्षा में रहने के बाद वे एकाएक बोल उठे—आप तो सन्यासिनी हैं। मेरे ससुर आपका कुछ भी क्यों न करें, ज़मीन-जायदाद के लिए उनसे मुकदमा लड़ने से आपको गरज क्या है ?

पोडशी ने अब कहा—कोई गरज नहीं है।

“तो ?”

पोडशी ने कहा—आप कोई शङ्का न करे। उपायहीन अबलाओं के भाग्य में बराबर जो होता आया है, वही मेरे बारे में भी होगा।

बसु साहब को इस बात से गहरी चोट लगी, परन्तु उन्होंने प्रतिवाद भी नहीं किया, और प्रतिघात भी नहीं किया। दोनों ही चुपचाप चलने लगे। आँधों या पानी कोई भी नहीं रुका, परन्तु गाँव के भीतर आने पर दोनों का ही प्रभाव कम

मालूम होने लगा । रास्ते का मोड़ घूमते ही सामने सनातन माइती की कुटी से रोशनी दिखाई पड़ी । और थोड़ी देर चलकर षोडशी ठहर गई, बोली—अब वैसा अंधेरा नहीं है, आप इसी रास्ते सीधे चले जायें तो राय महाशय के फाटक पर पहुँच जायेंगे ।

‘ और आप ? ’

“मेरा रास्ता बाई ओर इस बगोचे के भीतर से है ।”

वसु ने हाथ नहीं छाड़ा, कहा—दूसरों से सुना है कि आप अच्छी शिचिना हैं, खुद मुझे जितना मालूम हुआ है, उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं । परन्तु इससे अधिक जानने का मौका अगर जीवन में न आवे तो आज की इस यात्रा की याद मुझे बराबर, बड़े श्रद्धा के साथ, बनी रहेगी ।

षोडशी ने तनिक हँसकर कहा—परन्तु इतना ही अगर किसी ने बाहर से देख लिया हो तो उसकी राय आपसे नहीं मिलेगी ।

माहय मन ही मन चौंक पडे । इसके बाद उन्होंने उस हाथ को और जरा सा दबाकर धीरे-धीरे छोड़ दिया । कहा—नहीं । गडो हुई कहानी की तरह मालूम होगी । इसलिए इसकी चर्चा न करके चुप रहना ही अच्छा है । यही न ?

इसका जवाब न देकर षोडशी बोली—मेरे लिए इन्तज़ार करके आप बहुत भोगे हैं । आपने बहुत दुःख सहा है—अब जाइए । मैं भी जाती हूँ ।

बसु ने कहा—यही बात शायद मुझे बहुत दिनों तक सोचनी पड़ेगी। कल हम जायेंगे—हैम से आपको कुछ कहना नहीं है ?

पोडशी ने पल भर कुछ सोचकर कहा—“नहीं। केवल उसके लडके को आशीर्वाद देती हूँ—आप चाहें तो इतना उससे कह दीजिएगा।” अब वह किसी प्रश्न या उत्तर की अपेक्षा न करके जङ्गल के अंधेरे रास्ते से अदृश्य हो गई।

साहब कुछ देर तक वहीं विमूढ की तरह खड़े रहे। उन्हें नमस्कार करने तक का मौका नहीं मिला। जिन फ़कीर साहब के लिए यह सब हुआ, उनके उद्देश्य से भी नमस्कार नहीं किया जा सका। इसके बाद उसी वताये हुए रास्ते से वे धीरे-धीरे चलने लगे।

१०

बसु साहब जब रूसुराल में पहुँचे तब देखा कि मकान में उन्हीं के लिए घबराहट और हलचल मची हुई है। जहाँ जितनी टूटी या बिना टूटी लालटेने थीं सब इकट्ठी की गईं और उन्हें इस भयावनी रात में बाहर ले जाने लायक करने के लिए घर के सभी मनुष्य जी-जान से कोशिश करने लगे। नौकरों-चाकरों और अनुगत-कुटुन्दियों को मिलाकर एक खासा दल तैयार किया गया, खुद राय महाशय सबकी देख-भाल करने लगे। कौन कौन किधर जायगा, किस रास्ते में,

किस मैदान में और किस वन या बगोचे में खोज करनी होगी इसी का उपदेश ये बार-बार सबको देने लगे। उनके आचरण तथा कण्ठस्वर से केवल घबराहट ही नहीं बल्कि भय भी प्रकट हो रहा था। अभी उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया था मही पर जो भय उनके मन में भाँक रहा था वह बड़ा ही भयङ्कर था। वे जानते थे कि पाडशी के कुछ अनुगत भूमिज अमामी हैं। वे जैसे उड़पड हैं वैसे ही निर्दयी हैं। डाका डालने हैं, इसलिए पुनीस में उनका नाम पता तक लिया हुआ है। वे नोग इस अँरी रात में उन्हें कहीं अकेले पाकर यदि अरनी भैरवी माता के प्रति किये गये अविचार का स्मरण कर बदना लेने के लिए एकाएक उद्योजित हो उठें तो वह सुविचार की प्राणा करना वृथा है। एक तरफ चुपचाप खड़ा होकर हैम सब देख रही थी। उसे पिता की शङ्का का भी पता लगा, परन्तु उसे तब तक भीतर की अमनी बात मान्य नहीं था। यह प्रकट हुआ उसकी माँ की एक बात से। वे अचानक बाहर आकर पति को दोष देती हुई बोली—“भला मेरे दादाद को पथ मानने की क्या जरूरत थी? जिसके पीछे डाकुओं का दल है उसे कोई जीव सकता है? जहाँ से हो, मेरे निर्मल को ढूँढ़ लाओ, नहा तो जहाँ मेरी आँखे ले जायँगी वहाँ मैं, इसी अँधेरे में, निरुल जाऊँगी।” अब वे रोती हुई अन्त पुर में चली गई। कन्या और पिता दोनों को ही काठ मार गया, कुछ देर तक दोनों ही स्तब्ध हो रहे।

जनार्दन राय अपने को सँभालकर हैम से ढाढस और साहस की कोई बात कहना चाहते थे कि इतने में दामाद आँगन में आकर खड़े हो गये। उनकी देह से पानी टपक रहा था, धोती, कमीज और जूते में कीचड़ लगी हुई थी। ससुर के मुँह की बात निकलने नहीं पाई। परन्तु दूसरे ही क्षण जिन साहब-दामाद की वे बहुत स्फ़ातिर करते और जिनसे दबते थे उन्हीं को, खुशी के मारे, जो मुँह में आया वही कहकर धमकाने लगे।

साहब ने चुपचाप भीतर आकर हाथ की दूटी छड़ी रख दी, हाथ से खींचकर जूता उतार दिया और भीगी हुई कमीज उतार दी। इसी बीच छोटे-बड़े, ऊँच नीच सभी एक साथ पूछने लगे—एसी हालत कैसे हुई और कहाँ हुई ?

राय महाशय सावधान होकर बोले—यह सब पोंछे होगा, तुम भीतर जाओ। बेटी हैम, तुम खड़ी क्या हो, उन्हें कोई सूखी घाती दो जाकर।

भीतर जाकर ससुर, सास और कुटुम्बियों के पूछने पर उन्होंने बतलाया कि उस पार फ़कीर साहब से मिलने गये थे, परन्तु भेंट नहीं हुई। वे वहाँ नहीं हैं।

उस पार के नाम से सभी के रोंगटे खड़े हो गये। राय महाशय ने घबराकर कहा—फ़कीर से मिलने गये थे। मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं उसे बुलवा देता। परन्तु इस अँधेरे में राह पहचानकर कैसे आये ?

निर्मल ने कहा—राह पहचानने की मुझे जरूरत नहीं हुई। जरूरत पड़ती तो मैं न पहचान सकता।

“परन्तु आये कैसे ?”

‘किसी ने हाथ पकड़कर मुझे मकान के सामने तक पहुँचा दिया।’

चारों ओर से प्रश्न होने लगा—वह कौन है, वह कौन है, उसका क्या नाम है ?

निर्मल ने तनिक सोचकर कहा—क्या मालूम, नाम बतलाने में शायद उनको आपत्ति हो।

राय महाशय प्रतिवाद करते हुए बोले—“आपत्ति ? कभी नहीं। हमारे इस देश के आदमियों को तुम नहीं पहचानते, परन्तु कोई भी हो, उसे खुश कर देना चाहिए।” अथ उन्होंने नौकर को बुलाकर हुक्म दे दिया—“अधर, अगर चटर्जी बाहर हो तो अभी जाकर उससे कह दे कि कल तडके ही पता लगाकर इनाम दे दिया जाय। समूचा एक रुपया ही उसको मिलना चाहिए—उसमें से कुछ काट न ले। चटर्जी बड़ा कञ्जूस है।” अथ वे उदारता के आवेग से पहले गृहिणी, उसके बाद घेटी और जामाता की ओर सदय दृष्टि से देखने लगे।

रात को भोजन के बाद पति को एकान्त में पाकर दैम ने कहा—बाबूजी ने तो इनाम की घोषणा कर दी, पूरा रुपया देने की चेष्टा भी शायद कुछ हो, परन्तु फल नहीं होगा।

निर्मल ने कहा—हाँ, असामी नहीं मिलेगा।

हैम हँसकर बोली—परन्तु आपने उस दयालु मनुष्य को क्या पुरस्कार दिया ?

निर्मल ने कहा—तुम्हारी समझ में 'देना' क्या इतना सहज काम है ? वह क्या दाता की मर्जी पर ही निर्भर है ?

“तो दे नहीं सके ?”

“नहीं, देने की कोशिश भी नहीं की।”

पति को मुँह की ओर पल भर ताकती हुई हैम बोली—परन्तु मेरा कर्तव्य है। बाबूजी उन्हें ढूँढ न सकेंगे, पर मैं ढूँढ लूँगी।

निर्मल ने सन्देह प्रकट कर कहा—मैं समझता हूँ कि अपने बाबूजी की तरह तुम भी उन्हें ढूँढ नहीं सकोगे।

हैम ने कहा—अगर ढूँढ निकालूँ तो मुझे भी कुछ इनाम देना। परन्तु मैंने उन्हें पहचान लिया है। क्योंकि जो तुम्हारे ऐसे अन्धे मनुष्य को इस घोर अन्धकार में आसानी से नदी पार कराके घर के सामने पहुँचा दे और अपना नाम तक जाहिर न करना चाहे, उसे पहचान लेना बहुत कठिन काम नहीं है। इसके सिवा मैं शाम को अँधेरे में छिपकर एक बार उन्हें देखने गई थी। वहाँ देखा कि घर-दुआर सब खुला पडा है, वे नहीं हैं, परन्तु तारादास पण्डित ने सब पर दरूल फर लिया है। मैं तुरन्त छिपकर लौट आई। रास्ते में जान-पहचान का एक आदमी मिल गया। उससे मालूम हुआ कि पोढशी को उसने नदी की ओर जाते

देखा है। अब समझ गये, जिस दयालु मनुष्य ने तुम्हें घर पहुँचा दिया है उसे मैं पहचानती हूँ। परन्तु क्या सचमुच हाथ पकड़कर ही तुम्हें पहुँचा दिया है ?

निर्मल ने क्षण भर सोचकर कहा—हाँ, यही बात है। जब वे समझ गई कि मैं अन्धे के समान हूँ तब तुरन्त हाथ बढाकर कहा कि मेरा हाथ पकड़कर चले आइए। परन्तु दूसरे के लिए यह काम तुम न कर सकतीं।

हैम ने सहज भाव से खोका कर 'नहीं' कहा।

उसके पति ने कहा—'मैं जानता हूँ।' इसके बाद सिलसिले से सब हाल बतलाकर कहा—इसके सिवा मेरे लिए दूसरा उपाय ही न था। उधर उनकी विपत्ति के गुरुत्व को भी सोचो। मुझे उन्होंने एक ही बार देखा था, मेरे बारे में उनकी धारणा भी अच्छी नहीं थी। तो भी मुझे उस सूनसान अँधेरे रास्ते में से ले आई, इसका दायित्व कितना भद्दा, कितना भयङ्कर है। वास्तव में रास्ता चलते-चलते कई बार मुझे डर लगा कि अगर किसी के सामने पड जाऊँ तो उसकी नजर में कैसा मालूम होगा ? देखो हैम, चण्डो देवी की इस भैरवी को मैं पहचान नहीं सका हूँ सही, परन्तु आज इतना मैं अवश्य समझ गया कि साधारण नियम से इनका विचार नहीं किया जा सकता। या तो सतीत्व इनके सामने कोई चोज ही नहीं, तुम लोगों की नजर में सतीत्व का जो मूल्य है उसकी इन्हें परत ही नहीं, अथवा

इज्जत-आवरु या वदनामी का खयाल इन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकता ।

हैम ने तनिक ठहरकर कहा—क्या तुम जमींदार की घटना याद कर यह सब कह रहे हो ?

निर्मल ने कहा—सम्भव है । मैं नहीं जानता कि यह खी अच्छी है या बुरी, परन्तु यह बात मैं हलफ उठाकर कह सकता हूँ कि यह जैसी गम्भीर है वैसी ही शिचिता है और वैसी ही निडर है । शाख मे लिया है कि सात पग एक साथ चलने से मित्रता होती है । इतने बड़े सूनसान रास्ते में, ऐसे घोर अन्धकार के भीतर, उन्हीं के भरोसे सैकड़ों पग हम एक साथ चले आये हैं, एक-एक करके मैंने अनेक प्रश्न किये । परन्तु कल की तरह आज भी ये रहस्य मे ही छिपी रही ।

हैम ने कहा—तुम्हारी जिरह भी नहीं टिकी, तुम्हारी मित्रता भी खोकार नहीं की ?

निर्मल ने कहा—नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ।

अब हैम हँस पड़ी, बोली—जरा भी नहीं ? तुम्हारी तरफ से भी नहीं ?

“इतनी बड़ी बात को तुम योंही, धोखा देकर, पूछ लेना चाहती हो ? परन्तु अपने को जानने के लिए भी तो ममय लगता है, हैम ।”—इतना कहकर निर्मल रुक गये । उन्होंने देखा कि हैम उन्हीं की ओर एकटक देख रही है ।

उसके मुख का भाव दीपक के हलके उजले से स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ। वे स्वयं अपने पूर्व कथन के सिलसिले में क्या कहेंगे, इसका निश्चय करने के पहले ही हैम धीरे-धीरे बोली—“वह ठीक है। तो भी पुरुषों की समझने में शायद विलम्ब होता है, किन्तु क्रियों को ऐसा अभिशाप है कि उनकी सारी जिन्दगी अपने भाग्य की चिन्ता में ही बीत जाती है। अच्छा, अब तुम सोओ, मैं अभी आती हूँ।”—वह कोई घात होने के पहले ही उठकर सावधानी से किवाड लगा करके बाहर चली गई।

निर्मल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा—रहस्य की ओट में स्त्री के इस अर्थहीन सशय और अविचार की वेदना ने मानो उन्हें क्रोध से चञ्चल कर दिया। सामने की घड़ी में बटी दुरपदायी मिनिट की सुई टिक-टिक करते हुए नीचे लटक गई, परन्तु तब तक जब हैम लौटी नहीं तब अकेले विस्तरे पर पड़े रहने में असमर्थ होकर उन्होंने धीरे-धीरे किवाड खोले और बाहर आकर देखा कि अंधेरे वरामदे में, एक लम्बे के पास, हैम चुपचाप बैठी हुई है। पास आ करके सिर पर, शरीर पर, हाथ फेरने से मालूम हुआ कि बारिश से सब भीग गया है। उन्होंने हाथ पकड़, घर के भीतर लाकर, कहा—तुम क्या पागल हो गई हो हैम ?

इससे अधिक और कुछ उनसे कहते नहीं बना, कहने का प्रयोजन भी उन्होंने नहीं समझा। दीपक के उजले में

हैम के मुँह की ओर देखा। आँसुओं का आभास अभी तक उमकी आँखों से अदृश्य नहीं हुआ था।

११

नवरे उठकर हैम अपने रात्रि के वर्ताव को याद कर बहुत शर्माई। निर्दोष और चरित्रवान् स्वामी के ऊपर इस प्रकार के अकारण आक्षेप के झुञ्झट को उसने उम आँधी-पानी और दुर्योग की रात में उनके एकाएक निःशब्द होने के आतङ्क के सिर मढ़कर मन ही मन हँसना चाहा, परन्तु जो दिल खोलकर हँसने की उसको आदत थी, उमके पास तक आज उसकी पहुँच किसी तरह नहीं हुई। किरकिरी निरुल जाने पर भी मानो झरोधे प्रौखों की शङ्का नहीं गई। शिरोमणिजी ने स्वयं आकर मुहूर्त बतला दिया है—साढे दस किसी तरह बीतने न पावे। माँ भण्डार में यात्रा की तैयारी और रसोईघर में खाने के इन्तजाम की उलझन में हैं, उन्हें तनिक भी फुरसत नहीं है। इतने में बाहर से आवाज आई—‘राय बाबू बेटी को बुला रहे हैं।’ हैम ने बाहर आकर देखा मानो कोई उत्सव हो रहा है। पिताजी बाँच में फरी पर चाँदी-मढा हुआ हुन्का पी रहे हैं। शिरोमणि हैं, जमोदार का गुमास्ता एककोडा नन्दो है, तारादास है, और गाँव के भी कई मुखिया हैं, उमके पति भी एक ओर चुपकी सावे बैठे हुए हैं। उत्साह और आनन्द की उमङ्ग में सब लोग एक ही

साथ हैम को सवाद सुनाने लगे, परन्तु पहलं कुछ भी समझ में नहीं आया। शिरोमणि के मुँह में एक भी दाँत नहीं है पर आवाज खासी है—उम आवाज की प्रबल शक्ति ने चण भर में सबको रोककर जो प्रकट किया वह इस प्रकार है, कल भयानक दुर्योग की रात में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, शत्रुपुरी पर सहज ही कब्जा हो गया है। भैरवी घर में नहीं थी, जासूस से खबर पाकर तारादास न उस लडकी के साथ जाकर इस मौके पर सब पर दखल कर लिया है। भगडा करना तो दूर रहा, डर के मारे पोडशी ने एक बात तक नहीं कही। मामूली सा सामान लेकर वह उस रात को ही घर से निकल गई। चहारदीवारी के बाहर, मन्दिर से सटे हुए, जिस खपरैले में यात्री लोग दूर से आकर रसोई बनाते-खाते हैं, उसी में उमने आश्रय लिया है। इसे चण्डा माता की कृपा ही समझो। इस कृपा का परिमाण यदि और थोडा सा बढ़ जाय तो उसे गाँव से निकाल देने में भी विलम्ब नहीं होगा।

प्रसन्न तारादास ने ऊपर की ओर देखकर विनय के साथ हँसते-हँसते कहा—यह सब देवी की इच्छा है। जो कुछ करना था, सब उन्होंने कर लिया है, नहीं तो उतनी बड़ी बाधिन क्या भेड बन जाती? मैं तमाखू भरकर फूँक रहा था और लडकी पास बैठकर चाय बना रही थी, इतने में कहीं से भीगती-भीगती पोडशी आ गई। हम लोगों को देखकर वह डर के मारे काठ हो गई। थोडी देर के बाद धीरे-

धीरे बोली—बाबूजी, मैंने तो कभी कहा नहीं कि तुम चले जाओ या यहाँ मत रहो। खुद ही क्रोध को मारे चले गये और न जाने कितना कष्ट सहा।

मैंने 'हूँ' कहा।

दरवाजे के सामने आकर उसने पूछा—इस घर में तुमने ताला लगा दिया है, बाबूजी ?

मैंने कहा—हाँ, लगा दिया है। जो करना हो सो कर ले।

तनिक चुप रहकर उसने कहा—तुम्हारे साथ मैं कुछ झगडा नहीं करूँगी बाबूजी, तुम्हीं लोग रहो। घर को जरा खोल दो, मैं अपनी दो धोतियाँ ले लूँ।

“मैंने ताला खोल दिया। माता चण्डी की कृपा से उसने फिर कोई झगडा नहीं किया। पहनने की दो धोतियाँ, एक कमबल और लोटा लेकर उसी अँधेरे में भीगते भीगते चली गई। देवी को प्रणाम कर मैंने कहा—माँ, लडके पर ऐसी ही दया रहे, तेरा नाम लिये बिना मैं पानी तक नहीं पीता हूँ।”

शिरोमणि हाथ हिला-हिलाकर कहने लगे—रहेगी, रहेगी, मैं कहता हूँ तारादास, तुम्हारे ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। नहीं तो उनका जगदम्बा नाम ही, वृथा है।

एककौडा ने कहा—परन्तु पण्डितजी, आप कुछ भी कहें, माँ की गद्दो खाली नहीं रह सकती। अब उस नई लडकी को भैरवी बनाने में देर करने से भी नहीं चलेगा।

राय महाशय जला हुआ हुक्का पास के आदमी के हाथ में थमाकर बड़ी गम्भीरता के साथ बोले—“हाँ हाँ, सब हो जायगा। मैं सब प्रबन्ध कर लूँगा। तुम लोग धवराओ मत।” दामाद की ओर देखकर कहा—लौंडी से एक मत्तर लिखा भी तो लेना चाहिए न ? वह भी हो जायगा—बुलाकर, डॉट-डपटकर वह भी कर लूँगा। परन्तु तुमसे यह भी कहे देता हूँ तारादास, कदमतल्ले की उस जमीन के लिए फिर झगडा न करना। गल्ले की आदत को अब सामने न हटा लाऊँ तो मैं सब ओर नजर नहीं रख सकता। पोडशी की तरह, मेले के नाम से, झगडा करने से—

घात पूरी नहीं हो पाई। बहुत लोग तारादास की ओर से राजी हो गये और वह स्वयं भी जीभ काटकर गद्गद कण्ठ से बोला—“यह बात कहने की भी जरूरत नहीं है राय महाशय, सभी आपका है। हाथी के साथ मच्छड़ का झगडा। क्यों बेटी ?” यह कहकर उसने कोई भली बात, जरा सिर हिलाना या ऐसा ही कुछ सुनने की आशा से हैम के मुँह की ओर ताका, उसी के साथ बहुतों की दृष्टि उसी के ऊपर जा पड़ी। हैम ने कुछ नहीं कहा, परन्तु उसके चेहरे से पोडशी का, पहले दिन का, विचार-दृश्य सबके सामने प्रकट हो पडा। इससे चण भर के लिए घर के अन्दर निकस्ताह के मेघ ने आकर छाया फैला दी—परन्तु चण भर के लिए ही। राय महाशय सीधे बैठकर बोले—बेटा निर्मल, यात्रा

का मुहूर्त शिरोमणिजी ने दस बजे को अन्दर ही देख दिया है—खियों का भङ्गट है—जरा जल्दी तैयारी न की जायगी तो ठीक समय पर निकलना मुश्किल हो जायगा।

सिर हिलाकर निर्मल उठ खड़े हुए। और फोई बात चोत होने के पूर्व ही हैम चुपचाप वहाँ से चली गई।

मुँह-हाथ धोने से नहाना तक समाप्त करने में बसु साहब को अधिक विलम्ब नहीं लगा। भीतर घुसते ही सास का उच्च कण्ठ रसोईघर से सुनाई दिया, वे लडकी के पीछे पड़ी हैं। न मालूम वह घर के भीतर से निकलती क्यों नहीं। निर्मल ने भीतर घुसकर देखा कि हैम पार्श्व पर चुपचाप बैठी हुई है। उन्होंने आश्चर्य में आकर पूछा—बात क्या है, तुम्हारी माँ बहुत घबरा रही हैं। फिर समय भी तो अधिक नहीं है।

हैम ने कहा—बहुत समय है, आज हम लोग जा नहीं सकते।

“क्यों ?”

हैम ने कहा—‘क्यों’ क्या ? पोडशी की इतनी बड़ी विपत्ति में उनसे बिना मिले ही चली जाऊँ ?

निर्मल ने कहा—अच्छी बात है। उनसे मिल क्यों नहीं आती। उसके लिए तो अभी समय है।

हैम ने कहा—और तुम भी एक बार बिना मिले कैसे जाओगे ?

यह पिछली रात्रि की प्रतिक्रिया है, यह मन में समझकर निर्मल ने कहा—फोशिश करूँ तो वह भी हो जायगा। यह

कुछ कठिन काम नहीं है। परन्तु मालूम नहीं होता कि मेरे एक वार मिल लेने से ही उनका उपकार होगा।

हैम ने जोर से सिर हिलाकर कहा—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

“क्यों नहीं हो सकता ? उसके सिवा मेरा वही सैदा-वाद का चमड़े का मुकदमा है—”

“रहने दो अपना चमड़े का मुकदमा। एक तार दे दो। आज तुम जा नहीं सकते।”

“अच्छी बात है। तो चलो दोनों ही जाकर मिल आवें। अभी तो काफी समय है।”

हैम ने मुँह उठाकर हँसते हुए कहा—नहीं, ऐसा तुम्हारे वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं। इतने आदमियों के सामने तुम्हारे साथ जाने से बाबूजी क्या समझेंगे ? रात को हम लोग छिपकर जायेंगे।

निर्मल का वास्तव में बहुत ही जरूरी मुकदमा था। और किसी वृहाने इस तरह जाना रोका जा सकता है, यह उन्होंने नहीं सोचा था। रासकर ससुर के साथ इससे विच्छेद हो जाने की भी आशङ्का है। सोचकर उन्होंने कहा—यह नहीं हो सकता हैम, आज ही जाना होगा। और सम्भव है कि हमारे बीच में पडने से उनकी विपत्ति और घट जाय। मेरा कहना मानो, चलो। इस तरह अपने आप मध्यम इनने से कल्याण की अपेक्षा अकल्याण ही अधिक होता है।

पति के मुँह की ओर दृष्टि करके हैम कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली—मुझे तो तुम पहचानते हो, आज मैं किसी हालत में नहीं जा सकती। अगर कल के अपराध के लिए मुझे सजा देना चाहो तो छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं रोऊँगी।

निर्मल और कुछ न कहकर बाहर चले गये। “तवीयत अच्छो नहीं है, आज जाना नहीं होगा।” यह सुनकर सास को आश्चर्य हुआ, वे धवरा गई और उससे भी अधिक प्रसन्न हुई, परन्तु बाहर के कमरे में बैठे हुए ससुर एक बार “हूँ”, कहकर तमाखू पीने लगे। उनको न तो आश्चर्य हुआ, और न धवराहट हुई। जिसे जरा भी अक्ल है वह उनका मुँह देखकर खुशी की बात को मुँह से भी नहीं निकालेगा।

मुकदमे का इन्तजाम करने के लिए निर्मल ने तार दे दिया। यह काम उन्हें बृथा ही नहीं, बुरा भी मालूम होने लगा। परन्तु उसी दिनान्त की वे आग्रह के साथ प्रतीक्षा करने लगे। यद्यपि आज दिन भर में अनेक बार उनके मन में हुआ कि गत रात्रि का हैम का रोना कितनी हँसी का, कितना असम्भव से भी असम्भव था, तो भी वह एक बिन्दु आँसू आज मानो किसी तरह सूखना नहीं चाहता था, बल्कि प्रतिक्षण वह ऐसे एक अपूर्व रहस्य की सृष्टि करने लगा जो एक साथ माधुर्य और तिक्तता से मिलकर एकाकार हो उठा।

रात के अँधेरे में पिता की आँसों का धोखा देना असम्भव जानकर हैम, पति और अपने नौकर के साथ, जब पौडशी

की भोपडी के सामने पहुँचो तब शाम होने में विलम्ब था । पोडशी एरु कम्बल पर बैठी एकाम्र चित्त से किसी ग्रन्थ को पढ़ रही थी । मामने जूते की आहट पाकर उसने आँख उठाकर देखा और खड़े होकर कहा—“आइए । आम्नो वहिन, आम्नो ।” उसने लपेटे हुए कम्बल को दिखा दिया ।

आसन पर बैठकर पति पत्नी दोनों ही कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे, अन्त में हैम ने कहा—“वहिन को इस नये घर में और चाहे जो दोष हो किन्तु इसमें अपव्यय का अपवाद शिरोमणिजी या मेरे पिताजी तक नहीं दे सकते । इस अद्भुत वस्तु के देखने का लोभ देकर ही आज मैंने इन्हें रोक रक्खा है, नहीं तो मुझे माघ लेकर अब तक ये दोपहर की गाडी से यहाँ से चले गये होते ।” पति से कहा—“क्यों, यह बिना देखे चले जाते तो पीछे पश्चात्ताप करना पड़ता न ?

निर्मल ने कहा—देखने पर भी पश्चात्ताप कुछ कम करना होगा, ऐसा भी तो मालूम नहीं होता ।

पति के मुँह की ओर देखकर हैम बोली—“वह ठीक है । शायद आँखों से न देखना ही अच्छा था ।” अब पोडशी के शान्त मलिन मुख पर अपनी स्निग्ध कोमल दृष्टि जमाकर बोली—“हमने सब सुना है । परन्तु ऐसा पागलपन करने की क्या जरूरत थी ? इस घर में तो तुम रह नहीं सकोगी वहिन ।” आवेग और कठुणा से उसका गला अन्तिम शब्द कहते समय काँप गया । परन्तु पोडशी के गले से इसकी

प्रतिध्वनि नहीं निकली । उसने सहज भाव से कहा—अभ्यास हो जायगा । इससे भी बुरी हालत में कितने ही आदमियों को रहना पड़ता है । इसके सिवा पिताजी को बहुत कष्ट हो रहा था ।

हैम ने पूछा—तो क्या तुमने सब कुछ छोड़ दिया ?

इसका उत्तर दिया उसके पति ने । उन्होंने कहा—“इसके सिवा और उपाय ही क्या था ? सारे गाँव से एक अगला ग्नी कहाँ तक लड़ सकती है ?” षोडशी से कहा—यही अच्छा है । अगर अपनी इच्छा से यहाँ रहने का आपने निश्चय कर लिया हो, और विश्वास हो कि इस भोपड़ी में रहने का अभ्यास हो जायगा तब तो ससार में कुछ भी त्याग करना आपके लिए कठिन न होगा ।

षोडशी चुपचाप बैठी रहो । उसके चेहरे से भी उसके मन की बात समझ में नहीं आई । हैम बोली—तुम सन्यासिन हो, धन-सम्पत्ति छोड़ना तुम्हारे लिए कोई कठिन काम नहीं है । मैं मानती हूँ कि इस भोपड़ी में भी तुम रह सकोगी, परन्तु इसके साथ जो भूठी धदनामी लगी रह गई क्या उसे भी सह लोगो वहिन ?

षोडशी मुसकुराती हुई दम भर चुप रही, फिर बोली—धदनामी अगर भूठी ही हो तो सहूँगी क्यों नहीं ? हैम, ससार में भूठी बातों की कमी नहीं है, परन्तु उसका प्रतिवाद करने में जो भूठे कार्य किये जाते हैं वन्हीं का बोझ सहना कठिन है ।

हैम ने कहा—परन्तु एककौड़ी नन्दी जिस बात और काम का झूठा ढिंढोरा पीट रहा है, वह तो खियों के लिए प्रमत्त है।

पोडशी तनिक भी उत्तेजित नहीं हुई। उसने वीरे-धीरे कहा—मैंने जहाँ तक सुना है, एककौड़ी ने झूठ तो कुछ अधिक नहीं कहा है। जमींदार बाबू एकाएक बहुत बीमार हो गये थे, घर में और कोई नहीं था—मैंने उनकी सेवा की थी। यह तो झूठ नहीं है।

हैम उदोप्त हो उठा। दूसरी की धीरता की तुलना में उसका कण्ठस्वर बहुत ही तीखा मालूम हुआ, उसने कहा—सब काम तो सब लोग कर नहीं न सकते बहिन। फिर रोगी की सेवा करने का भी कोई तरीका है ?

पोडशी उसी तरह मृदु स्वर से बोली—“है क्यों नहीं। परन्तु स्थान और काल को न समझकर बाहर से ही यह तरीका बतलाया नहीं जा सकता हैम। आपकी क्या राय है ?” यह कहकर वह निर्मल की ओर देखकर जरा हँसी।

निर्मल ने इस इशारे को अच्छी तरह समझकर ही कहा—कम से कम मैं तो इनकार नहीं कर सकता। इसके सिवा काम करने का तरीका सबका एक सा है भी नहीं—यही जैसे सन्यासिनी का।

पति की इस बात को हैम ने दूर तक सोचकर नहीं देखा, कहा—भले ही सन्यासिनी हो, परन्तु क्या उनका कोई धर्म

नहीं है ? क्या वे खी नहीं हैं ? आपको वह ले तो गया घर से पकड़वाकर और आपने अपनी मर्जी से जाना स्वीकार कर लिया । इस मिथ्या की आवश्यकता क्या थी ? उसकी बीमारी तो उसी की करतूत से है । तो भी ऐसे घोर पापी को बचाने का आपको क्या प्रयोजन था ? इस पर अगर लाग सन्देह करें तो उनका क्या दोष है ?

खी की बात सुनकर निर्मल को झुब्ध और लज्जित होना पडा । उनको मालूम था कि तुहमत लगाने के लिए हैम घर से नहीं आई थी—मकान पर चढ आकर अपमान करने लायक चुद्र और ओछी वह नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता जताकर वह इन्हें अन्धरी तरह भरोसा देने के लिए हाँ आई थी, परन्तु बात ही बात में उसके मुँह से यह कैसी बात निकल गई । वह आत्मविस्मृत होकर और भी न कुछ कह बैठे, इस डर से घबराकर वे कुछ कहना चाहते थे, परन्तु आवश्यकता नहीं हुई । षोडशी हँसकर बोली—“तुम्हारे पति ने कहा है कि सन्यासिनी का धर्म असन्यासिनी से नहीं भी मिल सकता, यही जैसे इस भोपडों के अन्दर धूल और कूडे के ऊपर तुम निराश्रय अकेली न रह सकोगी ।” अब वह फिर हँसकर बोली—वास्तव में मुझे घर से घसीटकर कोई पकड नहीं ले गया था, मैं क्रोध के मारे स्वयं ही निकल पडी थी ।

निर्मल ने कहा—परन्तु आपको भी क्रोध है, ऐसा तो नहीं मालूम होता ।

पोडशी ने हँसी दबाकर केवल "है क्यों नहीं" कहा ।
 हैम से कहा—मैं उस पर तर्क नहीं करती, मैंने सचमुच झूठ
 कह दिया था । परन्तु क्या घोर पापी को भी बचाने का
 किसी को अधिकार नहीं है ? तुम्हारे पति वकील हैं, किसी
 समय उनसे पूछ लेना ।

निर्मल ने कहा—किसी समय साधारण बुद्धि से कुछ जवाब
 दे भी सकता हूँ, पर वकीली बुद्धि से तो कुछ भी नहीं सूझता ।

पोडशी ने कहा—सिवा इसके ऐसा भी तो हो सकता है
 कि वे होश में बहुत से काम करते ही नहीं—

हैम ने बात काटकर कहा—इसी लिए क्या अपने बाप के
 भी विरुद्ध हो जाना पड़ेगा ? यह भी क्या सन्यासिनी का धर्म है ?

पोडशी ने क्रोध नहीं किया, मुसकुराकर कहा—सन्या-
 सिनी का धर्म हो या न हो, परन्तु सतार में खिर्यो को कम
 से कम ऐसी चीज रह सकती है जो बाप से भी बढकर है ।
 अगर ऐसा न होता तो क्या तुम्हारे चरणों की रज इस
 टूटी भोपडी में पडती ?

हैम ने घबराकर, सिर झुकाकर, उन्हीं की चरण-रज माथे
 मे लगा ली और कहा—ऐसी बात मुँह से न निकालो वहिन ।
 मेरे ससुर को किसी राजा ने एक तलवार त्रिलोचन में दी थी ।
 मैं बचपन में उसे निकाल-निकालकर अकसर देखती थी ।
 उसकी मियान धूल चढ जाने से मलिन हो गई है परन्तु असली
 चीज मे जरा भी मैल नहीं बैठा है । वह जैसी सीधो है,

वैसी ही कठिन है और वैसी ही असली है—तुम्हारी ओर ताकते ही मेरे मन में उसकी याद आ जाती है। मालूम होता है कि देश भर के लोग ग़लती कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता। तुम चाहे तो पल भर में उस मियान को निकाल-कर अलग फेंक सकती हो। क्यों नहीं फेंक देती हो बहिन ?

उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक षोडशी चुपचाप बैठी रही, फिर बोली—आज तुम लोग जाने-वाले थे न, क्यों नहीं गये। शायद कल जाओगे ?

अपने पति को दिखाकर हैम बोली—“कल रात को इन्हें किसी ने हाथ पकड़कर, नदी-वन-मैदान पारकर, घर के सामने पहुँचा दिया था। बाबूजी ने उन्हें पूरा एक रुपया इनाम देने का कहा है, परन्तु वह रुपया उनके हाथ नहीं लगेगा क्योंकि वे उन्हें ढूँढ नहीं सकेंगे। इस अन्धे मनुष्य को उस तरह अगर पहुँचाया न गया होता तो नतीजा क्या निकलता, वह भली भाँति मैं ही जानती हूँ, और पहुँचानेवाले का नाम भी मैं ही जानती हूँ। परन्तु रुपया-पैसा तो उन्हें दिया नहीं जा सकेगा, इसी कारण केवल चरण छूकर हृदय की कृतज्ञता जतलाने के लिए—” कहकर उसके अपना हाथ खींच लेने की चेष्टा करते ही षोडशी अपनी मुट्ठी को कड़ी करके मुसकुराई।

बाँये हाथ से अपनी आँखें पोंछकर हँसती हुई हैम बोली—चरण-रज नहीं देना बहिन, जरा मुट्ठी तो ढाली कर दो, मेरा हाथ टूटा जा रहा है। तुम्हारे मन की अपेक्षा

हाथ क्या कम सख्त है। फौलाद की तलवार क्या ऐसे ही याद आती है। परन्तु इतनी बात आज कह दो वहिन कि अगर कभी अपने आदमी की जरूरत पड़े तो इस प्रवासी छोटी वहिन को याद करोगी।

षोडशी उसके हाथ पर धीरे-धीरे अपना हाथ फेरने लगी, कुछ बोली नहीं।

हैम ने पूछा—तो वचन नहीं देना चाहती हो ?

षोडशी ने कहा—वहन, मैं ऐसा काम कैसे करूँगी जिसमें मेरे कारण आप-बेटी में झगडा हो ?

निर्मल ने कहा—वैर-विरोध न करके भी तो बहुत काम किये जा सकते हैं।

षोडशी बोली—मेरा कहना है कि ऐसा काम करने की चेष्टा की भी आपको आवश्यकता नहीं। परन्तु इसलिए मैं अपनी इस प्रवासी वहिन को कभी भूलूँगी नहीं। मेरा समाचार आपको मिलेगा।

नीकर अब तक बाहर चुपचाप बैठा था। उसने कहा—कल की तरह आज भी आँधी-पानी का डर है माजी। बादल उमड़ रहा है।

बाहर भाँककर देखते ही हैम ने प्रणाम किया। अब की पैरों की घूल माथे में लगाकर वह खड़ी हो गई। निर्मल ने हाथ उठाकर नमस्कार करते हुए कहा—मैं तो ऋणी ही रह गया, उन्मत्त होने का कोई उपाय नहीं। अदालती आदमी

हूँ, जमीन-जायदादवाली भैरवी के काम में आ भी सकता था, पर भोपड़ी की सन्यासिनी हमारे हाथ के बाहर हैं। सब छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था, परन्तु भरोसा नहीं होता कि छोड़ने पर भी कोई उपाय होगा।

पोड़शी खड़ी होकर बोली—किसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया है ? मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है।

निर्मल और हैम दोनों ही विस्मित होकर एक ही साथ बोल उठे—नहीं छोड़ा है ? किसी स्वत्व को भी नहीं छोड़ा है ?

पोड़शी वैसे ही शान्त भाव से बोली—नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अबला स्त्री, निरुपाय हूँ सही, परन्तु मेरा भैरवी का अधिकार तनिक भी शिथिल नहीं हुआ है। वे मर्द हैं, उनमें बल है, परन्तु उस बल को जब तक वे सोलहों आने प्रमाणित न कर लेंगे तब तक मेरे हाथ से कुछ भी पाने का उन्हें अधिकार नहीं है—मिट्टी का एक ढेला तक नहीं। निर्मल बाबू, मैं स्त्री हूँ, परन्तु इसी को जिन लोगो ने ससार में सबसे बड़ा अपराध मान रक्खा है उन्होंने भूल की है। इस भूल का उन्हें सजोधन करना पड़ेगा।

वात सुनकर दोनों ही सन्नाटे में आ गये। घर में दिया नहीं जलाया गया था। इससे अँधेरे में उसकी स्त्रीण देह की अशुभता के सिवा उसकी आँसूया मुख कुछ भी दिखाई नहीं पडा। परन्तु उन दोनों के अन्तःकरण में जाकर यह बात घैठ गई कि उस शान्त और दृढ़ कण्ठ से यह निरी धमकी नहीं निकली है।

थोड़ी दूर पर, रास्ते के मोड़ के पास, शोर-गुल सुनाई देया। आगे और पीछे कई लालटेनों के साथ दो पालकी ही सवारियाँ जा रही थीं।

अंधेरे में तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर निर्मल ने कहा—मालूम होता है, जमींदार बाबू आज ही पधारे हैं।

पोडशी अचम्भे में आकर भीतर से बोल उठी—“जमींदार बाबू? क्या उनके आने की खबर थी?” अब वह दरवाजे के पास आ खड़ी हुई।

निर्मल ने कहा—हाँ, उनके नदी किनारे के नरककुण्ड को सफाई हो रही थी। एककौड़ीकहता था कि हवा पानी बदलने के लिए हुजर एक ही दो दिन के अन्दर अपने राज्य में पधारेंगे। हुआ भी वही।

पोडशी चुपचाप वहीं खड़ी रही। बिदा लेकर निर्मल धीरे-धीरे बोले—“हम कितनी ही दूर क्यों न रहें, आप अपने को एकदम निरुपाय या निराश्रय न समझें।” अब वे हीम का हाथ पकड़कर अंधेरे में आगे बढ़ गये। पोडशी वैसी ही चुपचाप खड़ी रही। उसने इस बातका भी कुछ उत्तर नहीं दिया।

१२

बहु भारी मन्दिर की प्राचीर के नीचे जीवानन्द चौधरी का दोनो पालकियाँ पल भर में अदृश्य हो गई। उम घने अंधेरे में दो-एक लालटेनों के उजले से मनुष्य को कुछ भी

नहीं सूझता, परन्तु षोडशी को ऐसा मालूम हुआ, माने उसने उम आदमी को दिन की तरह स्पष्ट देख लिया। और झमेला वही नहीं, किन्तु उसके पीछे जो गिलाफ से ढकी हुई पालकी गई है उसके भीतर जो बैठी हुई है उसकी भी साढ़ा का काला चौड़ा किनारा खुले द्वार से लटक रहा है, ऐसा उसे प्रत्यक्ष भा दिखाई देने लगा। उसके हाथ के कङ्कन की सुनहरी किरण लालटेन के उजाले से झनक गई, इसमें भा उसको सशय नहीं रहा। उसके कानों में हीरा-जड़े करनक्षत्र भित्तमिला रहे हैं। उसकी उँगली की अँगूठी में हरा नगा चमक रहा है—सहसा उसकी कल्पना बाधा पाकर रुक गई। उसको याद पडा कि यह सभी पहने उसने अभी हैम को देखा है। याद पडते ही वह इस अँधेरे में लज्जा से सकुचित हो उठी। चण्डी माता। चण्डी माता। कहकर उसने चौखट में सिर लगा करके मन्दिर के उद्देश्य से प्रणाम किया और सारी चिन्ताओं को जबरदस्ती हटाकर खपरैने के भीतर आते ही और दो मनुष्यों की चिन्ता से उसका हृदय पूर्ण हो गया। थोड़ी देर पहले, वातचीत के अन्दर, आँधी-पानी की सम्भावना सुनकर उसका चित्त चञ्चल हो उठा था। ऊपर के बिसरे हुए काले-काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, शायद अभी अन्धड बहने लगे और पानी बरसना शुरू हो जाय। कल की रात का आधा दु रा तो उसके सिर पर से ही बीता है, बाका पिछली रात भी उमने मन्दिर के बन्द द्वार के पास खडे

होकर ही बिताई है। इस तरह का शारीरिक क्लेश सहने का उसको अभ्यास नहीं था—देवी की भैरवी को यह सब भोगना भी नहीं पडता था—तो भी कल उसे इसका दुःख मालूम नहीं पडा। जो मकान, जो घर-द्वार अपनी इच्छा से वह अभागे पिता को दे आई है उसके बारे में आज दिन भर मे कभो उसके मन में चिन्ता नहीं हुई, परन्तु अब एकाएक उसका मन घबराने लगा। गाँव के बाहर, इस सुनसान स्थान में, टूटे-फूटे सीलयुक्त घर के भीतर वह अकेली किस तरह रात बितावेगी ? उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। टिमटिमाते दीपक के उजले से घर के कोने-कोने का अँधेरा नहीं छटा है, वहाँ मूसी के विल मानो काली काली आँसे खोलकर देख रहे हैं। इन्हें वन्द करना होगा। सिर के ऊपर, छप्पर में, सैकड़ों छेद हैं, थोडो देर में बारिश होते ही उनमे से लगातार पानी गिरने लग जायगा। सडे हाने को जरा सी जगह तक न रहेगी। आदमी बुलाकर इसकी मरम्मत करानी होगी। किवाड का ब्योडा सड गया है, इनको बदलवाना सबसे जरूरी है, परन्तु दिन रहते इन पर ध्यान ही नहीं दिया, यह याद पडते ही वह चौंक उठा। इस अरुचित, खाली पडो हुई पर्णकुटी में—आज ही नहीं—सदा रहना पडेगा। उसको याद आई कि अभी, विदा के पहले क्षण में, निर्मल के प्रश्न के उत्तर में कुछ कहा नहीं गया है। शायद उनसे जल्दी भेंट भी न हो। मुझे उन्होंने भरोसा

दिया है कि अपने को मैं विलकुल असहाय न समझूँ। शायद हजारों कामों के अन्दर उन्हें यह बात याद भी न आवे। बहुत दूर पश्चिम के किसी शहर में रहकर वे मदद ही कैसे करेंगे और उस मदद को लेने का ही क्या अधिकार है ? फिर हेम याद पड़ी। जाते समय उसने एक भी बात नहीं कही, परन्तु पति के बुलाने से जब वह उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी तब मानो वह उनकी हरेक बात का चुपचाप अनुमोदन करती गई। इसलिए अगर पति भूल भी जायँ, तो भाखी उन बातों को नहीं भूलोगी। इसका विश्वास पोडशी का भीतर ही भीतर हो गया।

पोडशी के साथ उसका परिचय बहुत दिन का नहीं है, ज्यादा धरौवा भी नहीं। तो भी जब वह किसी प्रकार किवाड़ बन्द कर, कम्बल बिछाकर, धरती पर बैठो तब इसी लडकी की बात बार-बार सोचने लगी। पहले ही दिन उसने अयाचित भाव से मेरे दुःख का अंश लेकर गाँव भर की विरुद्ध शक्ति के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध, शायद और भी एक आदमी के विरुद्ध गुप्त रूप से लड़ाई की थी, उसके चले जाने पर कल मेरे पास खड़े होने लायक कोई भी न रहेगा, दिन पर दिन प्रतिकूलता बढ़ती ही जायगी, जरा सा ढाढस देने के लिए भी आदमी न मिलेगा, और यह पता ही नहीं कि यह बखेडा कहाँ जाकर खतम होगा। ऐसे ही इस सुनसान भोपडे में चारों ओर के घोर अंधेरे के बीच चुपचाप

अकेली बैठकर वह जल्द ही अपने ऊपर आनेवालो निश्चित विपत्ति के चित्र को छान-बीनकर देखने लगी, परन्तु किसी नये भाव की तरङ्ग उसके सारे उपद्रव की प्राशङ्का को हटाकर उसके चित्त के भीतर उमडने लगी—यह उसको मालूम भी न हुआ। अब तक उसने अपने जीवन को जिस तरह से पाया उसी तरह से बिताया। वह है चण्डो की भैरवी, उसकी जिम्मेवारी है, कर्तृत्व है, सम्पत्ति है, विपत्ति है, स्मरणातीत काल से इस मन्दिर की अधिकारिणियों के चलने फिरने से जो राह बन गई है, वह कहीं तङ्ग है, कहीं चौड़ी है, राह में कोई अधिकारिणी तो सीधी चली है और किसी का टेढा-मेढा पदचिह्न परम्परागत इतिहास के अङ्क में विद्यमान है। इस इतिहास के अलेखित पन्ने कहीं तो लोगों को कहीं हुई सदाचार की पुण्य कहानी से उज्ज्वल हैं और कहीं व्यभिचार की ग्लानि से मलिन हैं, तो भी भैरवी-जीवन की निर्दिष्ट धारा कहीं तनिक भी नहीं टूटी है। सहज और सुगम, दुर्गम और जटिल अनेक तरह की राहों से उन्हें गुजरना पडा है, उसमें सुर और दुःख का पचडा भी थोडा नहीं है, परन्तु क्यों, किसके लिए—यह प्रश्न भी शायद किसी ने आज तक नहीं किया या इस प्रचलित मार्ग को छोडकर कोई नया रास्ता ढूँढने के लिए भी किसी ने चेष्टा नहीं की। भाग्य-निर्दिष्ट इस परिचित मार्ग से ही षोडशी के जीवन के ये बीस वर्ष बीत गये, इसी को वह भैरवी-जीवन नि सन्देह मानती आई है,

उसने एक दिन के लिए भी अपने जीवन को नारी-जीवन नहीं माना है। दूर और समीप के बहुत से गाँवों और नगरों के असख्य नर-नारी उसे चण्डी की सेविकारूप से ही पहचानते हैं। छोटी, बड़ी या समान उम्र की कितनी ही स्त्रियों के तरह तरह के सुख-दुःख की, तरह-तरह की आशा-आकांक्षाओं और विफलताओं की, वह निर्वाक और निर्विकार साक्षी बनी है,—देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से कितनी ही बातें इन स्त्रियों ने उसके सामने मृदु कण्ठ से प्रकट की हैं, दुःखी जीवन की दैन्य दशा के चित्र उसकी आँसुओं के सामने प्रकट कर प्रसाद—आशीर्वाद—की प्रार्थना की है—यह सभी उसको मालूम है, उसे यही मालूम नहीं हुआ है कि रमणी-हृदय के किस अन्तरतम प्रदेश से इन करुण अभावों और अभियोगों की वाणी इतने दिनों तक उसके कानों में आकर पहुँचती रही है। इनकी बनावट और प्रकृति ऐसे किसी पृथक् जगत् की चीज है जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रयोजन कभी उसको नहीं हुआ। उसी प्रयोजन का प्रथम आवात आज इस सुनमान अँधरे घर में उसको मालूम होने लगा। कल रात में उसने आँधी-पानी के भीतर निर्मल को हाथ पकड़कर घर पहुँचा दिया था, शायद दो आदमियों के सिवा और किसी को यह बात मालूम ही नहीं थी और अभी जो उस स्वल्प-दृष्टि मनुष्य के बुलाते ही हैम चुपचाप चली गई, यह भी शायद इन दो-तीन आदमियों के सिवा और कोई नहीं

जानेगा, परन्तु कल और आज के इस एक ही प्रकार के कार्य में कितना अन्तर है ।

फिर एक बार उसकी आँसों के ऊपर हैम की साड़ी के काले किनारे से लेकर उसकी उँगली की हरी अँगूठी और उसके कानों के हीरे के करनफूल तक सब चमक गया और उस दुर्भेद्य अन्धकार को चीरकर उसकी अध्रान्त अतीन्द्रिय दृष्टि, दृष्टि से ओभल, उस रमणी का अनुसरण कर चलने लगी । उसने देखा कि स्वामी का हाथ छोड़कर अब उसे छिपकर घर में घुमना होगा, वहाँ उसे चिन्तित और व्याकुल माता पिता के सैकड़ों तिरस्कार तथा कैफियत का बिना ही कुछ उत्तर दिये चुपचाप सिर झुकाये अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना पड़ेगा, वहाँ शायद उसका लडका नींद से जागकर विस्तरे पर बैठा रो रहा होगा, उसे शान्त कर फिर से सुलाना होगा, परन्तु क्या यहाँ छुट्टी मिल जायगी ? तब भी कितने ही काम रह जायेंगे । छिपकर पति के भोजन पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ कसर न रह जावे । लडके को उठाकर दूध पिलाना होगा—कहाँ वह भूखा न रह जाय,—फिर स्वयं भी थोड़ा सा खाकर किसी तरह बाकी रात बिता करके सबेरे उठकर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी । उसे तरह-तरह का प्रयोजन है, सामान सहेजना-समझाना है । उसके पति, पुत्र, नौकर-चाकर सब लोग उसी के भरोसे रवाना होंगे । लम्बे सफर में किसको क्या चाहिए, वह उसी को देना होगा,

उसने एक दिन के लिए भी अपने जीवन को नारी-जीवन नहीं माना है। दूर और समीप के बहुत से गाँवों और नगरों के असरय नर-नारी उसे चण्डी की सेविकारूप से ही पहचानते हैं। छोटी, बड़ी या समान उम्र की कितनी ही स्त्रियों के तरह-तरह के सुख-दुःख की, तरह-तरह की आशा-आकांक्षाओं और विफलताओं की, वह निर्वाकू और निर्विकार साक्षी बनी है,—देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से कितनी ही बातें इन स्त्रियों ने उसके सामने मृदु कण्ठ से प्रकट की हैं, दुःख जीवन की दैन्य दशा के चित्र उसकी आँखों के सामने प्रकट कर प्रसाद—आशीर्वाद—की प्रार्थना की है—यह सभी उसको मालूम है, उसे यही मालूम नहीं हुआ है कि रमणी-हृदय के किस अन्तरतम प्रदेश से इन करुण अभावों और अभियोगों की बाणी इतने दिनों तक उसके कानों में आकर पहुँचती रही है। इनकी बनावट और प्रकृति ऐसे किसी पृथक् जगत की चीज है जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रयोजन कभी उसको नहीं हुआ। उसी प्रयोजन का प्रथम आघात आज इस सुनसान अँधरे घर में उसको मालूम होने लगा। कल रात में उसने आँधी-पानी के भीतर निर्मल को हाथ पकड़कर घर पहुँचा दिया था, शायद दो आदमियों के सिवा और किसी को यह बात मालूम ही न थी और अभी जो उस स्वल्प-दृष्टि मनुष्य के बुलाते ही हैम चुपचाप चली गई, यह भी शायद इन दो-तीन आदमियों के सिवा और कोई नहीं

जानेगा, परन्तु कल और आज के इस एक ही प्रकार के कार्य में कितना अन्तर है ।

फिर एक बार उसकी आँसों के ऊपर हैम की साडों के काले किनारे से लेकर उसकी उँगली की हरी अँगूठी और उसके कानों के हीरे के करनफूल तक सब चमक गया और उस दुर्भेद्य अन्धकार को चीरकर उसकी अभ्रान्त अतीन्द्रिय दृष्टि, दृष्टि से ओभल, उस रमणी का अनुसरण कर चलने लगी । उसने देखा कि स्वामी का हाथ छोड़कर अब उसे छिपकर घर में घुमना होगा, वहाँ उसे विन्तित और व्याकुल माता पिता के सैकड़ों तिरस्कार तथा कैफियत का विना ही कुछ उत्तर दिये चुपचाप सिर झुकाये अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना पड़ेगा, वहाँ शायद उसका लडका नोंद से जागकर विस्तरे पर बैठा रो रहा होगा, उसे शान्त कर फिर से सुलाना होगा, परन्तु क्या यहाँ छुट्टी मिल जायगी ? तब भी कितने ही काम रह जायँगे । छिपकर पति के भोजन पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ कसर न रह जावे । लडके को उठा-फर दूध पिलाना होगा—कहाँ वह भूखा न रह जाय,—फिर स्वयं भी घोडा सा खाकर किसी तरह बाकी रात बिता करके सवेरे उठकर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी । उसे तरह-तरह का प्रयोजन है, सामान सहेजना-समझाना है । उसके पति, पुत्र, नौकर-चाकर सब लोग उसी को भरोसे खाना होंगे । लम्बे मफर में किसको क्या चाहिए, वह उसी को देना होगा,

उसने एक दिन के लिए भी अपने जीवन को नारी-जीवन नहीं माना है। दूर और समीप के बहुत से गाँवों और नगरों के असह्य नर-नारी उसे चण्डों की सेविकारूप से ही पहचानते हैं। छोटी, बड़ी या समान उम्र की कितनी ही स्त्रियों के तरह तरह के सुर-दुःख की, तरह-तरह की आशा-आकांक्षाओं और विफलताओं की, वह निर्वाक्य और निर्बिकार साक्षी बनी है,—देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से कितनी ही बातें इन स्त्रियों ने उसके सामने मृदु कण्ठ से प्रकट की हैं, दुःख जीवन की दैन्य दशा के चित्र उसकी आँखों के सामने प्रकट कर प्रसाद—आशीर्वाद—की प्रार्थना की है—यह सभी उसको मालूम है, उसे यही मालूम नहीं हुआ है कि रमणी-हृदय के किस अन्तरतम प्रदेश से इन करुण अभावों और अभियोगों की बाणी इतने दिनों तक उसके कानों में आकर पहुँचती रही है। इनकी बनावट और प्रकृति ऐसे किसी पृथक् जगत् की चीज है जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रयोजन कभी उसको नहीं हुआ। उसी प्रयोजन का प्रथम आघात आज इस सुनमान अँधेरे घर में उसको मालूम होने लगा। कल रात में उसने आँधी-पानी के भीतर निर्मल को हाथ पकड़कर घर पहुँचा दिया था, शायद दो आदमियों के सिवा और किसी को यह बात मालूम ही नहीं थी और अभी जो उस स्वल्प-दृष्टि मनुष्य के बुलाते ही हैम चुपचाप चली गई, यह भी शायद इन दो-तीन आदमियों के सिवा और कोई नहीं

जानेगा, परन्तु कल और आज के इस एक ही प्रकार के कार्य में कितना अन्तर है।

फिर एक बार उसकी आँसों के ऊपर हैम की साडी के काले किनारे से लेकर उसकी उँगली की हरी अँगूठी और उसके कानों के हारे के करनफूल तक सब चमक गया और उस दुर्भेद्य अन्धकार को चीरकर उसकी अध्रान्त अतीन्द्रिय दृष्टि, दृष्टि से ओभल, उस रमणी का अनुसरण कर चलने लगी। उमने देखा कि स्वामी का हाथ छोड़कर अब उसे छिपकर घर में घुमना होगा, वहाँ उसे चिन्तित और व्याकृत माता पिता के सैकड़ों तिरस्कार तथा कैफियत का निना ही कुछ उत्तर दिये चुपचाप सिर झुकाये अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना पड़ेगा, वहाँ शायद उसका लडका नोंद से जागकर विस्तरे पर बैठा रो रहा होगा, उसे शान्त कर फिर से सुताना होगा, परन्तु क्या यहीं छुट्टी मिल जायगी? नभ भी कितने ही काम रह जायेंगे। छिपकर पति के भोजन पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ कसर न रह जावे। लडक का पटाकर दूध पिलाना होगा—कहाँ वह भूखा न रह जाय,—फिर स्वयं भी थोड़ा सा खाकर किसी तरह बाकी रात निद्रा फर्के सवेरे उठकर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। उसे तगड़-नगड़ का प्रयोजन है, सामान सहेजना-समझाना है। उसके पति, पुत्र, नौकर-चाकर सब लोग उसी के भरोसे खाना होंगे। लम्बे सफर में किसको क्या चाहिए, वह उर्मा का देना होगा,

सब चीज बटोरकर साथ लेनी पडेगी। षोडशी ने कभी किसी के साथ अपने जीवन की तुलना करके नहीं देखा था, उसकी आलोचना करने की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई, तो भी न मालूम कब किसने गृहिणी का सारा दायित्व, जननी का सब कर्तव्य उसके हृदय के भीतर सुनिपुण हाथ से सजा दिया है। इसी से कुछ न जानकर भी वह सब जानती है, कभी कुछ न सीखकर भी वह हैम के सब काम उसी की तरह, बिना ही भूल किये, कर सकती है, यही उसको मालूम हुआ।

कोने में एक लकड़ी के ऊपर रक्खा हुआ मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था, उसे जरा उसकाते ही षोडशी को एका एक याद पडी कि वह चण्डीगढ़ की भैरवी है। इतनी बड़ी सम्मानिता और गरीबसी नारी इस प्रदेश में और कोई नहीं है। उमने एक मामूली स्त्री की तरह साधारण गृहस्थी की तुच्छ आलोचना में अपने को क्षण भर के लिए विह्वल कर लिया था, यह सोचकर वह लज्जा से सिकुड गई। यही कुशल है कि घर में और कोई नहीं था, क्षण भर की इस दुर्बलता को ससार में और कोई नहीं जान सकेगा। चण्डी माता के उद्देश्य से उसने हाथ जोडे हुए सिर झुकाकर प्रार्थना की—माँ, वृथा चिन्ता में समय बीत गया, तुम क्षमा करना।

मालूम नहीं कि रात कितनी बीत चुकी है। अटकल से समझा कि आधी रात बीती होगी। अब कन्बल को और जरा सा फैंला करके तथा दिया में और थोडा सा तेल डाल-

कर वह लोट गई। थकावट के कारण नौद आने में विलम्ब न होता, परन्तु द्वार के पास बाहर किसी की आहट पाते ही वह चौंककर बैठ गई। हवा भी जरा जोर से चलने लगी थी। शायद कुत्ता बिल्ली हो, तो भी थोड़ी देर कान रखे रखकर उसने डरते-डरते पूछा—कौन है ?

बाहर से आवाज आई—डरो नहीं माँजी, तुम सो रहो, मैं सागर हूँ।

“इतनी रात में तू क्यों आया रे ?”

सागर ने कहा—हर चाचा ने कह दिया कि जमींदार आये हैं, रात की हालत भी ठीक नहीं। माँ जी अकेली हैं। जा सागर, लाठी लिये हुए वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ। तुम लोट जाओ माँ जी, पव फटने के पहले मैं यहाँ से हटूँगा नहीं।

पोडशी आश्चर्य की साथ बोली—अगर ऐसा ही हो तो तू अकेला क्या करेगा बेटा ?

बाहर का आदमी तनिक हँसकर बोला—अकेला क्यों हूँ माँ जी, आवाज देकर चाचा को बुला लूँगा। चचा-भतीजे के हाथ में लाठी रहने से—जानती हो न माता ? परन्तु क्या करूँ, उस दिन की शर्म से ही मरा जा रहा हूँ—अगर जरा हुक्म भेज देतीं माजी।—

इन दोनों चचा-भतीजे—हरिहर और सागर—को एक धार टुकैती के इलाजाम में दो माल फाँ सजा हुई थी। जेल के

भीतर इनकी हालत कुछ अच्छी भी थी, परन्तु वहाँ से रिहाई पाने पर एक तरफ जमींदार के और दूसरी ओर पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार का अन्त न था। कहीं कुछ होता तो दोनों ओर की रींचा-तानी से बेचारों के प्राण आफत में पड़ जाते थे। न तो बाल-बच्चों को लेकर ये लोग शान्ति से रह सकते और न देश छोड़कर कहीं भाग ही सकते थे। - इस तरह के अकारण अत्याचार और पीड़न से पोडशी ने इनकी थोड़ी सी रक्षा की थी। बीजगाँव की जमींदारी से हटवाकर उसने इन्हें अपनी जमीन में बसाया था और पुलिस को भी हर तरह से प्रसन्न कर लिया था जिससे इनका जीवन अब जरा सुगम से बीतने लगा था। उस दिन से डकैती के लिए वदनाम ये दोनों परम भक्त पोडशी की सब तरह की आपत्ति विपत्ति में सहायक हैं। नीच जाति और अछूत होने के कारण वे सड़को के मारे दूर-दूर ही रहते थे, पोडशी ने भी कभी पास बुलाकर हेल मेल बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया था। उसने बराबर अनुग्रह ही किया है, कभी उनसे कुछ एहसान नहीं लिया, शायद उसकी जरूरत भी नहीं हुई। आज इस सुनसान रात के अँधेरे में, सशय और सड़क के भीतर, उनकी इस आडम्बरहीन स्नेह और निःशब्द-सेवा की चेष्टा से पोडशी की आँसों में आसू भर आये। आँसू पाँछकर उसने पूछा— मागर, तुम्हारी जाति में भी शायद मेरे बारे में कुछ चर्चा चलती है। कौन क्या कहता है ?

बाहर से सागर ने तमककर जवाब दिया—क्या, हमारे सामने ! एक भापड मारूँगा तो वेईमानों को भागने के लिए जगह न मिलेगी।

पोडशी को लज्जा मालूम होने लगी कि इस आदमी से ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं था। इसलिए इस बात को और न बढ़ाकर वह चुप हो रही। परन्तु नोंद भी नहीं आती थी। बाहर एक आदमी वादलों के गहरे जमघट के नीचे ऐसी अँधेरी रात में अकेला उसी के पहरे पर बैठा है, यह जानने से ही आराम से सोने की सुविधा नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली—अगर पानी बरसने लगे तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी सागर। यहाँ तो ठहरने की जगह भी नहीं है।

सागर ने कहा—नहीं है तो न सही माँजी। रात ज्यादा नहीं है। पानी में पहर दो पहर भोगते रहने से हम लोगों को कुछ भी नहीं होता।

वास्तव में इसका कुछ उपाय नहीं था। इसलिए और थोड़ी देर चुप रहकर पोडशी ने दूसरी चर्चा छेड़ी। कहा—अच्छा, क्या तुम लोगों ने सचमुच विश्वास कर लिया कि, जर्मादार के आदमी मुझे उस दिन घर से जबरदस्ती पकड़ ले गये थे ?

सागर ने पश्चात्ताप के स्वर में कहा—क्या करोगी माँजी, तुम अकेली औरत हो। यहाँ मर्द भी तो कोई नहीं है। उस

दिन हम दोनों चचा-भतीजे तब तक हाट से नहीं लौटे थे। नहीं तो किसकी मजाल थी कि तुम्हारे शरीर पर हाथ उठाता।

पोडशी ने सोचा कि यह चर्चा भी ठीक नहीं हो रही है। बात ही बात में न मालूम कौन सी बात सुननी पड़े। परन्तु रुक भी नहीं सकी, बोली—उनके आदमी बहुत से थे, तुम दोनों उन्हें कैसे रोकते ?

बाहर से सागर ने मुँह से एक तरह की अस्फुट ध्वनि करके कहा—क्या कहूँ माँजी, मन का दुःख ही बढेगा। हुजूर आ गये हैं, हम भी सब जानते हैं। माता की कृपा से अगर फिर कभी मौका मिले तो उसका जवाब दूँगा। तुम यह न समझो माँजी कि हर चचा बुढ़े हो गये हैं तो मर ही गये हैं। उनकी ताकत मालूम थी मातु भैरवी को और मालूम है शिरोमणि महाराज को। माना कि जमींदार के आदमी बहुत हैं, और गरीब देखकर उन्होंने हम लोगों पर जुल्म भी कम नहीं किया, वह भी याद है—हम लोग छोटे आदमी हैं, अपने लिए फिक्र नहीं है—परन्तु तुम्हारा हुक्म हो जाय तो भैरवी के वदन पर हाथ उठाने का मजा चखा दे सकते हैं। गले में रस्सी डालकर रातों रात हुजूर को देवी के सामने लाकर बलिदान कर सकते हैं, किसी माई के लाल की मजाल नहीं कि रोक सके।

पोडशी भीतर ही भीतर काँप उठी, बोली—तू क्या कहता है रे सागर ? तुम लोग इतने निर्दय, इतने भयङ्कर हो सकते

हो ? इतनी सी बात के लिए तुम्हें एक आदमी की हत्या करने की इच्छा होती है ?

सागर ने कहा—इतनी सी बात ! इतनी सी बात के लिए ही तुम्हारी यह दशा हुई है ! जमींदार के आने की खबर सुनकर चचा आग की तरह जलने लगे । तुम धवराभ्रो नहीं माँजी, फिर कभी कुछ होगा तो वह इतने से मैं रुका नहीं रहेगा ।

पोडशी ने पूछा—“अच्छा सागर, तूने कभी गुरुजी की पाठशाला में पढा था ?” बाहर बैठकर सागर मानो शर्मा गया, बोला—तुम्हारी कृपा से थोड़ा-थोड़ा रामायण, महाभारत पढ सकता हूँ । पर यह बात क्यों पूछी माँजी ?

पोडशी ने कहा—तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम्हारे चचा शायद न भी समझें, परन्तु तुम समझ सकोगे । उस दिन मुझे कोई पकड नहीं ले गया था, किसी ने मेरे शरीर पर हाथ नहीं उठाया था, गुस्से के मारे मैं खुद ही चली गई थी ।

सागर ने कहा—हम लोगों ने भी यही सुना है । पर रात भर जो घर नहीं लौटों, वह भी क्या गुस्से के ही मारे ?

पोडशी ने इस प्रश्न का ठीक उत्तर न देकर कहा—परन्तु जिससे तुम लोगों को इतनी नाराजी है वह अपनी दशा मैंने अपने आप कर ली है । मैं तो अपनी ही इच्छा से मकान पिताजी को देकर यहाँ रहने लगी हूँ ।

“परन्तु इतने दिन तक तो इस खपरैले में आश्रय लेने की इच्छा नहीं हुई थी माँजी ।” जरा चुप रहकर एकाएक

सागर का स्वर बहुत तीखा और तेज हो उठा। उसने कहा—न तो हमें तारादास महाराज पर ही गुस्सा है, और न हम राय बाबू से ही कुछ कहेंगे, परन्तु जमींदार को हम लोग मौके से पा जायेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम नहीं जानती हो माँजी, विपिन की उसने क्या गत की है? वह घर में नहीं था—जमींदार के आदमी उसके घर में घुसकर—

पोडशी ने उसे तुरन्त रोककर कहा—रहने दे सागर, वह खबर मुझे मत सुना।

सागर चुप हो गया। पोडशी ने भी देर तक और कुछ नहीं पूछा। फिर सागर जब बोला तब पोडशी ने उसके कण्ठस्वर में गूढ आश्चर्य के आभास का स्पष्ट अनुभव किया। सागर ने कहा—माँजी, हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं। हमारा दुःख तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा?

पोडशी ने कहा—सुनकर भी उतने बड़े जमींदार के विरुद्ध मैं कुछ प्रतिकार न कर सकूँगी वेदा।

सागर ने कहा—एक वार तो किया था। फिर जरूरत हो तो तुम्हें कर सकोगी। तुम न कर सको तो हमारी रक्षा करनेवाला और तो कोई नहीं है माँजी।

पोडशी ने कहा—अगर कोई नई भैरवी हो तो उसी का तुम अपना दुःख बतलाना।

सागर ने चौंककर कहा—“तो क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चली जाओगी माँजी? गाँव के सभी तो यही

बातचीत कर रहे हैं—” वह एकाएक रुक गया। परन्तु पोडशी से इस प्रश्न का कोई उत्तर तुरन्त देते नहीं बना। थोड़ी देर के बाद पोडशी धीरे-धीरे बोली—देखो सागर, तुम्हारे सामने यह बात कहने में लज्जा से मेरा सिर कटा जाता है। पर मेरे बारे में तो तुमने सब कुछ सुन लिया है। गाँव वालों की तरह तुम लोगों ने भी, देखती हूँ, विश्वास कर लिया है,—उसके बाद भाँ क्या मुझे ही तुम लोग भैरवी बनाये रखना चाहते हो ?

बाहर बैठे बैठे सागर ने धीरे-धीरे उत्तर दिया—बहुत सी बातें सुनता हूँ माँजी, और आदमियों की तरह हमें भी मालूम नहीं होता कि, उस दिन तुम घर क्यों नहीं लौटों और किस-लिए सबेरे साहज के हाथ से तुमने जमाँदार को बचा लिया। सैर, जाने दो उस बात को माजी। हम दो-चार घर के छोटे आदमियों ने तुम्हें को अपनी माँ समझ रक्खा है, जहाँ कहीं तुम जाओ वहाँ हम लोग भी साथ चलेंगे। परन्तु जाने के पहले अच्छी तरह बतला जायेंगे।

पोडशी ने कहा—परन्तु तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, तुम तो माँ चण्डो की प्रजा हो। देवी की दासियाँ, मेरी ऐसी कितनी ही हुई हैं और कितनी ही होंगी। उसके लिए तुम लोग क्यों घर-द्वार छोड़कर जाओगे, और किसलिए उपद्रव मचाओगे ? यह भी तो हो सकता है कि खुद मुझी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है।

सागर का स्वर बहुत तीखा और तेज हो उठा। उसने कहा—न तो हमें तारादाम महाराज पर ही गुस्मा है, और न हम राय बाबू से ही कुछ कहेंगे, परन्तु जमींदार को हम लोग मौके से पा जायेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम नहीं जानती हो माँजी, विपिन की उसने क्या गत की है? वह घर में नहीं था—जमींदार के आदमी उसके घर में घुसकर—

पोडशी ने उसे तुरन्त रोककर कहा—रहने दे सागर, वह खबर मुझे मत सुना।

सागर चुप हो गया। पोडशी ने भी देर तक और कुछ नहीं पूछा। फिर सागर जब बोला तब पोडशी ने उसके कण्ठस्वर में गूढ़ आश्चर्य के आभास का स्पष्ट अनुभव किया। सागर ने कहा—माँजी, हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं। हमारा दुःख तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा?

पोडशी ने कहा—सुनकर भी उतने बड़े जमींदार के विरुद्ध मैं कुछ प्रतिकार न कर सकूँगी वेदा।

सागर ने कहा—एक बार तो किया था। फिर जरूरत हो तो तुम्हें कर सकौंगी। तुम न कर सकी तो हमारी रक्षा करनेवाला और तो कोई नहीं है माँजी।

पोडशी ने कहा—अगर कोई नई भैरवी हो तो उसी को अपना दुःख बतलाना।

सागर ने चौंकर कहा—“तो क्या तुम सचमुच हमें चली जायेगी माँजी? गाँव के सभी तो यही

वातचोत कर रहे हैं—” वह एकाएक रुक गया । परन्तु षोडशी से इस प्रश्न का कोई उत्तर तुरन्त देते नहीं बना । थोड़ी देर के बाद षोडशी धीरे-धीरे बोली—देखो सागर, तुम्हारे सामने यह बात कहने में लज्जा से मेरा सिर कटा जाता है । पर मेरे वारे में तो तुमने सब कुछ सुन लिया है । गाँव-वालों की तरह तुम लोगों ने भी, देखती हूँ, विश्वास कर लिया है,—उसके बाद भाँ क्या मुझे ही तुम लोग भैरवी बनाये रखना चाहते हो ?

बाहर बैठे-बैठे सागर ने धीरे-धीरे उत्तर दिया—बहुत सी बातें सुनता हूँ माँजी, और आदमियों की तरह हमें भी मालूम नहीं होता कि, उस दिन तुम घर क्यों नहीं लौटों और किस-लिए सवेरे साहब के हाथ से तुमने जमींदार को बचा लिया । सैर, जाने दो उस बात को माँजी । हम दो चार घर के छोटे आदमियों ने तुम्हीं को अपनी माँ समझ रक्खा है, जहाँ कहीं तुम जाओ वहाँ हम लोग भी साथ चलेंगे । परन्तु जाने के पहले अच्छी तरह बतला जायेंगे ।

षोडशी ने कहा—परन्तु तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, तुम तो माँ चण्डो की प्रजा हो । देवी की दासियों, मेरी ऐसी, कितनी ही हुई हैं और कितनी ही होंगी । उसके लिए तुम लोग क्यों घर-द्वार छोड़कर जाओगे, और किसलिए उपद्रव मचाओगे ? यह भी तो हो सकता है कि खुद मुझी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है ।

सागर ने अरुचकाकर पूछा—अच्छा नहीं लगता ?

पोडशी ने कहा—आश्चर्य की क्या बात है सागर !
मनुष्य का मन क्या बदल नहीं जाता ?

इस बार वह सिर्फ “हूँ” कहकर चुप हो गया । फिर थोड़ी देर के बाद बोला—पर अब रात ज्यादा नहीं है माँजी । आकाश भी साफ हो रहा है, अब तुम जरा सो जाओ ।

खुद पोडशी को भी यह चर्चा अच्छी नहीं लग रही थी, इसके सिवा वह बहुत थक भी गई थी । सागर के कहने पर वह चुपचाप आँखें मूँदकर लेट गई । परन्तु जब तक नोंद नहीं आई तब तक सागर की ही बात घूम-फिरकर याद आने लगी । यह जो आदमी रात भर जागता हुआ बाहर बैठा है, इसे वह बचपन में ही देखती आई है । अन्त्यज होने के कारण अब तक उससे तुच्छ और नीच काम ही लिया गया है, किसी दिन कोई सम्मान का स्थान उसको नहीं दिया गया । उसके साथ बैठकर समान रूप से बातचीत करने की कल्पना भी अब तक किसी को नहीं हुई, परन्तु आज इस दुःख की रात्रि में बहुत सी बातें जान-बूझकर ही उसके मुँह से निकल गई हैं और शायद परिणाम में इसकी भलाई-बुराई का हिसाब लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है । परन्तु श्रोता की हैसियत से इस आदमी को वह आज बहुत नीच न समझ सकी ।

दूसरे दिन नोंद टूटते ही किवाड खोलकर बाहर आई तो उसने देखा कि दिन चढ़ आया है, और थोड़ी दूर पर बहुत

से आदमी उसी के बन्द दरवाजे की ओर टुकुर-टुकुर देखते हुए किसी तमागे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं जरा सी ओट या पर्दा नहीं है। एकाएक उसके मन में आया कि अभी फिवाड न लगा लूँ तो इन लोगों की उत्सुक दृष्टि से अपने को बचा नहीं सकूँगा। यह छोटा सा खपरैला कितना ही जीर्ण और कितना ही टूटा फूटा क्यों न हो, परन्तु अपने बचाव के लिए इसके सिवा ससार में और दूसरा स्थान नहीं है।

इतने में पोडशी ने देखा कि भीड़ में से निकलकर एक-कौड़ी नन्दी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने विनती के साथ कहा—गाँव में हुजूर पधारे हैं, आपने सुना होगा।

जर्मींदार के गुमाश्ते इस एककौड़ी ने इससे पहले कभी पोडशी को 'आप' नहीं कहा था। उसका यह विनय, उसके सम्भाषण का यह ढङ्ग पोडशी को बहुत अचरस। परन्तु कुछ उत्तर पाने के पहले ही उसने फिर सम्मान के साथ कहा—हुजूर ने आपको एक वार याद किया है।

“कहाँ ?”

“यहीं कचहरी में। मवेरे से ही आकर किसानों की नालिश सुन रहे हैं। आह्ला हो तो पालकी भेज दूँ।”

सब लोग विस्मित होकर सुन रहे थे, पोडशी ने समझा कि मानो ये लोग इसी बात पर हँसी दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका हृदय आग की तरह जलने लगा, पर उसी दम

अपने को सँभालकर उसने पूछा—एककौड़ी, यह उन्हीं का प्रस्ताव है या तुम्हारी बुद्धिमानी है ?

एककौड़ी अदब के साथ बोला—मैं तो नौकर हूँ, यह खुद हुजूर की आज्ञा है ।

पोडशी ने हँसकर कहा—तुम्हारे हुजूर की तकदीर अच्छी है । इससे जेल में कोल्हू पेलने के बदले न केवल स्वयं पालकी पर सवार हो सैर कर रहे हैं, बल्कि दूसरे के लिए भी उन्होंने उसका इन्तजाम किया है । कह दे जाकर एककौड़ी, मुझे पालकी पर चढने की फुरसत नहीं है—मुझे बहुत काम हैं ।

एककौड़ी ने कहा—तीसरे पहर या कल सवेरे भी क्या जरा सी फुरसत न होगी ?

पोडशी ने कहा—नहीं ।

एककौड़ी ने कहा—परन्तु फुरसत होती तो अच्छा होता । और भी दस असामियों की नालिश है ।

पोडशी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया—“फैसला करने लायक बुद्धि हो तो वे अपने असामियों के भगडे फैसल करे । मैं तो तुम्हारे हुजूर की असामी नहीं हूँ । मेरे फैसले के लिए सरकारी अदालत है ।” अब वह हाथ का अँगौछा कन्धे पर रखकर तेजी से तालाब की तरफ चल पडी ।

१३

जमींदार के इस निर्जन निकेतन को भाड-पोंछकर सजाने में तीन-चार दिन लग गये । लोग कहते हैं कि इस बार

हुजूर दो महीने तक चण्डीगढ़ में ठहरेगे। आज सवेरे से ही उत्तर की ओर के बड़े कमरे में मजलिस बैठा है। फर्श कार्पेट से मढा है, उस पर जाजम बिछी हुई है, बीच-बीच में इधर-उधर दो-चार मोटे मोटे तकिये पड़े हैं। कमरे में एक तरफ गाँव के प्रधान लोग कतार बाँधे बैठे हैं—जमींदार के पास उनकी बड़ी भारी एक नालिश है। राय महाशय हैं, शिरोमणि हैं, जोगेन बाबू और मिस्त्र भइया हैं, यहाँ तक कि तारादास चक्रवर्ती भी उन्हीं की ओट में, सिर झुकाये, पर कान रखे किये, सावधानी से बैठा हुआ है। और भी जो लोग थे उनमें यद्यपि नाचोज एक भी आदमी नहीं था तो भी उनके नाम-धाम का विवरण न जानने से पाठकों का जीवन दुर्वह नहीं होगा अतः उनके बतलाने की आवश्यकता नहीं। जो हो, इन लोगों की समवेत चेष्टा से मामले की भूमिका किसी प्रकार खतम होने पर भी अमल बात उठती नहीं थी—ठीक मुँह पर आने पर भी किसी के मुँह से निकलती नहीं थी। जीवानन्द चौधरी उपस्थित थे। सबके साथ रहकर भी, घोड़ो दूर पर, एक तकिये के सहारे बैठे मानो एकाग्रचित्त से सब सुन रहे थे। मुख प्रफुल्ल था, पूरा स्वाभाविक न होने पर भी उनके चेहरे पर एकदम घनावटीपन भी नहीं देख पड़ता था। शायद शराब के नशे ने अभी तक उनके मारे दिमाग पर दखल नहीं किया है। सामने के बड़े बड़े खुले दरवाजों से धारुई नदी की सूखी बालू और गीली मिट्टी की धूल, हवा

के साथ, घर के भीतर आ रही थीं, पाम के कमरे में शायद रसोई हो रही थीं, उससे एक प्रकार की आवाज और महक बीच-बीच में हवा के साथ आकर लोगों के कान और नाक में पहुँच रही थी, वह व्यक्ति-विशेष को उपादेय और रुचिकर होने पर भी शिरोमणिजी उससे बड़े चञ्चल हो उठे। वे एका-एक एक-दो बार खाँसकर अँगोछें से नाक पोछते हुए वहाँ से उठकर एक किनारे जा बैठे। देखकर जीवानन्द ने मुस्कराते हुए कहा—पण्डितजी को 'घ्राणे चार्द्रभोजन' हो गया है क्या ?

बहुत लोग हँस पड़े। शिरोमणि का, नाक की तरह, चेहरा भी लाल हो उठा। जीवानन्द ने हँसकर कहा—डरने की बात नहीं है पण्डितजी, जाति नहीं जायगी। वह आपकी ही चण्डी देवी का महाप्रसाद है। परन्तु जो रसोई पका रहा है, उसका गोत्र मुझे ठीक मालूम नहीं—शायद आपके गोत्र से न भी मिले।

शिरोमणि ने अपने को थोड़ा सा सँभालकर कहा—कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रसोइया ब्राह्मण है—गरीब होने पर भी गोत्र कोई न कोई अवश्य होगा।

जीवानन्द ने जोर से कहकहा मारकर हँसते हुए कहा—“मालूम नहीं, वह बला उसको है या नहीं। परन्तु सँडसी, करछुल आदि के साथ मिलकर सोने की चूड़ियों की आवाज मुझे बहुत मीठी मालूम होती है। और उसी हाथ से परोसने पर—सैर, आपको निमन्त्रण देने पर भी तो—”इतना कह-

कर जीवानन्द ने फिर ठठाकर हँसी से घर भर दिया। शिरो-मणि ने सिर झुका लिया, और भीतरी भेद यद्यपि सभी को मालूम था तो भी इस तरह प्रकाशय रूप से निर्लज्जता जाहिर करने के कारण उसकी ओर सहमा कोई ताक नहीं सका।

हँसी बन्द होने पर कहा—सदात्ताप तो बहुत हुआ और ऐसे ही बीच-बीच में आप लोग छुपा करके आवे तो और भी बहुत हो। परन्तु आप लोगों को शिकायत किस बात की है, जरा कहिए तो ?

परन्तु उत्तर में किसी के मुँह से बात नहीं निकली। सब लोग जैसे के तैसे चुपचाप बैठे रहे।

जीवानन्द ने कहा—कहने में क्या आप लोगों का शर्म लगती है ?

अवकी राय महाशय ने मुस उठाकर देखा, कहा—नन्दीजी तो सब जानते हैं। क्या उन्होंने टुजूर से निवेदन नहीं किया है ?

जीवानन्द ने कहा—शायद किया हो, परन्तु मुझे याद नहीं है। इसके सिवा उसके निवेदन करने पर विश्वास न रखकर आप ही लोग फरमाइए। द्विरुक्ति दोष हो मकता है, परन्तु क्या किया जाय ? जर्मीदार का गुमाश्ता है न। जरा सामना करा रखना अच्छा है। ठाक है न ?

प्रभु के मुँह से एककौड़ी की यह प्रशंसा सुनकर राय महाशय मन में बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु बाहर चञ्चलता

प्रकाशित न करके परम गम्भीरता के साथ बोले—हुजूर सब कुछ जानते हैं। नौकर के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार सम्मति प्रकट कर सकते हैं, परन्तु हम लोगों का अभियोग—

“क्या अभियोग ?”

जनार्दन राय ने कहा—हम लोग गाँव के छोटे-बड़े ऊँच-नीच सभी लोग मिलकर—

जीवानन्द ने जरा हँसकर कहा—“सो तो देख ही रहा हूँ। वही न बैठे हैं भैरवी के पिता तारादास चक्रवर्ती ?” अब जर्मादार ने उनकी ओर उँगली से इशारा किया। तारादास ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह जाजम के एक अश पर दृष्टि जमाये चुपचाप बैठा रहा, और राय महाशय के अवनत मुख पर भी जरा फीकी छाया पड़ी। परन्तु सँभाल लिया शिरो-मण्जि ने। उन्होंने विनय के साथ कहा—राजा के सामने प्रजा सन्तान की तरह है। वह दोग करे तो भी सन्तान है, और न करे तो भी सन्तान ही है। और बात एक तरह से उसी की है। उसी की लड़की पोटशो के सम्बन्ध में हम लोगों ने निश्चय किया है कि उसे अब देवीजी की भैरवी नहीं रक्खा जा सकता। हमारी प्रार्थना है कि हुजूर उसे इस पद से हटा देने की आज्ञा दे दे।

जर्मादार ने चौंकर पूछा—क्यों ? क्या अपराध है उसका ?

देा-तीन आदमियों ने प्रायः एक ही साथ उत्तर दे डाला—
अपराध बहुत भारी है।

जीवानन्द ने एक एक करके उन लोगों की ओर देखकर अन्त में जनार्दन राय से पूछा—अकस्मात् उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला राय महाशय, जिसके लिए उन्हें भगाना आवश्यक है ?

जनार्दन के मुँह उठाकर शिरोमणि को आँख से इशारा करते ही जीवानन्द ने रोककर कहा—नहीं नहीं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बुढ़े आदमी को अधिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। आप ही कहिए क्या बात है।

राय महाशय के चेहरे पर दुविधा और सङ्कोच दिखाई पड़ा, उन्होंने मृदु स्वर से कहा—ब्राह्मण की लडकी है—ऐसी आज्ञा मुझे न दीजिए।

जीवानन्द ने हँसते-हँसते कहा—देवता-ब्राह्मण पर आपकी अचला भक्ति की बात इस प्रान्त में किसी से छिपी थोड़े है। परन्तु आप जब स्वयं इतने छोटे बड़े आदमियों के साथ यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अब इसमें सशय नहीं रहा कि अपराध उनका गुरुतर है। परन्तु मैं उसे आपके ही मुँह से सुनना चाहता हूँ।

परन्तु जनार्दन राय इतनी जल्दी भूलनेवाले मनुष्य नहीं थे। उन्होंने शिरोमणि की ओर क्रोधभरी दृष्टि से देखकर कहा—हुजूर जब स्वयं सुनना चाहते हैं तब डर क्या है पण्डितजी ? कह न दीजिए।

चोट ग्याकर वृद्ध शिरोमणि ने घबराकर कह दिया—सच बात कहने में डर क्या है जनार्दन ? तारादास की लडकी

को अब हम लोग भैरवी नहीं रखेंगे हुजूर । उसका चरित्र बहुत ही भ्रष्ट हो गया है, यह हम आपको बतला देते हैं ।

जीवानन्द का परिहास दीप्त प्रफुल्ल मुख अकस्मात् गम्भीर और कठोर हो उठा, पल भर चुप रहकर उन्होंने धीरे-धीरे पूछा—तो उनका चरित्र भ्रष्ट होने की खबर आप लोगों को निश्चित रूप से मालूम हो गई है ?

उसी दम एक साथ कई आदमी बोल उठे—“इसमें किसी को कोई शक्य नहीं है—यह बात गाँव के सभी लोग जान गये हैं ।” जनार्दन मुँह से कुछ न कहने पर भी चुपचाप सिर हिलाने लगे । जीवानन्द ने थोड़ी देर चुप रहकर उन्हीं की ओर देखते हुए कहा—इसी से निपटारा कराने के लिए और आदमी न देखकर एकदम भीष्मदेव के पास आये हैं । राय महाशय । सुफल होने की आशा नहीं मालूम होती ।

शायद यह इशारा सब लोगों ने नहीं समझा, पर जनार्दन और शिरोमणि समझ गये । जनार्दन चुप हो रहे, परन्तु शिरोमणि ने जवाब दिया—आप देश के राजा हैं, सुविचार हो या अविचार, करना होगा आपको ही । हम लोग उसी को मान लेंगे । सारा चण्डीगढ़ तो आपका ही है ।

यह सुनकर जीवानन्द के चेहरे का भाव कुछ सहज हो आया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा—देखिए पण्डितजी, अति विनय दिखाकर आप लोग सिर नोचा न करे । अति गौरव

से मुझे भी आसमान पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या यह अभियोग सत्य है ?

आग्रह से राय महाशय का मुख आशान्वित हो उठा, शिरोमणि ने तो एकाग्र दृष्टि होकर कहा—अभियोग ? सत्य है या नहीं ?—अच्छा हम तो बाहरी आदमी हैं, परन्तु तारादास, तुम्हीं दोलो न। राजद्वार है, धर्म से कहना।

तारादास का चेहरा एक बार पीला, और एक बार लाल होने लगा, परन्तु सबकी एकाग्र दृष्टि मिलकर उसे उत्तेजित करने लगी। उसने एक बार घूँट निगलकर, एक बार गले को साफ कर, अन्त में कह डाला—दुजूर—

पलक मारते ही जीवानन्द ने हाथ के इशारे से उसे रोककर कहा—नहीं। वे अपने मुँह से अपनी लडकी को कहानी धर्म की रू से कहेंगे, तो भी मैं नहीं सुनूँगा। हाँ, आप लोगों में अगर कोई कह सके तो धर्म की रू से कहें।

सभा में फिर मन्नाटा खिंच गया, परन्तु अबकी बार उस सन्नाटे के वाच में से अस्फुट उद्यम के परिस्फुट होने का लक्षण दिखाई दिया। पास का दरवाजा खोलकर नौकर ने शीशे के गिलास में दूध की और सोडा भरकर प्रभु के हाथ में दिया। उन्होंने उसे एक ही घूँट में पीकर नौकर के हाथ में लौटाते हुए कहा—“ओह, अब जी में जी आया।” जग हँसकर कहा—आज मवेरे से ही आप लोगों की ब्राम्ह्य-सुधा पाने में

प्याम के मारे छाती जकड गई थी। पर सब चुपचाप क्यों हैं ? क्या हुआ आपके धर्म की रू का ?

शिरोमणि ने धरकर कहा—मैं कहता हूँ टुजूर, मैं धर्म की रू से हो कटूंगा।

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—सम्भव है। आप शास्त्र प्रवीण ब्राह्मण हैं, परन्तु एक स्त्रा के भ्रष्ट चरित्र की कहानी उसकी अनुपस्थिति मे कहने से उमके अन्दर धर्म की रू की 'रू' शायद रह भी जाय, पर क्या 'धर्म' रहेगा ? मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है। मुदत हुई, धर्मधर्म की वला मेरे पास से हट गई है। तो भी, सैर, उसको जाने दीजिए। वल्कि मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। वर्तमान भैरवी को आप निकाल देना चाहते हैं, यही न ?

सब लोगों ने एक ही साथ सिर हिलाकर जवाब दिया—
जी हाँ।

“इनसे अब काम नहीं चल रहा है ?”

जनार्दन ने प्रतिवाद के ढङ्ग से सिर उठाकर कहा—काम चलने न चलने की बात नहीं है टुजूर, गाँव की भलाई के लिए आवश्यक है।

जीवानन्द ने हँसते हुए कहा—यानी गाँव की भलाई-दुराई की आलोचना न करके भी यह मान लिया जा सकता है कि इसमे आपकी निजी भलाई-दुराई कुछ न कुछ अवश्य है। मुझे मालूम नहीं कि भैरवी को निकाल देने का अधिकार

मुझको है या नहीं, परन्तु मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर क्या कोई दूसरा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता? जरा कोशिश कीजिए न। हमारे इस एककौड़ी को भी साथ ले लीजिए, इस विषय में इसका खासा नाम है।

यह बात सुनकर सब दङ्ग रह गये। हुजूर ने जरा मास्ककर कहा—“भैरवियों के नतोल्व की कहानी बहुत प्राचीन है और प्रसिद्ध है। उसकी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं। भैरवी रहने से ही भैरव आ जाते हैं—भैरवियों का काम भैरवों के बिना नहीं चलता, यही सनातन प्रथा है, केवल इसी से हटाना प्रामाण्य नहीं होगा। देश भर के भक्तों का दल विगड़ जायगा, शायद देवी स्वयं भी प्रसन्न न होंगी—अजब नहीं कि कुछ उपद्रव मच जाय। मातङ्गी भैरवी के पाँच भैरव थे और उनके पहले जो भैरवी थी, सुना है कि, उनके भैरवों की गिनती ही न थी। क्यों पण्डितजी, आप ही कहिए, आप तो यहाँ के सबसे बूढ़े हैं, आपको तो सब मालूम है न?” अब हुजूर ने शिरोमणि की अपेक्षा खासकर राय महाशय की ओर ही कटाक्ष किया। इस प्रश्न का किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा, सब लोग भौचक्के से रह गये। किसी की समझ में न आया कि जमींदार का कण्ठस्वर टेढ़ा है या सीधा, उसका कहना सत्य है या मिथ्या और उसके तात्पर्य में दिखनी दे या घमकी।

सामने के बरामदे का चक्कर लगाकर एक भद्र वेगधारी शौकीन युवक कमरे के भीतर आया। उसके हाथ में कई

एक बँगला और अँगरेजी के समाचारपत्र तथा कुछ खुली हुई चिट्ठियाँ थीं। जीवानन्द ने देखकर कहा—क्यों प्रफुल्ल, यहाँ भी डाकखाना है क्या? न मालूम यह सब क्या बन्द होगा।

प्रफुल्ल ने सिर हिलाकर कहा—वह ठीक है। बन्द हो जाने से आपको आराम होता। परन्तु वह जब नहीं हुआ है तब क्या इन सबके देखने का आपको अब अवकाश होगा?

जीवानन्द ने जरा भी आग्रह न दिखाकर उत्तर दिया—नहीं, अभी नहीं होगा, दूसरे वक्त भी नहीं। परन्तु बहुत सा धाहर से ही अनुभव हो रहा है। उस चिट्ठी पर तो हीरालाल-मोहनलाल की दूकान की मुहर देखता हूँ—क्या वह वकील के पाम से या सीधे अदालत से आई है? वह लिफाफा तो सलोमन साहब का मालूम होता है। विलायती सुधा की महक मानो कागज फोड़कर निकली आ रही है। क्या कहते हैं साहब? डिगरी जारी करेंगे या इम राजवपु पर ही खीचातानी शुरू कर देंगे? ओह, अगर उस जमाने का ब्राह्मण्य तेज रक्तों भर भी बाको रहता तो इस यहूदी को तो भस्म ही कर देता। शराब का देना चुकाना न पडता।

प्रफुल्ल ने धबराकर कहा—“क्या कहते हैं भाई साहब? रहने दीजिए, दूसरे समय इसकी चर्चा की जायगी।” अब उसके लौट जाने के लिए तैयार होते ही जीवानन्द ने हँसते हुए कहा—लज्जा किस बात की भइया, ये लोग तो अपने ही आदमी हैं, सब ज्ञाति-बन्धु हैं। यहाँ तक कि हीरा-जवाहिरात

का इधर और उधर का भाग कहने से भी अत्युक्ति न होगी । इसके सिवा तुम्हारा बड़ा भाई तो कस्तूरी-मृग है, उसकी सुगन्ध को कितने दिन तक छिपा रखोगे भइया ? रुपया । रुपया । रुपया । इसकी नालिश और उसकी नालिश । फलाने की डिगरी और ठिकाने की किस्त चूक गई । अजी तारादास, उस दिन का मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर घबराओ नहीं पण्डितजी, नौगत यहाँ तक पहुँची है कि तुम्हारी मनो-कामना पूरी होने में अब देर नहीं लगेगी । प्रफुल्ल, नाराज न होना भइया, अपने आदमियों में किसी को नहीं छोड़ा, परन्तु इस चालीस वर्ष की आदत को छोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल है वरिष्ठ किसी ऐसे आदमी को ढूँढकर ला सकने जो जाली नोट फोट बना सकता तो—

बहुत चिढ़ जाने पर भी प्रफुल्ल हँसकर बोला—देखिए, आपकी बातों को सब लोग समझ नहीं सकेंगे । सच समझकर यदि कोई—

जीवानन्द ने गम्भीर होकर कहा—यदि कोई ढूँढ लावे ? तो तो बन जाऊँ । राय महाशय, आप तो बड़े प्रवीण सुने जाते हैं । आपकी जान-पहचान में ऐसा कोई आदमी—

राय बानू का चेहरा उतर गया । एकाएक खड़े होकर उन्होंने कहा—देर हो रही है, आजा हो तो हम लोग धब जायें ।

जीवानन्द ने जरा लज्जित होकर कहा—बैठिए, बैठिए, नहीं तो प्रफुल्ल का हासला बढ़ जायगा । इसके सिवा भरवी

की बात भी तो खतम हो जाय । हा, मेरे 'जाओ' कह देने से ही क्या वह चली जायगी ?

राय महाशय ने बैठकर सत्तेप में उत्तर दिया—उसका भार हमारे ऊपर है ।

“परन्तु और किसी को तो नियुक्त करना होगा । वह पद तो खाली नहीं रह सकता ।”

इस बार बहुतें ने जवाब दिया—इसका जिम्मा भी हम लेते हैं । जीवानन्द ने मॉम छोड़कर कहा—खैर, कुछ चिन्ता नहीं, अब उसे जगना ही पड़ेगा । इतने आदमियों के निश्वास के पोभ को अकेली भैरवी की तो बात ही नहीं, स्वयं चण्डी देवी भी सँभाल नहीं सकेंगी—यह समझ में आ गया । अपना हानि-लाभ आप ही जानते हैं, परन्तु मेरी हालत ऐसी है कि रुपया मिल जाय तो किसी बात में भी मुझे आपत्ति नहीं है । नये इन्तजाम में मुझे कुछ मिलना चाहिए । खैर, कोई देर तो रे एककौड़ी है या चला गया ? परन्तु गला तो यहाँ सूखकर मरुभूमि हो चला ।

प्रभु के व्यग्र हाथ में भरा हुआ प्याला देते हुए, नौकर बोला—“वे दफ्तर में खाता लिख रहे हैं ।” प्रभु की बुलाहट से थोड़ी देर के बाद एककौड़ा आकर अदब के साथ एक और खड़ा हो गया । जीवानन्द ने सूखे गले को तर करके पूछा—उस दिन जो भैरवी को तलब किया था उसकी खबर किसी ने उन्हे दी थी ?

एककौड़ी वाला—मैंने खुद दो थी हुजूर ।

“वे आई थीं ?”

“जी नहीं ।”

“क्यों ?”

एककौड़ी सिर झुकाये चुपचाप खड़ा रहा । जीवानन्द ने उत्सुक होकर पूछा—कुछ घतलाया, वे कब आयेंगी ?

एककौड़ी बैसे ही, मिर झुकाये हुए, अम्फुट स्वर से बोला—मैं इतने आदमियों को सामने उस बात को हुजूर से निवेदन नहीं कर सकता ।

जीवानन्द ने हाथ के खाली गिलास को नीचे रखकर एकाएक कठोर स्वर से कहा—एककौड़ी, इस गुमाश्तागिरी के कायदे को जरा छोड़ो । वे आयेंगी या नहीं ?

“नहीं ।”

“क्यों ?”

इस वार भी उत्तर में एककौड़ी ने जमींदारी कायदा नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों को सुनाई दे ऐसे स्पष्ट शब्दों ने कहा—वे आ नहीं सकेंगी, यह बात वहाँ जितने आदमी खड़े थे सब ने सुनी है । उन्होंने कहा कि अपने हुजूर से कहना एककौड़ी, उनको भागडे तय करने लायक बुद्धि हो तो अपनी प्रजा का करें, मेरे मुकदमे के लिए अदालत खुली है ।

एकाएक मालूम पडा कि जमींदार की अथ तक की इतनी दिल्लीगी, इतनी नरल उदारना, हँसमुख चेहरा और तरल

कण्ठस्वर पल भर में गायब होकर मानो अँधेरा हो गया। चण भर के बाद उन्होंने धीरे-धीरे कहा—हूँ। अच्छा तुम जाओ। प्रफुल्ल, किसी चीनी की कम्पनी ने हजार बीघा जमीन माँगी थी न? उसको कुछ जवाब दिया था?

“जी नहीं।”

“तो उसे लिख दो कि जमीन मिलेगी। देर न करो।”

“बहुत अच्छा, लिखे देता हूँ।” कहकर वह एकतौड़ी को साथ ले चला गया। फिर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शिरोमणि ने खड़े होकर आशावाद देते हुए कहा—तो आज हम लोग जायँ?

“पधारिए।”

राय महाशय ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा—आज्ञा हो तो फिर किसी दिन आपके दर्शन करने आऊँगा।

“बहुत अच्छा, आइएगा।”

सब लोग धीरे-धीरे चले गये। बाहर आने पर उनके जमींदार की आवाज सुनाई दी—खिदमतगार।

रास्तों में दूर तक किसी से किसी की बातचीत नहीं हुई। अन्त में शिरोमणि से नहीं रहा गया। उन्होंने राय महाशय को एक तरफ़ रीछ ले जाकर कान में कहा—जनार्दन, तुम्हें जमींदार कैसा मालूम हुआ भइया?

जनार्दन ने सचेप में उत्तर दिया—मान्दूम तो कई तरह का हुआ।

“महा पापी—लाज शर्म बिलकुल नहीं है ।”

“हाँ ।”

“परन्तु एकदम सरल है, कपट का नाम नहीं । मत-वाला है न ? देखा, ऋण में चोटी तक डूबा हुआ है—वह भी कह डाला ।”

जनार्दन ने “हूँ” कहा ।

शिरोमणि ने कहा—परन्तु कुछ भी नहीं बचेगा, तुम देग लेना सब सत्यानाश हो जायगा ।

जनार्दन ने कहा—सम्भव है ।

“शायद अधिक दिन जियेगा भी नहीं ।”

“हो सकता है ।”

घोड़ी देर चुपचाप चलकर शिरोमणि ने फिर कहा—जैसा समझा था, शायद वैसा नहीं है, बिलकुल सीधा सादा तो नहीं मालूम हुआ । तुम्हारी क्या राय है ?

जनार्दन ने जवाब दिया—नहीं ।

“परन्तु बड़ा मुँहफट है । मान्य व्यक्ति को मान का ज्ञान नहीं है ।”

जनार्दन ने कुछ उत्तर नहीं दिया । जगज न मिलने पर भी शिरोमणि कहने लगे—परन्तु देखा तुमने बोलने का ढङ्ग । आधे का तो मतलब ही समझ में नहीं आता । सच बोलता है, या हम लोगों को नचा रहा है—समझना कठिन है । सब कुछ जानता है, क्यों ?

राय महाशय ने फिर भी कुछ मन्तव्य प्रकट नहीं किया, वैसे ही चुपचाप चलने लगे। परन्तु मकान के पास आकर शिरोमणि कौतूहल को रोक नहीं सके। धीरे-धीरे बोले— तुम तो बड़े उदास मालूम होते हो भइया। सुफल होने की आशा नहीं होती क्या ?

राय बाबू ने इच्छा न रहने पर भी जरा ठहरकर कहा— देवी की इच्छा है।

शिरोमणि ने गर्दन हिलाकर कहा—इसमें सन्देह क्या है। परन्तु मामला सब गडबड हो गया मालूम होता है। न इसको पकड सके और न उसको मारने में ही समर्थ हुए। तुम्हारा क्या है भइया, रुपये का जोर है— परन्तु शेर की भाँद के सामने फन्दा फैलाने जाकर कहीं मैं न मारा जाऊँ।

जनार्दन जरा रुखे स्वर से बोले—आप क्या डर गये ?

शिरोमणि ने कहा—नहीं नहीं, डरा तो नहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, परन्तु तुम्हारे चेहरे से ऐसा भी मालूम नहीं होता कि तुम बहुत भरोसा पाकर आये हो। जर्मींदार साहब तो अजब ढङ्ग के आदमी हैं। बातों में जैसी पहेलियाँ हैं, काम भी वैसे ही अद्भुत हैं। यही आश्चर्य है कि उसने गला दबाकर जघरहन्ती शराब नहीं पिला दी। एककौड़ी के मुँह से गोसाँन की धमकी भी सुनी न ? मैं तो अडबड बहुत बरु आया, अच्छा नहीं किया। कहीं एककौड़ी भीतर

ही भीतर सब पोल न खोल दे। वही मसल हो कि “लडें लोह पाहन दोऊ बीच रुई जरि जाय।”

जनार्दन ने उदास भाव से कहा—मभी चण्डी माता की इच्छा है। धूप चढ आई है—एक वार तीसरे पहर आइएगा।
“अच्छा आऊँगा।”

गली का मोड़ घूमने पर दाईं ओर पेड़ों के भीतर से मन्दिर का शिखर दीखते ही वृद्ध शिरोमणि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कान और नाक में हाथ लगाया, परन्तु यह सुनाई नहीं दिया कि अस्फुट स्वर से क्या प्रार्थना की। इसके बाद वे धीरे-धीरे घर लौट गये।

१४

और-और स्थानों की तरह चण्डीगढ़ में भी दिन आते हैं, और चले भी जाते हैं, बाहर से कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। देवी की सेवा पूजा समान रूप से हो रही है। आस पास के गाँवा से यात्री आकर भीड़ लगाते हैं, चले जाते हैं, मनौती करते हैं, पूजा कराते हैं, बकरा काटते हैं, प्रसाद को हिम्से के लिए पुजारी से पहले की ही तरह लडते-भगडते हैं और उसी तरह मुक्तकण्ठ से अपनी प्रशंसा तथा पड़ोसियों की निन्दा कर शरीर और मन के स्वास्थ्य तथा स्वाभाविकता का प्रमाण दे रहे हैं। वास्तव में कहीं कुछ उलट-पलट नहीं हुआ है, परदेशी समझ नहीं सकते कि इस दर्मियान में हवा बदल गई है और

आँधी आने के पूर्व क्षण की तरह प्रकृति थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई है। मालूम नहीं होता कि इस गाँव के किसानों और मजदूरों ने निश्चय करके कुछ समझ लिया है, परन्तु पोटशी के सम्बन्ध में गाँव के मुखियों का मनोभाव कुछ भी क्यों न हो, ये दीन दरिद्र लोग जैसे उसकी भक्ति करते हैं वैसे ही उसको चाहते भी हैं। एककौड़ी नन्दो के अत्याचार से बचने का वही एक उपाय था। जब और कहीं थोड़ा-बहुत ऋण न मिलता तब भैरवी के सामने जाकर हाथ फैलाने में वे जरा भी न हिचकते थे। उसके मकान छोड़ देने के कारण वास्तव में इन लोगों को कोई दुश्चिन्ता न थी, वे जानते थे कि राप-बेटों का मेल एक न एक दिन हो ही जायगा। पोटशी की वदनामी की बात भी छिपी हुई नहीं थी, केवल उसी के लिए यह ढिंढोरा न पीटा जाता तो अच्छा था। क्योंकि भैरवियों के चाल-चलन के बारे में माथा-पच्ची करने की किसी ने आज तक आवश्यकता नहीं ममझी—गहुत दिनों के अभ्यास से यह बात इतनी तुच्छ हो गई थी। परन्तु पोटशी को उपलक्ष्य बनाकर देवी के मन्दिर के सम्बन्ध में जो मामला खड़ा किया गया है, अधिकारी लोग तारादास को साथ लेकर सुबह-शाम टुजूर के दरवार में हाजिरी देकर कोई उलट-फेर करने के लिए मनसूना गाँठ रहे हैं और एक अनजान छोटी लड़की को न जाने कहाँ से लाकर किसलिए रख छोड़ा है—ऐसी अनेक आशङ्कामयों के कारण उन लोगों के चित्ताकाश में

इस प्रकार के भावों का मेघ, क्रोध और चोभ की तरह, उमड़ने लगा कि इससे देश की भलाई नहीं होगी।

उस दिन अष्टमी थी। मन्दिर के आँगन में आदमियों का जमाव कुछ अधिक था। देवी के पास बैठकर षोडशी आरती का उपकरण मजा रही थी, इतने में तारादास और उस लड़की को साथ लिये एककौड़ी आया। षोडशी उसी तरह काम करने लगी, उसने मुँह उठाकर ताका तक नहीं। एककौड़ी ने कहा—माँ मङ्गला, अपनी चण्डी माता को प्रणाम करो।

पुजारी कुछ फर रहा था, वह सम्मान के साथ उठ खड़ा हुआ। षोडशी ने जिना ही आँख उठाये देख लिया। लड़की ज्योंही प्रणाम करके खड़ी हुई त्योंही पुजारी ने कहा—देवी की सन्ध्या आरती देखना चाहो तो दाहिनी ओर वह जो आसन विछा हुआ है उस पर जा बैठो।

एककौड़ी ने कनखियों से षोडशी को देखकर हँसते हुए कहा—ये अपनी जगह को स्वयं पहचान लेगी। पण्डितजी, आपको उसके लिए कष्ट न उठाना पड़ेगा, परन्तु देवी की चीज-वस्तु जो कुछ है वह एक-एक करके दिखा तो दीजिए।

पुजारी ने तनिक लज्जित होकर कहा—जरूर, जरूर। एक-एक करके सब दिखा दूँगा। फिहरिस्त के साथ सब चीजों का मिलान कर लिया है, कोई चिन्ता नहीं। वह जो बड़ा सन्दूक दिखाई देता है उसमें पूजा के पात्र तथा पीतल

और काँन के बड़े-बड़े वर्तन बन्द हैं, भण्डारा आदि बड़े कामा में ही वे निकाले जाते हैं। और लकड़ो के इम छोटें सन्दूक में मरुमल का चँदोवा, भालर वगैरह है। उस कोठरी में दरियाँ, गालीचे, पर्दे, बैठने के आसन—यही सब—

एककौडी ने कहा—और—

पुजारी ने कहा—और वह जो पूरव की दीवार में बड़े-बड़े ताले लटक रहे हैं, वह लोहे का सन्दूक है। मन्दिर के साथ जडा टुआ है। उसमें देवी का सोने का सुकुट, रामपुर की महारानी की दी हुई मोतियों की माला, धोजगाँव के जमींदार के दिये हुए सोने के बाजूबन्द, हार और कितने ही भक्तों के दिये हुए तरह-तरह के सोने-चाँदी के जेवर हैं। इसके सिवा रुपया-पैसा, दस्तावेज, सोने-चाँदी के वर्तन—अर्थात् जितनी कीमती चीजें हैं, सब उस सन्दूक में हैं।

एककौडी ने कहा—मैं नया आदमी नहीं हूँ पण्डितजी, सब जानता हूँ। परन्तु वह सब तुम्हारे मुँह में ही है या सन्दूक टटोलने पर भी कुछ मिलेगा? वहाँ तो वे बैठी हुई हैं, जरा ताली मॉंगकर खोल करके दिखाइए न? आपने सुना नहीं कि गाँव के मुखियों की प्रार्थना मञ्चूर करके तुजूर ने क्या हुक्म दिया है? चैत्र सक्रान्ति के पहले सभी चीजें एक बार मिला लेनी होंगी।

पुजारी वज्राहत की तरह चुपचाप खडा रहा। मन्दिर से अब षोडशी का प्रभुत्व उठ गया है यह उसे मालूम है,

और यह भी वह जानता है कि नन्दीजी का प्रत्यक्ष आदेश न माना जायगा तो उसका नतीजा कैसा भयानक होगा। परन्तु वह जो भैरवी समीप ही बैठे देवी का काम करती हुई सब अपने कानों से सुनकर भी कुछ जवाब नहीं दे रही है, उसके सामने जाकर सुनाने का साहस पुजारी को नहीं हुआ। उसने डरती आवाज से कहा—पर उसकी तो अभी देर है नन्दीजी। इधर सन्ध्या हो आई है—

तारादास ने अब तक कुछ नहीं कहा। और सङ्कोच तथा भय का चिह्न अकेले पुजारी के ही चेहरे पर घोड़े भलक रहा था। धीरे-धीरे उसने कहा—मिला लेने में बहुत विलम्ब लगेगा नन्दीजी। किसी दूसरे दिन जरा जल्दी आकर यह काम कर लिया जायगा। क्यों ?

एककौड़ी ने सोचकर उत्तर दिया—“अच्छा, यही सही।” पुजारी से कहा—परन्तु याद रहे पण्डितजी, इसी शनिवार को सक्रान्ति है। गाँव के आदमियों की सोलहों आने पञ्चायत इस आँगन में होगा। तुजूर भी आवेंगे। उत्तरी हिस्से में कनात लगाकर मरुमल का गालीचा बिछवा दीजिएगा। बत्ती का इन्तजाम भी कर रलिएगा।

एककौड़ी जरा जोर से बोल रहा था, इसलिए कौतूहल-वश बहुत आदमी धरामदे के नीचे इकट्ठे हो गये थे कि देखें क्या हो रहा है। उसने जरा और जोर देकर उन लोगों को सुनाते हुए पुजारी से कहा—“उस दिन भीड़ मामूली न होगी,

मामला भी पेचदार है।” मङ्गला लडकी को जरा प्यार करते हुए कहा—“क्यों जी नन्हों भैरवी, ममभ-बूभकर सब चला सकोगी न ? हम लोग तो हई हैं, हुजूर भी अब से खुद नजर रक्खेंगे, क्योंकि काम मामूली नहीं है। इसे चलाने के लिए काफ़ी अछु चाहिए।” इतना कहकर उसने पोडशी की ओर तिरछी नजर से देखा कि वह पहले की ही तरह पूजा के कार्य में लवलीन है। तारादास की ओर ताक-कर उसने हँसते हुए कहा—“क्यों पण्डितजी नये अभिपेक के सुहूर्त का कुछ निश्चय हुआ है, सुना ? लोग इतना दिक् कर रहे हैं कि मुझे नहाने-खाने की फुरसत नहीं देते।

तारादास ने अस्फुट स्वर से जो उत्तर दिया वह समझ में नहीं आया। वे लोग फाटक से बाहर निकल गये। पीछे पीछे और बहुत आदमी भी चले गये, परन्तु चण्डी माता की आरती की प्रतीक्षा में जो लोग रह गये वे पोडशी के अबन्त मुख की ओर चुपचाप ताकने लगे। किसी को हिम्मत न हुई कि पास जाकर कुछ पूछे।

ठीक समय पर देवी की आरती हुई। प्रसाद लेकर लोग अपने-अपने घर चले गये। इसके बाद जब नौकर दरवाजा बन्द करने आया तब पोडशी ने पुजारी को एकान्त में बुलाकर पूछा—पण्डितजी, देवी की सेविका मैं हूँ या एककौड़ी नन्दी ?

पुजारी ने लज्जित होकर कहा—तुम्हीं हो माता, तुम्हीं तो देवी की भैरवी हो।

पोडशी ने कहा—परन्तु आपके वर्ताव से आज दूसरा ही भाव प्रकट हुआ है। जब तक मैं हूँ, जमींदार के गुमाशते की अपेक्षा मेरा सम्मान मन्दिर के भीतर अधिक रहना चाहिए। ठीक है न ?

पुजारी ने कहा—इसमें क्या सन्देह माजी। परन्तु—

पोडशी बोली—मेरे यहाँ रहने तक आपको उस परन्तु को छाँडकर चलना पडेगा।

यह शान्त मृदु कण्ठ पुजारी के लिए सुपरिचित था, वह सिर झुकाये हुए चुपचाप खडा रहा। पोडशी ने और कुछ नहीं कहा। मन्दिर के दरवाजे पर ताला लगने पर चाबियों का गुच्छा आँचल से बाँधते हुए वह धीरे-धीरे बाहर चली गई।

दूसरे दिन प्रातः काल नहाकर आते हुए पोडशी ने दूर से देखा कि इतनी ही देर में उसकी भोपडी के चारों ओर बहुत से आदमियों की भीड लगी है। पास आने पर सब लोगों ने प्रणाम कर ज्योंही पाँव की धूल लेने के लिए एक साथ पच्चीसो हाथ फैलाये त्योंही पोडशी जरा पीछे हटकर हँसते हुए बोली—उतनी धूल मेरे पाँवों में नहीं है। मुझे दुबारा मत नहलाओ, मन्दिर में जाने की देर भी टो रही है। बोलो क्या बात है ?

ये लोग प्रायः सभी उसकी प्रजा हैं, उन्होंने हाथ जोडकर कहा—माजी, हम लोग मारे जाते हैं। हमारा सर्वनाश हो रहा है।

उन लोगों का चेहरा बहुत उदास और फीका था। कोई-कोई तो रात भर सो ही नहीं सका। उनके मुँह की ओर देख कर उसका हँसी-भरा मुँह भी पल भर में मलिन हो गया। हालत और उम्र में बुढ़ा विपिन माइती सबसे बड़ा है, इसी को लक्ष्य कर पोडशो ने पृच्छा—क्या सर्वनाश हो रहा है विपिन ?

विपिन ने कहा—किसी मन्द्राजी साह्य को दक्षिण का सारा मैदान जर्मीदार की तरफ से बेचा जा रहा है। हमारी सारी जायदाद वही है। ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा माजी, सब भूखों मर जायेंगे।

बात ऐसी असम्भव थी कि पोडशो हँसकर बोली—तो तुम लोगों का भूखों मरना ही अच्छा है। जाओ, घर जाओ, मेरा सबेरे का समय बृथा न गँवाओ।

परन्तु उसकी हँसी में कोई शामिल नहीं हो सका, सभी ने एक साथ कहा—नहीं माजी, यह बात सच है।

पोडशो को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा—“नहीं रे, यह कभी सच नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ किसी ने दिल्ली की है।” उसके विश्वास न करने का विशेष कारण था। एक तो उन खेतों का उपयोग वे लोग मीरुस्ती रूप से रहे हैं, दूसरे सारा मैदान केवल वीजगाँव की नहीं है। इसका कुछ अंश चण्डी माता का है और बाबू का खरीदा हुआ है, इसलिए जीवानन्द इसे हस्तान्तरित नहीं कर सकते। परन्तु बृद्ध

जब सारी घटना का वर्णन कर गया कि कल कचहरी में बुलाकर नन्दीजी ने अपने मुँह से सबको सुना दिया और वहाँ जनार्दन और तारादास दोनों ही मौजूद थे, देवी की तरफ से तारादास ने ही दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया है तब असीम क्रोध और आश्चर्य से पोडशा बहुत देर तक स्तब्ध हो रही। अन्त में धीरे-धीरे बोली—अगर ऐसा ही हुआ हो तो तुम लोग अदालत में जाकर नालिश कर दो।

विपिन ने हताश होकर कहा—यह कैसे हो सकता है माजी ? राजा के साथ क्या लड़ाई की जा सकती है ? पानी में रहकर भगर से वैर करने से तो घर-दुआर जो कुछ है वह भी न रहेगा।

पोडशा ने कहा—तो वपौती जायदाद तुम लोग चुपचाप छोड़ दोगे ?

विपिन ने कहा—अगर तुम कृपा करके हम लोगों को वचा दो तो हम वच जायँ माजी। नहीं तो बाल-बच्चों को लेकर हमें भील माँगना पड़ेगा। इसी लिए तो तुम्हारे पास हम सब दौड़े आये हैं।

पोडशा ने एक-एक करके सबके मुँह की ओर ताका। इनमें से कोई भी कुछ कर नहीं सकता, इस कारण ऐसी विपत्ति में पड़कर सबके सब दूसरे की कृपा माँगने आये हैं। इन उद्यम-हीन मनुष्यों की करुण प्रार्थना से उसकी छाती के अन्दर आग जल उठी। उसने कहा—तुम इतने मर्द मिलकर अपना

बचाव नहीं कर सकते और मैं औरत होकर तुम्हें बचा सकूँगी ? नाराज मत होना विपिन परन्तु मैं पूछती हूँ कि इस मीन के बदले अगर तुम्हारी घरवाली को इसी तरह से जर्मीदार जबरदस्ती किसी के हाथ बेच डालते, और वह उस पर दखल करने आता तो तुम क्या करते बेटा ?

पोडशी की इस अनोखी उपमा से बहूतों के मुख दबी हँसी से उज्ज्वल हो उठे, परन्तु वृद्ध की आँखों से आग की चिनगारियाँ निकलने लगीं। उसने अपने को सँभालकर कहा— मैं तो अब धुड़हा हो चला माजी, मेरी बात जाने दो, परन्तु मेरी घरवाली के पाँच-पाँच जवान बेटे हैं। वे उस वक्त जेल तो क्या फाँसी से भी नहीं डरेगे, यह बात मैं तुमसे देवी की सौगन्द खाकर कहे देता हूँ।

वह और भी कुछ कहना चाहता था परन्तु पोडशी ने रोककर कहा—अगर यह बात सत्य है विपिन, तो अपने उन पाँच-पाँच जवान बेटों से कहना कि यह पुरतैनी जायदाद उनकी बूढ़ी माँ से तिल भर भी कम नहीं है। ये दोनो ही समान रूप से उनका पालन करती आई हैं।

वृद्ध पलक मारते ही सीधा खड़ा होकर बोला—ठीक है माजी। हमारी माँ ही तो हैं। मैं अभी जाकर लडकों से कहता हूँ, परन्तु तुम सहायक रहना।

पोडशी सिर हिलाकर बोली—“एक मैं ही क्यों विपिन, चण्डी माता तुम्हारी महायत्ना करेंगी। परन्तु मेरा पूजा करने

का समय बीता जा रहा है, मैं चलती हूँ ।' अब वह तेजी से अपनी भोपडी के भीतर चली गई । बाहर विपिन की गम्भीर आवाज उसको सुनाई दी । वह सबसे पुकारकर कह रहा है—तुम लोगो ने सुन लिया न । सिर्फ गर्भधारिणी ही माँ नहीं हैं, बल्कि जो पालती है वह भी माँ है । कुछ परवा नहीं, अपनी माँ को हम किसी हालत में दूसरे के हाथ नहीं सौंप सकेंगे ।

१५ -

चैत्र की सक्रान्ति समीप आ गई । 'चडक पूजा' और 'गाजन' उत्सव की उमङ्ग में देश भर के किसान उन्मत्त से हो उठे हैं—उनके लिए इतना बड़ा त्योहार दूसरा नहीं है । क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ने महीने भर उपवास कर सन्यास का व्रत किया है, उनकी धोती तथा चदर के गेरुए रङ्ग से मानो हवा पर भी वैराग्य का रङ्ग चढ गया है । रास्ते में 'शिव-शम्भु' ध्वनि का विराम नहीं है, चण्डी माता के मन्दिर में उनकी आवाज ही समाप्त नहीं होती—श्राँगन के शिवमन्दिर के चारों ओर चक्कर लगाकर उनके सेवरु लोग ताण्डव नृत्य कर रहे हैं । पूजा करने, तमाशा देखने और खरीदने-बेचने के लिए यात्री लोग आ रहे हैं । बाहर दूकानदारों ने जगह के लिए झगडना शुरू कर दिया है । चण्डीगढ में इम ओर से उस ओर तरु इस महोत्सव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं । हृदय की

अशान्ति को दवाकर पोडशी पिछले वर्षों की तरह काम में लग गई है—सब ओर नजर रखने के कारण सुबह से रात तक उसको मन्दिर छोड़ने की फुरसत नहीं है। तीसरे पहर वह मन्दिर के घरामदे में बैठे वही-खाते का हिसाब देख रही थी, तरह तरह के शब्द उसके कानों में आकर गूँज रहे थे, परन्तु भीतर जाकर उसकी एकाग्रता में विघ्न नहीं डाल सकते थे, इतने में एकाएक चारों ओर के सत्राटे ने मानो धका मारकर उसे सचेत कर दिया, उसने आँख उठाकर देखा कि स्वयं जीवानन्द चौधरी मौजूद है। उसके दाहिने, बाँये और पीछे परिचित-अपरिचित बहुत आदमी हैं। राय महाशय, शिरोमणि जी तारादास, एककौडो तथा और भी गाँव के बहुत से आदमी उपस्थित हैं। और भी तीन-चार आदमी थे जिन्हें वह पहचान नहीं सकी, परन्तु पोशाक की परिपाटी से मालूम हुआ कि ये लोग कलकत्ते से बाबू के साथ आये हैं। शायद दिहात की विशुद्ध हवा तथा प्रकृति के सौन्दर्य से लाभ उठाना ही इन लोगों का उद्देश्य हो। चार-पाँच भोजपुरी पियादे भी हैं। उनके सिरों पर रङ्गान माफे और कन्धों पर बाँस की लम्बी लाठियाँ हैं। थोड़े दिन पहले हुई होली के चिह्न उनके कपड़ों पर अब तक विद्यमान हैं। प्रभु की शरीर-रक्षा तथा गौरववृद्धि करना ही उनका उद्देश्य है। पोडशी पल भर के लिए आँख उठाकर फिर हिसाब के वही-खाते को देखने लगी, परन्तु पहले की तरह मन नहीं लगा सकी।

जीवानन्द पहले कभी यहाँ आया नहीं था, वह आग्रह के साथ एक-एक करके सब देखने लगा और सबसे प्रवीण शिरोमणिजी अपनी अनेक वपों की अभिज्ञता से जहाँ जो कुछ है—उसका इतिहास, प्रवाद वाक्य—सभी इस नये जर्मींदार को सुनाते हुए साथ-साथ चलने लगे। इस तरह कोई आधे घण्टे तक घूम-फिरकर सब लोग मन्दिर के फाटक के पास आकर रुके हो गये। इसके दो ही मिनट बाद पुजारी ने पोडशी के पास आकर कहा—माँजी, बाबूजी ने नमस्कार कहकर जरा वहाँ चलने के लिए आपसे अनुरोध किया है।

पोडशी सिर उठाकर जरा सोच लेने के पश्चात् बोली—“अच्छा, चलो, आती हूँ।” अब वह पुजारी के पीछे-पीछे जर्मींदार के सामने आ राडी हुई। जीवानन्द ने दो-चार मिनट चुनचाप उमको नख से शिर तक बार-बार देखकर अन्त में धीरे-धीरे कहा—सबके अनुरोध से मैंने तुम्हारे बारे में जो हुक्म दिया है वह सुना है ?

पोडशी सिर हिलाकर बोली—नहीं।

जीवानन्द ने कहा—तुम्हें अलग कर दिया गया, और उस छोटी लडकी को नई भैरवी बनाकर मन्दिर के सब कामों का भार सौंपा गया है। अभिषेक का दिन अभी निश्चित नहीं हुआ है, पर जल्दी ही हो जायगा। कल सबेरे राय बाबू वगैरह यहाँ आवेंगे। उन्हें देवी की तमाम अस्थावर

सम्पत्ति सहेज देना और मेरे गुमाश्ते को सन्दूक की ताली दे देना । इस मन्वन्ध में तुम्हें कुछ कहना है ?

पोडशी ने बहुत पहले से ही अपने को सँभाल लिया था । इसी से उसकी आवाज में कोई उत्तेजना प्रकट नहीं हुई । उसने सहज कण्ठ से उत्तर दिया—मेरे कहने से क्या आप लोगो को कुछ प्रयोजन है ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं । परन्तु परसों शाम को यहाँ एक सभा होगी । चाहे तो दस आदमियों के सामने अपना दुःख प्रकट कर सकती हो । हाँ, मुना है कि तुम मेरे विरुद्ध मेरे किसानों को उभाड़ने की चेष्टा कर रही हो ?

पोडशी बोली—यह तो मालूम नहीं । परन्तु अपने किसानों को आपके अत्याचार से बचाने की चेष्टा जरूर कर रही हूँ ।

जीवानन्द ने दाँतों से हीँठ दबाकर कहा—बचा सकोगी ?

पोडशी ने कहा—यह तो माता चण्डी के हाथ में है ।

जीवानन्द ने कहा—वे मारे जायँगे ।

पोडशी ने कहा—वे जानते हैं कि मनुष्य अमर नहीं है ।

क्रोध और अपमान से तमाम आदमियों का चेहरा लाल हो उठा । एककौड़ी ऐमा भाव दिखा रहा था मानो उसने बहुत कोशिश करके अपने को सँभाल रक्खा है ।

जीवानन्द ने दम भर चुप रहकर कहा—तुम्हारे किमान तो अब कोई नहीं हैं । वे जिनके किसान हैं, उन्होंने खय दस्ता-वेज पर दस्तपत्र कर दिया है । उसे कोई रोक नहीं सकता ।

पोडशी ने मुँह उठाकर पूछा—आपका और कोई हुक्म है ?
जीवानन्द को स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कहते समय उसके
होठ उपेक्षा के आभास से मानो फडक उठे, परन्तु सचेप से
जवाब दिया—नहीं, और कुछ नहीं ।

पोडशी ने कहा—तो कृपया अब मेरा कहना सुन लीजिए ।
“कहो ।”

पोडशी ने कहा—कल देवी की अस्थावर सम्पत्ति सहेजने की
मुझे फुरसत नहीं है और परसों मन्दिर में कहीं सभा समिति
करने को स्थान भी नहीं होगा । यह सब बन्द रखना होगा ।

शिरोमणि ने अब तक मह लिया था, अब नहीं सहा
गया । अचानक चिन्नाकर कहा—कभी नहीं ! किसी हालत
में नहीं । यह चालाकी हम लोगों के साथ नहीं चलेगी,
यह मैं कहे देता हूँ ।

एक जीवानन्द को छोड़कर बाकी जितने आदमी वहाँ
थे सभी ने इसकी प्रतिध्वनि की ।

जनार्दन राय ने अब तक कुछ रुहा नहीं था, कोलाहल
बन्द होने पर वे एकाएक उत्तेजित स्वर से बोले उठे—बतलाओ,
तुमको फुरसत क्यों नहीं है और मन्दिर के भीतर स्थान क्यों
नहीं होगा ?

इस प्रश्न के आखिरी हिस्से में ताना समझकर भी पोडशी
ने महज कण्ठ से उत्तर दिया—आप तो जानते ही हैं राय
दाबू कि अब चटक मकान्ति का समय है । यात्रियों को

भीड़ है, सन्यासियों का जमघट है, मुझे ही फुरसत कहाँ और उन लोगों को ही कहाँ हटा दूँ ?

वास्तव में बात ऐसी ही है। जीवानन्द ने भी समझ लिया कि इस निवेदन में रत्ता भर भी अत्युक्ति नहीं है, परन्तु जो लोग मुखिया हैं, वे दृढप्रतिज्ञ होकर आये थे इसलिए इस नम्र निवेदन को उपहास समझकर एकदम जल उठे। जनार्दन राय अपने को मूलकर चिन्ता उठे—“सभा तो होगी ही, मैं कहता हूँ अवश्य होगी।” भीड़ में से किसी ने एक सख्त बात तक कह डाली।

वह पोंडशी को स्पष्ट सुनाई दी और साथ ही साथ उसका चेहरा बहुत कठोर और गम्भीर हो उठा। पल भर चुप रहकर उसने खासकर जीवानन्द को लक्ष्य करके कहा—भगडा करने में मुझे घृणा मालूम होती है। उसके लिए अभी मौका भी नहीं है—यह बात अपने अनुचरो को समझा दीजिएगा। मुझे फुरसत कम है, आप लोगों का काम हो गया हो तो मैं अब जाती हूँ।

इस मुँह, इस कण्ठस्वर और इस प्रकार की अवहेला से जीवानन्द को भी बहुत चोट लगी और उसका कण्ठस्वर भी तीक्ष्ण हो उठा। उसने कहा—परन्तु मैं हुक्म दिये जाता हूँ, कल ही यह सब होगा और होना ही चाहिए।

“जबरदस्ती ?”

“हाँ, जबरदस्ती।”

“सुविधा-असुविधा कुछ भी क्यों न हो ?”

“हाँ, सुविधा-असुविधा की कुछ परवा नहीं ।”

पोडशी ने अब तर्क नहीं किया । पीछे ताककर इशार से एक आदमी को बुलाकर पूछा—सागर, तुम्हारी तैयारी है न ? सागर विनय के साथ बोला—हाँ भाजी, तुम्हारे आशीर्वाद से किसी बात की कमी नहीं है ।

पोडशी ने कहा—बहुत अच्छा । जमींदार के लोग कल यहाँ बलवा करना चाहते हैं, परन्तु मैं यह नहीं चाहती । मेरी इच्छा नहीं है कि इस उत्सव के समय यहाँ किसी तरह का खून-परावा हो, परन्तु जरूरत पड़ी तो सब कुछ करना होगा । तुम लोग इन आदमियों को पहचान लो, इनमें से कोई भी कल मन्दिर के आसपास न आने पावे । एकाएक मार-पोट नहीं करना, सिर्फ गर्दनियों देकर निकाल देना ।

अब वह किन्नी तरफ न देखकर धीरे से मन्दिर के भीतर चली गई । पोडशी को लोग बीस वर्ष से देखते आये हैं । किसी को मालूम भी नहीं था कि उसको जानने में कुछ भी बाकी है, परन्तु आज उसके स्वभाव के इस असाधारण अंश का प्रथम परिचय पाकर हुजूर से लेकर सिपाही तक सभी माने पत्यर की मूर्त्ति की तरह स्तब्ध हो गये ।

१६ ✓

चैत्र की सक्रान्ति का उत्सव निर्विघ्न हो गया, कोई उपद्रव नहीं हुआ । यात्री लोग घर लौट गये, दूकानदार दूकान उठाने

लगे, गेरुआधारी वनावटी सन्यासी लोग भी 'शिव-शम्भु' का चिह्नाना छोड़कर गृहस्थी के काम में मन लगाने की आवश्यकता समझने लगे, आवेहवा का वही पुराना अभ्यस्त भरना वहने लगा, केवल चण्डीगढ़ की भैरवी के शरीर में न मालूम किस रोग ने घर कर लिया कि उसका वह पहले का चेहरा फिर नहीं लौटा, न जाने किस भय से उसका मन दिन-रात चौकन्ना रहने लगा।

पोडशी की आशा थी कि उत्सव में कोई विघ्न नहीं होगा क्योंकि देवता के क्रोध के दायित्व को दूसरा कोई सिर पर ले भी सकता है किन्तु जनार्दन राय नहीं लेंगे—यह वह निश्चित रूप से जानती थी। परन्तु अब ?

तो भी दिन इस तरह बीतने लगे मानो कोई भूभट नहीं है, सब शान्त हो गया है। परन्तु वास्तव में शान्त कुछ भी नहीं हुआ था। एक पोडशी क्यों, प्रायः सभी के मन में यह आशङ्का थी कि भीतर ही भीतर गुप्त रूप से कोई कठिन पड्यन्त्र चल रहा है। उस मैदान से मम्बन्ध रखनेवाले किसानों के पास आज उसने खबर भेज दी थी कि वे लोग देवी की सन्ध्या-आरती के बाद मन्दिर के आंगन में इकट्ठे होंगे। आरती समाप्त हो गई। रात के आठ के बाद नव, नव के बाद दस वजने को हुए, परन्तु किसी के दर्शन नहीं हुए। जो लोग नित्य प्रणाम करने आते हैं वे प्रसाद लेकर एक-एक करके चले गये। पुजारी भी सटक गये और मन्दिर का नौकर द्वार बन्द करने की आज्ञा मांगने लगा। अब प्रतीक्षा करने से कोई

लाभ नहीं है, अवश्य ही कोई दूसरी घटना हुई है, परन्तु क्या हुआ है, यह ठीक ठीक समझ न सकने के कारण उसके मन में बड़ी बेचैनी मालूम होने लगी। इसी समय सागर धीरे-धीरे आया। उसे अकेला देखकर षोडशी ने व्यग्र भाव से पूछा—
इतनी देर क्यों हुई सागर ? और कोई क्यों नहीं आया ?
क्या उन लोगों को खबर नहीं मिली ?

सागर ने कहा—खबर जरूर मिली है माजी। मैं खुद घर-घर जाकर तुम्हारी इच्छा जता आया हूँ।

षोडशी ने शङ्कित भाव से कहा—तो ?

सागर ने कहा—आज शायद किसी को फुरसत नहीं मिली। हुजूर की कचहरी में गाँव भर के आदमियों को पधायत था, वह अभी खतम हुई है। पञ्चू, अनाथ, राममय, नवकुमार, अक्षय भाइती, यहाँ तक कि हमारे बुढ़े विपिन चाचा भी अपने जवान बेटों के साथ वहाँ मौजूद थे। एक भी आदमी बाकी नहीं था। मैं भी एक नाँवू के पेड़ के नीचे दीवार की ओट में खड़ा था।

षोडशी ने कहा—अच्छा नहीं किया सागर, अगर कोई देख लेता तो—

सागर हँसकर बोला—' मैं अकेला नहीं गया था माँजी, यह साध में थी—' यह कहकर उमने बाँये हाथ की लम्बी और मजबूत बाँस की लाठी को घड़े प्यार के साथ दाहिने हाथ में ले लिया।

पोडशी ने कहा—परन्तु पश्चायत तो यहीं होने को थो ?

सागर ने कहा—हाँ । हु जूर के भोजपुरी दरवानों की इच्छा भी थो, परन्तु गांव का कोई आदमी राजा नहीं हुआ । वे इधर के आदमी हैं—हम चचा भतीजे को शायद जानते हैं ।

पोडशी ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा—सभा में क्या निश्चय हुआ ?

सागर ने उत्तर दिया—निश्चय अच्छा ही है । इसी मङ्गल को मङ्गला मॉजी का अभिषेक होगा । तुमको भी कोई चिन्ता नहीं है—काशीवास करने की प्रार्थना करने से सौ रुपये के लगभग मिल सकेगा ।

पोडशी ने कहा—प्रार्थना किससे करनी होगी ?

सागर ने कहा—शायद हु जूर से ही ।

पोडशी ने पूछा—और उन लोगों का क्या हुआ, जिनकी जमीन छीन ली गई है ?

सागर ने जवाब दिया—डरो मत मॉजी, बराबर जो होता आया है वही होगा । उस दिन जो किसानों की ओर से पाँच हजार रुपया नजराने का दाखिल हुआ था उसके दस्तावेज वगैरह राय बाबू के सन्दूक में ही तो रखे हैं—तहाँ तो उनका जरा सा हुक्म पाते ही सब लोग भीड लगाकर क्यों पहुँचते ?

पोडशी थोड़ी देर चुप रहकर बोली—और तुम दोनों का क्या हुआ ?

सागर ने कहा—“हम चचा-भतीजे का ?” जरा हँसकर फिर कहा—“उसका इन्तजाम भी उन्होंने कर लिया है। सात-आठ दिन तक चुप नहीं बैठे थे। दारोगा पुलिस सब हाथ में ही हैं, आस-पास में कहीं डाका पडने भर की देर है। जानती हो न माँजी, एक बार दो-दो साल की सजा काट चुके हैं। अबकी दस साल के लिए निश्चिन्त। चचा इतने में ही चल बसेंगे, मेरी उम्र अभी कम है। शायद फिर एक बार देश का दर्शन मिल जाय।” यह कहकर वह सनेलगा।

पोडशी ने डरती आवाज से पूछा—अरे, क्या सचमुच ही इसे तू सच समझता है ?

सागर ने कहा—समझना क्या है माँजी, यह तो आँख के सामने साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादा नहीं, महीने दो महीने की ही देर है। शायद अपनी आँखों देरकर जा सकोगे माँजी।

पोडशी ने कहा—और जो लोग वहाँ गये हैं उन लोगों का क्या हाल है ?

सागर ने कहा—उनकी हालत हमसे भी बदतर है। जेल-खाने में खाने को तो देते हैं। सो हमें वहाँ खाने को मिल जायगा, पर इन्हे वह भी न मिलेगा। नालिशों की डिगरी होने की देर है। वस, उसके बाद राय बाबू के जोत में मजदूरी करके एक टुकड़ा मिल जाय तो अच्छी बात, नहीं तो आसाम का चाय-बगीचा है ही। क्यों माँजी, तुम्हें याद नहीं पडता,

उस बनियों की बस्ती में हमारे ही बहुत से 'वाठरी' रहते थे, परन्तु आज वे कहाँ हैं ? उनमें से कितने ही तो चले गये कोयला रोादने और बाकी भेज दिये गये चाय बगीचों में। परन्तु मैंने बचपन में देखा है कि उनके खेत थे, उनके हल-वर्धा सब कुछ था। गुजारे भर की खेती उनमें से सभी के पास थी। आज उसका आधा हिस्सा एककौड़ी नन्दी के और आधा हिस्सा राय भावू के पेट में समा गया है।

बोडशी चुपचाप गूढी-गूढी सारी घटना के गुह्य का अनुभव करने लगी। अभी उस दिन जो लोग दल बाँधकर उसी से आश्रय माँगने आये थे वही लोग आज असमर्थ जान कर, प्रबल के इशारे से, उसी के विरुद्ध सलाह करने के लिए एकत्र हुए हैं। कहाँ वह गये उस दिन के उनके सारे सङ्कल्प। जो प्रबल है, जो धनवान् और धर्मज्ञानहीन है, उसके अत्याचार से बचने का कोई उपाय दुर्बल के पास नहीं है। कहीं इसकी नालिश नहीं चलती, इसका फ़ैसला करनेवाला भी कोई नहीं है—ईश्वर सुनते ही नहीं—ससार में चिरकाल से बेरोक-टोक यही होता आया है। आज जो इतने आदमी केवल एक प्रबल मनुष्य के चरणों में अपने विवेक-धर्म-मनुष्यत्व आदि सभी की तिलाञ्जलि देकर किसी तरह जीते रहने का जरा सा आश्वासन पाकर घर लौट आये, इसकी लज्जा, इसका दैन्य, इसकी व्यथा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जहाँ तक मालूम होता है, इन दुखियों के इस छुद्र कौशल के सिवा दुनिया में

और कुछ भी नजर नहीं आता । जिस अन्याय ने इतने मनुष्यों को मनुष्यत्वहीन बना दिया, उसको रोकने की शक्ति इतने बड़े ब्रह्माण्ड में कहाँ है ? इसी सागर सरदार ने उस दिन पांडितों का पत्त ले लिया था—दुर्बल होकर इतनी बड़ी स्पृहा करने के अपराध का उससे सैकड़ों गुना अधिक दण्ड उसके लिए रख लिया गया है—इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है । वह एकाएक पूछ बैठो—अच्छा सागर, तुमने यह सब सुना किसके मुँह से ?

सागर ने उत्तर दिया— खुद हुजूर के मुँह से ।

“तो यह उन्हीं की चाल है ?”

सागर ने जरा सोचकर जवाब दिया—क्या मालूम माँजी, शायद राय बाबू भी शामिल हों ।

पोडशी पल भर स्थिर रहकर बोली—अच्छा सागर, तुम जानते हो कि जमींदार मेरे ऊपर अत्याचार क्यों नहीं करते ? मैं तो दूटी भोपड़ी में अकेली रहती हूँ—जब चाहें तभी तो कर सकते हैं ।

सागर हँस पड़ा, बोला—“किमने तुमसे कहा कि तुम अकेली रहती हो ? माँजी, हमें अपना परिचय अपने मुँह से कराने की मनाही है, गुरु का निषेध है”—कहते कहते महसा उसके मजबूत दाहिने हाथ की पाँचों उँगलियाँ लाठी पर फौलाद की सँडसी की तरह चिपक गई । उसने फिर कहा — जितके डर से पश्चायत मन्दिर में न होकर हुई है एककौड़ो

की कचहरी में, उसी के डर से तुम्हारे नज़दीक भी कोई नहीं आता। हरिहर सरदार के भतीजे सागर का नाम दस-बीस कोस के आदमी जानते हैं। तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाला आदमी तो माँजी, आस-पास के पचास गाँवों में से भी कोई ढूँढ नहीं सकता।

पोडशी की आँखें अकस्मात् जल उठों, बोली—सागर, क्या यह सच है ?

सागर झुककर, उसी दम अपने हाथ की लाठी पोडशी के पाँव के नीचे रखकर, बोला—हाँ माँजी, ऐसी ही दुआ दी कि मेरी बात झूठी न हो।

पोडशी की दृष्टि एक वार जरा कोमल होकर फिर वैसे ही जलने लगी। उसने कहा—सागर, मैंने तो सुना है कि तुम लोगों को जान की परवा नहीं होती ?

सागर हँसता हुआ बोला—मैं नहीं कहता हूँ माँजी कि तुमने झूठ सुना है।

पोडशी ने कहा—सिर्फ जान दे ही सकते हो, ले नहीं सकते ?

“जरा ठुक्क देकर आज रात को ही जाँच कर लो न माँजी ?” यह कहकर सागर ने ज्योंही पोडशी के मुँह पर आँखें जमाकर ताका त्योंही पोडशी डर और आश्चर्य से एकदम निर्वाक हो गई। सागर की दृष्टि पल भर में बदल गई है। उसमें वह स्वाभाविक दीप्ति नहीं है वह तेज नहीं है, वह कोम-

लता न जाने कहाँ छिप गई है—उसके स्थान पर निष्प्रभ सकुचित गम्भीर दृष्टि है—मानो यह वह सागर ही नहीं है, मानो यह कोई और आदमी है। सागर कहने लगा। उमका स्वर शान्त, कठिन और भारी है। उमने कहा—‘रात ज्यादा नहीं हुई है, अभी काफी समय है। इसी लिए चण्डो माता का दरवाजा अभी तक खुला है, तुम्हारा हुक्म मैंने सुन लिया माँजी। बहुत अच्छा, वही होगा माँजी, पाप का अन्त यही किये देता हूँ। कल सबेरे ही सबको मालूम हो जायगा कि तुम्हारा सागर सरदार शेरजी नहीं मार गया है।’ उसकी पुरतैनी घोंस की लम्बी लाठी तब तक पोडशी के पैरों के नीचे पडो थी। वह झुककर उसे उसी दम हाथ में लेकर सीधा खडा हो गया। पोडशी ने कुछ कहने की चेष्टा की, उसके होंठ काँपने लगे, मना करना चाहा परन्तु गले से आवाज नहीं निकली। भूडोल के समय के समुद्र की तरह उमकी छाती के अन्दर खून हिलोरे मारने लगा और पल भर के लिए सागर की ऐसी अनेकों घातक की मूर्ति उसकी आँखों के सामने से हट गई। सागर ने कुछ कहा, परन्तु वह पोडशी की समझ में नहीं आया। इतना ही मालूम हुआ कि वह दण्डवत् प्रणाम कर तेजी से जा रहा है।

१७

पोडशी जिस समय सचेत हुई उम समय सागर चला गया था।

मन्दिर के नौकर ने पुकारकर पूछा—अब दरवाजा बन्द कर दूँ माँजी ?

“कर दो” कहकर वह चाभी के लिए खड़ी रही। वचन से उसका जीवन यथेष्ट सुख में नहीं जाता, सोलहो आने आराम के दिन भी नहीं कटे, खासकर जिस अशुभ मुहूर्त में बीजगाँव के नये जमींदार ने चण्डीगढ़ में पैर रक्खा है उसी दिन से उपद्रव और अशान्ति के ववण्डर ने उसे घेरकर अशान्त, चञ्चल और विश्रामहीन कर रक्खा है। तो भी वे सब क्लेश गोष्पद के तुल्य हैं और जहाँ आज सागर सरदार उसे डालकर अदृश्य हो गया है वह दशा समुद्र के समान है। परन्तु इस एक ही रात के भीतर सागर का वास्तव में ऐसा कोई भयानक काम कर गुजरना इतना असम्भव था कि षोडशी विश्वास नहीं कर सकी। अथवा, यह शङ्का भी उसके मन में नहीं हुई कि जो आदमी हत्या, हिंसा और अत्याचार के सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से दिन-रात तैयार रहता है उसका पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, केवल सागर को लाठी से उसकी परिसमाप्ति हो जायगी। तथापि जिस दैवी शक्ति के सामने सारी शक्तियों को हार माननी पडती है उसी के भय से उसके मन में बड़ी बेचैनी मालूम होने लगी। मन्दिर के दरवाजे में ताला बन्द करके नौकर ने चाभी का गुच्छा हाथ में देकर पूछा—रात ज्यादा हो गई है माँजी, क्या मैं साथ चलूँ ?

पोडशी का ध्यान दूसरी तरफ था। उसने उसके प्रश्न का मतलब न समझ कर ही पूछा—कहाँ बलाई ?

“आपको घर पहुँचाने।”

“पहुँचा देने ? नहीं—” कहकर पोडशी स्वप्नाविष्ट की तरह चली गई। इस रास्ते में रोज की तरह आज उसके मन में सावधानी का खयाल ही नहीं हुआ। रात बहुत बीत चुकी थी, गहरा अँधेरा फैला हुआ था, परन्तु दूसरे दिन की तरह आज आकाश में मेघ नहीं थे। स्वच्छ, निर्मल, कृष्ण द्वादशी का काला आकाश मानो किसी अदृश्य पारावार में नहाकर आया है, अभी तक मानो उसका सिर पानी से तर है। मन्दिर से उसकी भोपड़ी का अन्तर अधिक नहीं था। इस टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर ऊपर से असख्य नक्षत्रों का स्निग्ध प्रकाश आ रहा है, उसी पगडण्डी पर धीरे-धीरे चलकर वह अपने दरवाजे के सामने पहुँच गई।

उतरते चैत्र के इन दिनों में गाँव में मजदूर मिलना मुश्किल है, तथापि उसके भक्त किसानों ने इसी उत्सव के दिनों में आकर उसके आँगन को बाँस के टट्टरों से घेर दिया, भोपड़ी के टूटे-फूटे हिस्से की मरम्मत कर दी और उसके साथ मिलाकर एक रसोईघर भी खड़ा कर दिया। पुराने व्योँडे के स्थान में नया व्योँडा लग गया। दीवारों में जो सूर्यास वर्ग-रह थे उन्हें बन्द कर, लीप-पोत करके, घर को अंध रहने योग्य बना दिया है। ताला खोलकर पोडशी घर में आ खड़ी

हुई और दिया जलाकर वहाँ, जमीन पर, बैठ गई। प्रतिदिन की तरह आज भी उसके अनेक काम बाकी थे। रात को रसोई का भञ्जट उसको नहीं था सही, क्योंकि जो कुछ देवी का प्रसाद वह आँचल में बाँध लाती थी उसी से रात कट जाती थी, परन्तु पूजा पाठ आदि नित्यक्रिया वह मन्दिर में सब लोगों के सामने न करके एकान्त में घर के भीतर ही किया करती थी। इसके बाद बहुत रात तक धर्म-ग्रन्थ पढ़ती थी। ये सब उसके प्रतिदिन के नियम हैं, इसी लिए प्रतिदिन की तरह आज भी उसके मन में असमाप्त कार्यों की तारीफ होने लगी, परन्तु उसके पैर आज किसी हालत में रखे होना न चाहते थे, उधर दरवाजा खुला पड़ा था। बार-बार उठने की इच्छा होने पर भी वह उसे बन्द न कर वैसी ही चुपचाप दीपक के सामने बैठी रही।

वह सागर की बात सोच रही थी। मन्दिर के समीप की किसानों की बस्ती के इन दरिद्र और दुर्दान्त मनुष्यों को वह लडकपन से ही प्यार करती थी और उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनके दुःख और दुर्दशा के चिह्न ज्यों-ज्यों उसको देख पढ़ने लगे त्यों-त्यों, सन्तान के प्रति माता की तरह, उन लोगों पर उसका स्नेह गम्भीर होने लगा। उसने देखा कि यही लोग चण्डीगढ़ के आदिम निवासी हैं। एक समय ये सभी गृहस्थ किसान थे, परन्तु आज प्रायः किसी के पास जमीन-जायदाद नहीं है—बे दूसरे के खेत में मजदूरी करके बड़े कष्ट से जीवन

बिता रहे हैं। तमाम खेतों पर या तो जनार्दन राय ने या जमींदार के कर्मचारियों ने अपने नाम से, या किसी दूसरे के नाम से, दखल कर लिया है। पिछली भैरवियों के समय देवी के जोत की बहुत सी जमीन थी। वह हर साल उनके इच्छानुसार असामियों को दे दी जाती थी। इसी उपलक्ष्य से उन लोगों में लडाई-भगडा लगा ही रहता था, परन्तु लाभ कुछ भी न था। देख-रेख और इन्तजाम न होने से प्राप्य अश का कुछ तो असामियों के पेट में जाता था और जो कुछ वसूल होता था वह फिजूल खर्च में ही निकल जाता था। यह सब जमीन पोडशी ने, छ-सात वर्ष पहले, फकीर साहब के आज्ञानुसार निर्दिष्ट मालगुजारी पर ऐसे किसानों को वाँट दी थी जिनके पास खेत नहीं थे। उसी समय से जनार्दन राय और एककौड़ी नन्दी से उसका भगडा है और उसी भगडे ने बढ़कर तरह-तरह के बहानों से आज यह रूप प्राप्त किया है। सागर और हरिहर सरदार उस समय जेल काट रहे थे। छुटकारा पाकर वे एक दिन पोडशी के सामने हाथ जोड़कर आ सके हुए। बोले—माँजी, क्या हम चचा भतीजे की डोंगी कभी पार नहीं लगेगी, हम बराबर डूबते-उतराते ही रहेंगे ?

पोडशी नाराज होकर बोली—तुम लोग डूबते-उतराते क्यों रहोगे हरिहर ? फिर जेलखाने के अन्दर वैसे बड़े-बड़े मकान किसलिए बने हैं ?

सागर चुपचाप मुँह घुमाकर सिर ऊँचा किये खड़ा रहा, परन्तु बूढ़े हरिहर ने तुरन्त ही हाथ जोड़कर कहा—माँजी, हम तुम्हारे कपूत हैं इसलिए क्या तुम भी कुमाता हो जाओगी ? हमारे लिए कोई राह निकाल दो ।

पोडशी जरा नर्म होकर बोली—तुम्हारी बातें तो अच्छी ही हैं । इसके सिवा तुम बुढ़े भी हो गये हो, पर तुम्हारे भतीजे ने तो शेखी के मारे मुँह घुमा लिया है । अपना कसूर भी नहीं मानना चाहता—वह कभी नर्म हो सकेगा ?

अपने सब अङ्गों को एक बार देखकर हरिहर बोला—“बुढ़ा हो गया हूँ, न माँजी ? बाल भी पक गये हैं—” अब उसके जरा मुस्कराते ही सागर के मुख पर प्रशान्त हँसी, भ्रुक उठो । जग भर में चचा-भतीजे के बीच आँसों से शायद यही बात तय हो गई कि यही अच्छा है । तुम्हारी इन पुरानी भुजाओं की ताकत की खबर जिसे नहीं है, उसके सामने इसी तरह हँसकर विनय के साथ खोकार कर लेने में ही कुशल है ।

बुढ़ा बोला—शेखी नहीं माँजी, आचेप है । वह यही कर सकता है—सागर कभी डकैती नहीं करता ।

पोडशी आश्चर्य करके बोली—“तो क्या उसने बिला कसूर सजा फाटी है ? सब लोग जो बात जानते हैं वह सच नहीं है—क्या तुम मुझे यही समझाना चाहते हो हरिहर ?” उसने अविश्वास का कण्ठस्वर बड़ा कठोर सुनाई दिया । तो भी बूढ़े हरिहर कुछ कहना चाहता था, परन्तु भतीजे ने घूम-

कर उसे रोका। कहा—“उस बात को सुनकर क्या करोगी माँजी। तुम भलेमानसों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है, यह भी सच है और फिर वक्राया का दावा करके जब हमें जेल भेज-वाया तब वह भी सच्चे गवाहों के बल पर। जज साहब की अदालत से लेकर चण्डी देवी के मन्दिर तक छोटे आदमी की बात का विश्वास करनेवाला कोई नहीं है माँजी। चलो चचा, घर चलो।” अब वह सिर झुकाकर भैरवी के पैरों की धूल माथे में लगाकर चला गया। हरिहर ने भी प्रणाम कर सलज्ज कण्ठ से कहा—“नाराज मत होना माँजी, वह बड़ा गँवार है, वह किसी की बात नहीं सह सकता।” चचा ने भी भतीजे का अनुगमन किया।

हे! क्यों न ये लोग अन्त्यज, हे! क्यों न ये डाकू, जब तक दिखाई दिया, षोडशी स्तब्ध होकर विस्मय के माथ हीनवीर्य अध पतित बङ्गाल के इन दोनों सबल, निडर और परम शक्तिमान् पुरुषों की धोर एकटक ताकती रह गई।

दूसरे दिन सबेरे ही षोडशी ने सागर को बुलाकर कहा—तुम्हारे साथ कल मैंने अन्याय किया है बेटा। दम-पन्द्रह बीघे जमीन मेरे पास अभी और है, तुम चचा भतीजे उसे आपस में बाँट लो। देवी की मालगुजारी तुम जो चाहो देना। परन्तु बुरे रास्ते पर फिर न चलना, यही मेरी शर्त है।

उस दिन से सागर और हरिहर उसके गुलाम हैं। उसके सब काम काज में, उसके सुन-दु रा में छाया की तरह उन

लोगों ने उसका अनुसरण किया है, उसकी विपत्ति के समय छाती के बल उसे संभाला है। यही दृढ़ी भोपड़ी है, यही सङ्गीहीन विपन्न जीवन है, तो भी उसके ऊपर कोई अत्याचार करने का साहस नहीं करता, वह किसके डर से ? यह बात उससे छिपी नहीं है। तथापि आज वह अपनी आँखों से सागर का जो चेहरा देख आई है, उससे विश्वास करने को उसे और कुछ भी नहीं रहा। वह डकैती करता है या नहीं, यह कहना कठिन है, परन्तु जरूरत होने पर वह सब कुछ कर सकता है, उसके पास उसका सब आवश्यक सामान मौजूद है और इशारा पाते ही वह तैयार हो सकता है, यह सशय अब उससे रोका नहीं जा सका।

फटे कागज का एक टुकड़ा एक तरफ पड़ा था। उसे हाथ में उठाते ही याद आया कि हैम की चिट्ठी का उत्तर लिखकर जब वह ठीक मालूम न हुआ तब उसे फाड़ डाला था और दूसरी चिट्ठी लिख भेजी थी, यह उसी फटी चिट्ठी का अंश है। गहरी रात तक जागकर जब बहुत लम्बी चिट्ठी पूरी की तब मन में सन्देह उठा कि इतनी बातें न लिखना ही अच्छा था—दूसरे के आगे अपने को इस तरह जाहिर करना शायद ठीक नहीं हुआ, किन्तु निद्राहीन उस गहरी रात में ठीक करने का धैर्य भी उसको नहीं था। दूसरे दिन डाक में छोड़ने के लिए जब उसे भेजा तब दुबारा बिना पढ़े ही भेज दिया। पोटरी को डर लगा कि कहीं इसे भी न फाड़

डालूँ, शायद आज भी हैम की चिट्ठी का जवाब न जाय। वह बात आज तक याद ही नहीं थी। अब एक-एक करके उस चिट्ठी की बातें याद पढ़ने से उसको बड़ी लज्जा मालूम होने लगी। आशङ्का हुई कि शायद उस पर हुए अत्याचार की कहानी को भूल से ज्यादा समझकर उसे बचाने के लिए कोई एकाएक आ न जाय। इस हैमवती और उसके पति को याद करते ही उसका मन न मालूम क्यों विवश हो जाता है। इनके गृहस्थ-जीवन के साथ उसका घनिष्ठ परिचय नहीं है, तो भी मन में स्वप्न की तरह कल्पनाएँ उठती रहती हैं, उनके दाम्पत्य-जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं की कल्पना कर उसको एक प्रकार का आनन्द सा मालूम होता है, कभी हैम और कभी निर्मल की चिन्ता में वह डूब जाती है और अपनी हालत याद पढ़ते ही एकाएक चौंक उठती है—लज्जा के मारे मिट्टी में मिल जाना चाहती है। अपने मन की इस मोहाविष्ट लक्ष्यहीन गति को वह पहचानती थी, उसको भय होता, लज्जा आती और अपनी सारी शक्ति से वह इन चिन्ताओं से छुटकारा पाना चाहती थी। इस आवेग के आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए उसने चिट्ठी को टुकड़े की नीचकर फेंक दिया। वह कठिन होकर बैठ गई। मन में दृढ़ता के साथ कहा—किसलिए मैंने हैम को इतनी बातें लिखीं? मैं उन लोगों से कौन सी सहायता माँग लूँगी? किसलिए लूँगी? देवी के भैरवी पद में क्या रक्षया है कि अपना मनुष्यत्व खोकर उसे पकड़े रहूँ? इसे

कोई भी ले ले, मेरा क्या बिगड़ता है ? ये लोग सभो तो चोर और डाकू हैं। जिसमे जितनी अधिक ताकत है वह उतना ही बडा डाकू है। मौके से दूसरे का गला दबाकर छीना-भपटी करना ही इनका काम है। यही तो ससार है, यही तो समाज है, यही तो मनुष्य का पेशा है। पीड़ित और पीडक के बीच अन्तर है ही कितना जो मैं हर घडी इस तरह डरती रहती हूँ ? मैं इतनी चिन्ता किसलिए करती हूँ ? किसलिए मैंने इतना बडा भगडा रच रक्खा है ? यह भैरवी का आसन छोड देना क्यों इतना कठिन काम है ? क्षण भर के लिए पोडशो के मन में हुआ कि यह काम उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है, कल सवेरे ही वह एककौडी और जनार्दन राय को लिखकर भैरवी का सारा स्वत्व वापस कर सकती है। कहीं आकर्षण नहीं है, कुछ भी कष्ट न होगा।

पोडशो उठकर खडी हो गई। पास के तारु पर स्याही, कलम और कागज रहता था। उतारकर उस समय चिट्ठी लिख डालने को तैयार हो गई। जल्दी-जल्दी दो-चार पत्तियाँ लिखकर वह अकस्मात् रुक गई। सरदार और सागर की याद आई—ससार भर के दस्युपन के बीच केवल इन्हीं दोनों दस्युओं ने उसे आज तक नहीं छोडा है। अचानक अपनी बात याद आते ही सोचा, उसके याद ? खडे होने को भी कोई स्थान नहीं है—सभी ने छोड दिया है। कल जिन लोगों ने आकर उसे घेर लिया था, वही लोग आज शासन

के डर से जमींदार के आंगन में पश्चायत में शामिल होकर उसके विरुद्ध राय दे आये हैं। परन्तु अधिक दिनों की बात नहीं है, इन्हीं लोगों को वह—खैर, इन छोटे आदमियों के विरुद्ध उसको कोई शिकायत नहीं है। एककौड़ी, जनार्दन, शिरोमणि, उसके पिता तारादास और इस जमींदार के धारे में नई पुरानी बहुत सी बातें याद आई, आज उनकी आलोचना की भी आवश्यकता नहीं है। फकीर साहब याद पड़े। वे क्यों इस तरह एकाएक गायब हो गये, किसी को मालूम नहीं है, किसी को इसका कारण नहीं बता गये, किसी के सम्बन्ध में उनको कोई शिकायत नहीं थी। पहले भी वे कई बार इस तरह चुपचाप चले गये थे, भक्ति, श्रद्धा या सम्मान से विदा कर देने का अधिकार उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। शायद यही उनके चले जाने की रीति है। तथापि इस धार का चला जाना पौडशी को बेतरह खटकता था, इसे केवल आदत समझकर वह चैन नहीं पाती थी। वे कभी-कभी किसी बात के उत्तर में कहा करते थे—‘बेटी, मैं अपने ही साथ नाता तोड़ना चाहता हूँ, दूसरे के साथ नहीं। इसी लिए मैं आदमियों का सङ्ग नहीं छोड़ सकता, उनके बीच मैं ही रहना पसन्द करता हूँ। तुमने भी जब अपना शरीर देवता को सौंप दिया है, तब उसी बात को सबसे पहले याद रखना। किसी बहाने अपना समझकर भूल मत कर बैठना। देवता के साथ मिलाकर अपने को धोखा देने के बदले देवता

को छोड़ देना बेहतर है।' आज इसी प्रतारणा ने उसे जाल की तरह फँसा लिया है। आज अगर वे होते। आज अगर उनके चरणों में जाकर रो सकती तो कैसा अच्छा होता। बहुत दिन पहले उन्होने एक बार कहा था—'बेटी, जब वास्तव में तुम्हें मेरी जरूरत होगी, सचमुच में ही मुझे हृदय से पुकारोगी, तब कहीं क्यों न रहूँ, मैं आ जाऊँगा।' आज उसका वही जरूरत का दिन है।

ठोक इसी समय बाहर से आवाज आई—भीतर आ सकता हूँ ?

पोडशी का विचित्र उद्भ्रान्त चित्त पल भर के लिए सचेतन होकर दूसरे ही क्षण में स्तब्ध हो गया। इतना बड़ा अलौकिक विस्मय सहसा उससे सहा नहीं गया।

“क्या मैं आ सकता हूँ ?”

“आइए।” कहकर पोडशी खड़ी हो गई और अतिथि के चरणों में आँखें मूंदे हुए ही साष्टाङ्ग दण्डवत् कर ज्योंही वह कम्पित चरणों से खड़ी हुई त्योंही प्रदीप के उजले में उसने देखा कि फकीर साहब नहीं, जीवानन्द चौधरी है। आँखों की पलकें नहीं गिरीं—मानो वे पत्थर हो गई हैं। घर का दीपक बुझना चाहता था, परन्तु पल भर में जो इस तरह पत्थर सी हो गई उसको पहचानने लायक उजला था। इस अपूर्व भक्ति के उच्छ्वास का लक्ष्य जमींदार नहीं है, कोई दूमरा ही है, इसका अनुभव करने से जीवानन्द का भय हट गया। उसने

गम्भीर होकर कहा—ऐसी पति-भक्ति कलियुग में दुर्लभ है । मेरा पाछ अर्घ्य-आसन आदि कहा है ?

पोडशी उम्मी तरह स्तब्ध खड़ी रही । अपने इस भाग्य-हीन जीवन में उमने बहुतों को देखा है । उसने जनार्दन को देखा है, एककौडी नन्दी को देखा है, अपने पिता को तो अच्छी तरह से देखा है, परन्तु मनुष्य इतना बड़ा पाखण्डी हो सकता है, इम बात को जानकर अपने को सँभालने में उसे विलम्ब लगा । जीवानन्द ने इधर-उधर देखकर बाँस की खँटी पर से कम्बल का आसन उतार लिया, और उसे बिछाते हुए खुले दरवाजे की ओर देखकर कहा—“दरवाजा बन्द करके ही क्यों न बैठें ? सुना है, तुम्हारे सागरचाँद मुझे बहुत पसन्द नहीं करते । आसपास कहीं होंगे जरूर—आ पडे तो शायद कुछ और ही न सोच बैठें । छोटे ही आदमी तो हैं ।” कहकर वह जरा हँसा । पोटगी का शरीर काँपने लगा । उमने मोचा कि वह अकेला आया नहीं होगा । इसके आदमी अवश्य पास ही छिपे हुए ह, और शायद ऐसे मौके की ही वह रोज प्रतीक्षा कर रहा था । आज कुछ उत्पात कर सकता है—हत्या करना भी असम्भव नहीं । वह इस धमराहट को छिपा न सकी । डरी हुई आवाज से बोली—आप यहाँ क्यों आये हैं ?

जीवानन्द ने कहा—“तुम्हें देखने । मालूम होता है, बर गई हो—डरना ही चाहिए । लेकिन चिल्लाना मत । साथ

लेन-देन

में पिस्तौल है। तुम्हारा डाकुओं का दल मर ही जायगा, मेरा कुछ कर न सकेगा।” अब उसने पाकेट से रिवाल्वर निकालकर फिर उसी में रखते हुए कहा—“तो दरवाजा बन्द करके जरा तिश्चिन्त होकर ही बैठूँ।” वह तिरछी नजर से पोडशी को देखकर जरा हँसा, फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा बन्द कर दिया। जिसका घर है, उसकी अनुमति की प्रतीक्षा तक नहीं की।

पोडशी के चेहरे का रङ्ग उड़ गया। कुछ कहने की चेष्टा करते ही गला रुक गया। इसके बाद जब गले से स्वर निकला, तब वह डर से काँपने लगी। कहा—सागर नहीं है।

जीवानन्द ने कहा—नहीं है ? तो वह गया कहाँ ?

पोडशी बोली—आप लोग जानते हैं, इसी लिए तो—

जीवानन्द ने कहा—जानते हैं। हम लोग कौन-कौन हैं ?

मैं तो कुछ भी नहीं जानता था।

पोडशी बोली—निराश्रय समझकर ही तो आज अपने आदमियों के साथ आप मुझे मारने आये हैं। परन्तु मैंने आपका क्या बिगाडा है ?

जीवानन्द ने कहा—अरे, आदमियों को साथ लेकर मारने आया हूँ ! तुम्हें ? ऐसा नहीं है। मेरा तो जी घबराता था इसलिए तुम्हें देखने चला आया हूँ।

पोडशी फिर कुछ नहीं बोली। उसकी आँसुओं में आँसू भर आये थे। इस नीच उपद्रास से वे-सूख गये। शुष्क

नेत्रों से धरती की ओर देखती हुई वह चुपचाप बैठी रही, और समीप ही एक दूसरा आदमी उसी के श्रवणत मुख की ओर अपनी लुब्ध और तृपित दृष्टि स्थिर रखकर, उसी की तरह, चुप बैठा रहा ।

१८

“अलका ?”

“कहिए ।”

“तुम्हारे यहाँ शायद तमाखू पीने का कुछ इन्तजाम नहीं है ?”

पोडशी जरा मुँह उठाकर फिर नीचे की ओर मुँह किये बैठी रही । जवाब न पाकर जीवानन्द जोर से साँस छोड़कर बोला—ब्रजेश्वर भाग्यवान् था । देवी-रानी उसे पकड़ लाई थी सही, परन्तु अम्बरी तमाखू पिलाई थी और भोजन कराके दक्षिणा भी दी थी । विदा की बात नहीं उठाऊँगा । क्यों, बद्धिम दाबू की 'देवी चौधरानी' पढी है न ?

पोडशी ने मन में ठान लिया था कि यह पाखण्डी आज उसका कितना ही अपमान क्यों न करे, वह कुछ उत्तर न देकर सब सह लेगी, परन्तु जीवानन्द के कण्ठस्वर के अन्तिम अश ने उसके उक्त सङ्कल्प को तोड़ दिया । उसने कहा—आपको पकड़ लाती तो इन्तजाम भी वैसा ही होता—सुरामद न करनी पडती ।

जीवानन्द हँस पडा, बोला—वह ठोक है। रस्सी से बाँध बूँधकर खींच लाना ही लोगों की नजर में पडता है, भोजपुरी सिपाही भेजकर पकड लाना ही गाँव के लोग देखते हैं, परन्तु जिस सिपाही को आँस से देख नहीं सकते—अच्छा अलका, तुम्हारे शास्त्र में—उसे क्या कहते हैं ? अतनु न ? बडा अच्छा है वह।

पोडशी का मुँह लाल हो आया। वह उसी तरह सिर झुकाये चुपचाप बैठी रही। जीवानन्द न कहा—एक छोटा सा अनुरोध या, परन्तु आज चलता हूँ। तुम्हारे अनुचरों को पता लग जाय तो दामाद की खातिर तो करेंगे ही क्या, उल्टे यह विश्वास भी नहीं करेंगे कि सुसराल आया है। समझेंगे, डर के मारे झूठ कह रहा है।

पोडशी कुछ न बोली, इस नीच परिहास से उसने हृदय से कितनी लज्जा का अनुभव किया, वह भी मुँह उठाकर जानने नहीं दिया।

जवाब न पाकर जीवानन्द धोड़ी देर तक उसके मुँह की ओर ताकता रहा, फिर सडा होकर बोला—अम्बरी तमाखु का धुआँ इस वक्त पेट में न जाय तो भी चल सकता है, परन्तु धुएँ के सिवा और कुछ पेट में न जाय तो सडा रहना भी मुश्किल है। क्या घर में सचमुच कुछ नहीं है अलका ?

पोडशी चुप ही रहती, परन्तु उसका नाम लेकर किये गये अन्तिम प्रश्न ने उसका मौन तोड दिया। पूछा—कुछ क्या, शराब ?

जीवानन्द ने हँसकर सिर हिलाया। कहा—अबकी तुमसे भी भूल हुई। उसके लिए दूसरे आदमी हैं, तुम नहीं। तुमने मुझे काफी मौफा दिया है कि मैं तुमको पहचान लूँ। तुम्हें दूसरा कलङ्क क्यों न लगाऊँ, किन्तु अस्पष्टता के लिए बदनाम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुमसे कुछ माँगना ही पड़े तो कोई ऐसी चीज माँगूँ, जो मनुष्य को जीवित रखती है, मृत्यु की तरफ ढकेल नहीं देती। दाल-भात, गेटी-मिठाई चूडा-लावा जो कुछ भी हो दो। खाकर भूख तो मिटाऊँ। नहीं है कुछ ?

पाँचवीं स्थिर होकर देखने लगी। जीवानन्द कहने लगा—आज सबेरे मन अच्छा नहीं था। शरीर की घात तो उठाना ही फिजूल है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि नीरोग किसे कहते हैं। सबेरे एकाएक मैं नदों के किनारे निकल पड़ा—कुछ पता नहीं, किनारे-किनारे कहाँ तक चला गया—लौटने की इच्छा ही नहीं हुई। सूर्यदेव अस्ताचल को सिंघार गये। मैदान के बीच में अकेले सड़े होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खाली तुम्हारी याद आने लगी। इसी कारण लौटते समय शायद घर नहीं गया, भूखा प्यासा ही आ सड़ा हुआ उस शूहर के पद के पीछे। देखा, दरवाजा खुला हुआ है, दिया जल रहा है। बिना पिस्तौल के मैं एक पग नहीं चलता, वह पाकेट में ही था तो भी जरा डर मालूम होने लगा। जानता हूँ कि तुम्हारे अनुचर लोग कहीं ओट में छिपे जरूर होंगे। पत्तियों के भीतर से भाँककर देखा, फर्श पर तुम

चुपचाप बैठी हो। अपने को सँभाल नहीं सका। तो क्या सचमुच कुछ नहीं है ?

पोडशी ने पल भर आनाकानी करके कहा—परन्तु घर जाकर तो आप आराम से खा पी सकते हैं।

जोवानन्द ने कहा—“यानी मेरे घर की खबर मेरी अपेक्षा तुम ज्यादा जानती हो।” अब वह ज़रा हँसा। परन्तु वह हँसी उसके मुँह में मिल जाने के पहले पोडशी ने कहा—आपने दिन भर नहीं खाया, और घर में आपके खाने का इन्तजाम नहीं है, यह भी हो सकता है ?

एक व्यक्ति को कण्ठस्वर में उत्तेजना का आभास छिपा नहीं रहा, परन्तु दूसरे व्यक्ति ने निहायत भलेमानस की तरह कहा—“हो क्यों नहीं सकता ? मैंने खाया नहीं, इसलिए कोई भूखी बैठी हुई थाली परोसे राह ताकती रहेगी—इसकी व्यवस्था तो मैंने पहले से कर नहीं रखी थी। आज एकाएक रुठ जाने से कैसे चलेगा अलका।” अब उसने ज़रा मुस्करा कर कहा—आज चलता हूँ। परन्तु वास्तव में रह न सकने से अगर किसी रोज चला आऊँ तो नाराज न होना।

इस आदमी की विशृङ्खल जीवन-यात्रा का जो चित्र उस दिन पोडशी अपनी आँखों देख आई थी वह उसके सामने खिच गया। उसे मालूम हुआ कि वह दुराचारी मदीनमत्त निर्दय मनुष्य यह नहीं है, जो जमोंदार भूठ मूठ बदनाम करके उसका सर्वनाश करने को तैयार है, वह कोई दूसरा है।

वह कोई दूसरा है, जिसने उस दिन उसे मन्दिर से निकाल देने का हुक्म दिया था। तो भी जरा आनाकानी की, परन्तु दूसरे ही क्षण उसने कहा—थोडा सा देवी का प्रसाद है, परन्तु क्या आप उसे खा सकेंगे ?

“खा नहीं सकूँगा ? इसी से कहती हो।” अतः वह लौटकर फिर आसन पर बैठ गया और बोला—प्रसाद न खा सकूँगा ? लाभो जल्दी लाभो। जरा दिखा तो दूँ कि देवताओं के प्रति मेरी कैसी श्रद्धा है।

पोडशी ने उसके सामने के स्थान को गोले हाथ से पोंछ लिया फिर रसोईघर में जितना देवी का प्रसाद रक्खा था वह सब लाकर पत्तल पर परोस दिया। कहा—अगर आप खा सकें तो खाइए।

जीवानन्द ने गर्दन हिलाकर कहा—खाने को तो बैठा ही हूँ लेकिन यह तो तुम्हारे लिए है।

पोडशी ने कहा—यानी आप यह पूछते हैं कि आपके लिए अलग से लाकर रस लिया था या नहीं ?

जीवानन्द ने हँसकर कहा—नहीं जी नहीं, मैं वह नहीं पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ कि और नहीं न है ?

पोडशी ने कहा—नहीं।

“तब तो एक तरह से दूसरे के मुँह का कौर छानकर खाना होगा अलका।”

पोडशी बोली—म्या दूमरे के मुँह के कौर को छोनकर
राने से आपको हजम नहीं होता ?

इसका उत्तर जोवानन्द हँसकर नहीं दे सका । कहा—
मालूम नहीं, निश्चय के साथ कुछ कह नहीं सकता । खैर,
जाने दो । परन्तु तुम क्या रामोगी ? एक काम करो, इसमें
मेरे आधा उठा लो ।

पोडशी बोली—ऐसा करने से न तो मेरा काम होगा
और न आपका पेट ही भरेगा ।

जोवानन्द ने जिद करके कहा—न भरे तो न सही, परन्तु
तुम्हें तो रात भर उपवास नहीं रखना पड़ेगा ।

आज राने की पोडशी को याद ही नहीं थी । जोवानन्द
न आता तो प्रसाद रक्खा ही रह जाता, वह शायद छूती भी
नहीं । परन्तु उस बात का जिक्र न करके बोली—भैरवियों
को उपवास का अभ्यास करना पड़ता है । उसके सिवा मेरे
एक रात के फट की चिन्ता करके आपको व्याकुल होने की
आवश्यकता नहीं । अब विलम्ब न करके भोजन कीजिए ।
देवता के प्रसाद के प्रति अपनी भक्ति का प्रमाण तो दीजिए ।

“सो तो देता हूँ । परन्तु तुम्हें वञ्चित कर रहा हूँ, यह
जानकर वह उत्साह अब नहीं है ।”

“प्रच्छा, थोड़े उत्साह से ही शुरू कर दीजिए—” कह-
कर पोडशी जरा हँसी, फिर बोली—मुझे वञ्चित करने से अब
नया अपराध आपको न होगा । परन्तु जिस बात की आपने

चर्चा चल गई है, उससे मुझे लज्जा मालूम हो रही है। अब उसे रहने दोजिए।

जीवानन्द ने अब बिना कुछ कहे-सुने खाना शुरू कर दिया। दो मिनट के बाद एकाएक मुँह ऊपर करके उसकी ओर देखते हुए कहा—पन्द्रह वर्ष हुए न? आज बड़ा आदमी बन सकता।

पोडशी चुनचाप देखने लगी। प्रायः पन्द्रह वर्ष पहले का इशारा तो उसने समझ लिया, परन्तु अन्तिम शब्दों का मतलब उसको मालूम नहीं हुआ।

जीवानन्द कहने लगा—और सब छोड़कर सिर्फ शराब की बात ही लूँ। मरने जा रहा हूँ, यह तो अपनी आँखों से ही देख आई हो—परन्तु ऐसा मजबूत आदमी कोई नहीं जो मेरी यह लत छुड़ा दे। शायद अभी समय है, अभी तक बच सकता हूँ। लोगी मेरा भार अलका?

पोडशी ने आँखें बन्द कर लीं। बड़े भाँवर ही भीतर फाँपने लगी। वहाँ हैम, उसके पति, उसका लडका, उसके नौकर-चाकर, उसकी गृहस्थों के असंख्य चित्र जादू की तरह गिंच गये।

जीवानन्द ने कहा—मेरा सारा भार तुम सँभालो अलका।

आत्मसमर्पण के इस अनोखे स्वर ने उसे चकित कर दिया। इस जीवन में इस तरह से किसी ने उसे बुलाया नहीं

था, उसके लिए यह बिलकुल नई चीज है; परन्तु भैरवी-जीवन के संयम की कठोरता ने उसे आत्मविस्मृत नहीं होने दिया। उसने पल भर ठहरकर कहा—अर्थात् मेरे जिस कलङ्क का फैसला आपने किया है, उसी पर आप मुझसे मोहर लगवा लेना चाहते हैं। मेरी माँ को धोखा दिया था, पर मुझको धोखा न दे सकोगे।

“उसकी तो मैंने चेष्टा नहीं की। विना जाने तुम्हारे साथ बुरा सलूक जरूर हो गया है। तुम्हारे मामले का फैसला किया है, परन्तु उस पर विश्वास नहीं किया। बार-बार मन में हुआ कि ऐसी कठोर नारी को जिमने अभिभूत कर रक्खा है वह कौन है ?”

पोडशी ने अचरज करके कहा—उन लोगों ने उसका नाम नहीं बतलाया आपको ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं। मैंने बार-बार पूछा, परन्तु वे चुप ही रह गये।

“आप साइए” कहकर पोडशी चुपचाप बैठो रही। दो चार कौर खाने के बाद जीवानन्द फिर मुँह उठाकर बोला—मैं ज्यादा खा नहीं सकता।

“ज्यादा खाने को आपसे नहीं कहती हूँ। मामूली आदमी जितना खाते हैं, उतना तो खाएँ।”

“मैं उतना भी नहीं खा सकता। वस, मैं तो खा चुका हूँ।”

पोडशी बोली—नहीं, अभी पेट नहीं भरा है। प्रसाद के ऊपर अभक्ति दिखाओगे तो अनुचरो को बुला दूँगी।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—वह तुमसे न होगा। तुम्हारा बल मुझे मालूम है। पुलिस के दल से लेकर मैजिस्ट्रेट साहब तक उसका नमूना देखा गया है। तुम्हारी माँ तुम्हें एक दिन मेरे हाथ में सौंप गई हैं, इसे इनकार करने की शक्ति तुममें नहीं है।

पोडशी चुप रही। जीवानन्द ने हाथ-मुँह धोकर कहा—मैं अभी अकेला रहता हूँ तभी उस रात की बात को मन में सोचते-सोचते कुछ मालूम ही नहीं होता कि कब समय बीत गया। खास कर, नौकरों के घर में भेजे जाने को डर से हाथ जोड़े हुए तुम्हारा वह रोना। भूली नहीं होगी।

पोडशी बोली—नहीं।

जीवानन्द ने कहा—उसके बाद वह पेट का दर्द। घर में तुम और मैं दोनों ही थे। तुम्हारी गोद में सिर रक्खे-रक्खे रात बीती—उसके बाद की घटनाओं के सोचने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें विश्वास देने की बात याद आने से शर्म के मारे गड सा जाता हूँ। मैं उस दिन 'पुरी' में मौत का मेहमान होने को था। प्रफुल्ल ने कहा—भाई साहब, अलका को बुला लीजिए। मैंने कहा—भला वह क्यों आने लगी? प्रफुल्ल ने कहा—जबरदस्ती बुलवा लीजिए। मैंने कहा—जबरदस्ती पकड़वाकर लाने से लाभ क्या होगा? उसने

उत्तर दिया—वे एक बार आ तो जायँ, फिर नफा-नुकसान का हिमात्र किया जायगा। तुम उसे नहीं जानती, परन्तु तुम्हारा इतना बड़ा भक्त और कोई नहीं है।

इस भक्त का परिचय पाने के लिए पोटशी को कौतूहल हुआ, परन्तु उसने उसे रोक लिया।

जीवानन्द ने कहा—रात बहुत हो गई है, तुम्हें बिठा रखना उचित नहीं। अब मैं जाऊँ न ?

पोटशी ने कहा—आपको कोई जरूरी बात थी न ?

“जरूरी बात ? कोई खास बात थी ऐसा तो मुझे अब याद नहीं पड़ता। अब तो एक ही बात याद आ रही है कि तुम्हारे साथ बातचीत करना ही मेरा काम है। बहुत चापलूसी की तरह मालूम हुआ न ? परन्तु मुझे पहले मालूम ही न था कि इस तरह चापलूसी भी कर सकता हूँ। अच्छा अलगा, तुम्हारा क्या सचमुच दुवारा विवाह हुआ था ?”

पोटशी मुँह उठाकर बोली—दुवारा कैसा ? विवाह तो मेरा एक ही बार हुआ है।

जीवानन्द ने कहा—और तुम्हारी मा ने जो तुम्हें मेरे हाथ सौंपा था, वह क्या सच नहीं है ?

पोटशी ने उसी वक्त उत्तर दिया—नहीं, वह सच नहीं है। माँ ने मेरे साथ जो रुपये दिये थे केवल उन्हीं रुपयों को आपने लिया था, मुझे नहीं लिया। धोखा देने के सिवा उममें जरा भी फर्क सत्य नहीं था।

जीवानन्द चुपचाप बैठा रहा। जवान देने की चेष्टा भी नहीं की। जब इसी तरह पाँच मिनट बीत गये तब पीडशा को वैचैनी मालूम होने लगी। धीमी दीपशिरा को तेज फर देने के अवकाश में उसने देखा कि जीवानन्द ध्यान लगाये बैठा है। इस ध्यान के तोड़ने में उसको सङ्कोच मालूम होने लगा। परन्तु थोड़ी देर बाद वह जब स्वयं ही बोला तब मालूम हुआ, मानो कोई बहुत दूर से बोल रहा है।

“अलका, तुम्हारी यह बात मच नहीं है।”

“कौन बात ?”

जीवानन्द ने कहा—तुमने जो समझ रक्ता है। सोचा था कि वह बात किसी पर जाहिर नहीं करूँगा, परन्तु उस ‘किसी’ के अन्दर आज तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ को धोखा दिया था सही, पर तुम्हें धोखा देने का मौका मुझे परमात्मा ने नहीं दिया। मेरा एक अनुरोध रकरोगी ?

“कहिए।”

जीवानन्द ने कहा—मैं सत्यवादी नहीं हूँ, परन्तु आज की बात पर तुम विश्वास करो। तुम्हारी माँ को मैं जानता था। उनकी लडकी को स्वरूप से ग्रहण करने की इच्छा मुझे नहीं थी, केवल उनके रूपों का ही लालच था, परन्तु उस रात को जब तुम्हें हाथ में पाया तब लौटा देने की इच्छा भी मुझे नहीं हुई।

“तो क्या इच्छा हुई ?”

जीवानन्द ने कहा—रहने दो, उसे तुम मत सुनना चाहो। शायद आखिर तक सुनने पर स्वयं ही समझोगे, और वैसे समझने से हानि के सिवा मेरा कुछ लाभ नहीं होगा। परन्तु उन लोगों ने तुम्हें जो समझाया था वह सच नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं भाग नहीं गया था।

पोडशी ने इस इशारे का मतलब समझा, और घृणा से उसका शरीर काप उठा। उसने कहा—अपने न भागने का इतिहास अब कह डालिए।

उसका कठोर कण्ठस्वर सुनकर जीवानन्द ने मुस्कुराकर कहा—अलका, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ। अगर कहना ही पड़े तो उसका फलाफल जानकर ही कहूँगा। तुम्हारी माँ के इतने बड़े भयानक प्रस्ताव पर भी मैं क्यों राजी हो गया था, जानती हो? मैंने एक स्त्री का द्वार चुरा लिया था। सोचा था, रुपया देकर उसे मना लूँगा। वह तो मान गई, पर पुलिस का वारन्ट उससे नहीं रुका। छ महीने जेल में काटे—वही जो गहरी रात को तुम्हारे घर से निकला था, फिर लौटने का मौका नहीं मिला।

पोडशी ने साँभ रोककर पूछा—उसके बाद ?

जीवानन्द तुरन्त थोड़ा हँसकर बोला—उसके बाद कुशल ही है। जीवानन्द वायू के नाम और भी एक वारन्ट था। कई महीने पहले रेलगाड़ी से एक यात्री का बैग लेकर वह चम्पत हो गया था। आखिर उसके लिए और भी डेढ़ साल

काटना पडा ! कुल दो साल तक गायब रहने के बाद जब धोजगाँव के भावी जमोंदार बाबू रङ्गमध्व पर पुन भ्रविष्ट हुए तब कहाँ रही अलका और कहाँ रही उसकी माँ ।

जीवानन्द की आत्मकहानी का एक अध्याय समाप्त हुआ । उसके अनन्तर दोनों चुपचाप बैठे रहे ।

“रात कितनी होगी ?”

“शायद ज्यादा बाकी नहीं है ।”

“तो इस अँधेरे में घर जाने की आवश्यकता नहीं है ।”

“आवश्यकता नहीं है ? इसका मतलब ?”

पोडशी ने कहा—कम्बल त्रिखाये देती हूँ । विश्राम कीजिए ।

जीवानन्द ने आँखें फाड़कर कहा—विश्राम करूँगा ? यहाँ ?

पोडशी ने कहा—हानि क्या है ?

“परन्तु यहाँ बड़े आदमी जमोंदार को तरुलीफ होगा न अलका ?”

पोडशी बोली—होने पर भी रहना ही पड़ेगा । गरीब के दुःख का भी जरा अनुभव कर जाइए ।

जीवानन्द चुप हो रहा । उसकी आँखों में आँसू भर आये थे । इच्छा हुई कि कह दे, मैं सब जानता हूँ, पर समझनेवाला आदमी मर गया है । परन्तु यह बात न कहकर उसने कहा—अगर सो जाऊँ तो ?

अलका ने शान्त भाव से उत्तर दिया—उसी की तो सम्भावना है ।

जीवानन्द की जूठी पत्तल और जूठन को फेरने तथा रसेई घर का थोड़ा सा काम खतम करके दरवाजा बन्द करने को पोडशी के बाहर जाने पर उसकी उस चिट्ठी का फटा अंग जीवानन्द की नजर में पड़ा। हाथ में उठाकर उन मोती की पाँति की भाँति सजे हुए अक्षरों की ओर एकटक देखते हुए, उस दीये के उजले में, माँस रोककर उसने उसे पढ़ डाला। बहुत सी बातें छूट गई हैं, तो भी इतना समझ में आ गया कि लेखिका की विपत्ति का अन्त नहीं है और सहायता न सही तो सहानुभूति माँगने के लिए यह चिट्ठी जिसके उद्देश्य से लिखी गई है वह यद्यपि नारी है, तथापि प्रत्येक अक्षर की ओट में सड़े और एक आदमी की छाया दिखाई दे रही है जिसे नारी समझने का भ्रम नहीं हो सकता। यह छिन्न पत्रांश मानो उस पर सवार हो गया। एक बार, दो बार समाप्त कर जब वह उसे तीसरी बार पढ़ने लगा तब पोडशी के पैरों की आहट से मुँह उठाकर कहा—पूरा होता तो पढ़ने में बड़ा आनन्द मिलता। जैसे अक्षर हैं वैसी ही भाषा है, छोड़ने को जी नहीं चाहता।

पोडशी ने उसके स्वर का परिवर्तन सहज में समझकर भी कहा—जरा उठिए, कम्बल निछा दें।

जीवानन्द ने सुनकर भी अनसुनी करके कहा—मामूली बुद्धि से ही समझ में आ सकता है कि यह नर पिशाच कौन

है, परन्तु उसका नाश करने के लिए जिस देवता का आवाहन किया गया है, वह कौन है ? क्या उसका नाम सुन सकता हूँ ?

पोडशी ने इस वार भी अपने को विचलित होने से रोका । जाड़े के मौसिम में दक्षिण की हवा के भोंके की तरह उसका अन्त करण किसी अनजान पद-वृत्ति के पाने की आशा से व्याकुल हो रहा था, वहाँ जीवानन्द का परिहास नहीं पहुँचा । उसने सहज कण्ठ से कहा—अच्छा वह होगा । अब जरा खड़े हो जाइए, मैं इसे विद्या दूँ ।

जीवानन्द ने और कुछ नहीं कहा । वह एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप उसका काम देखने लगा । पोडशी ने पहले भाङ्ग से घर बुझारा, फिर कम्बल को दुहराकर विछाया और उसके ऊपर, चढ़ न रहने के कारण, अपनी एक धुली हुई धोती यन्न से विद्याकर कहा—बैठिए । परन्तु मेरे यहाँ तकिया नहीं है—

“जरूरत होने से ही मिलेगा—कमी न रहेगी।” कहकर उसने उस धोती को षठाकर यथास्थान रख दिया । पोडशी ने मन में लज्जित होकर कहा—उसे क्यों उठा दिया, साली कम्बल गटेगा न ?

जीवानन्द ने बैठकर कहा—परन्तु ज्यादाती इससे भी अधिक गटेगी । यन्न से आराम पहुँचता है सही, परन्तु उसकी नक़ल में न आराम है और न वृत्ति । उल्लि उसे किसी दूसरे को देना ।

वात सुनकर पौडशी आश्चर्य के मारे अवाक हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जीवानन्द ने कहा—हाँ, उसका नाम ?

पौडशी के मुँह से थोड़ी देर तक वात नहीं निकली। उसके बाद बोली—किसका नाम ?

जीवानन्द ने हाथ के पत्रांश की प्रार देखकर कहा—जो दैत्य-ग्रह के लिए शीघ्र अवतीर्ण होगा, जो द्रौपदी के सखा है, जो—और कौँ ?

इस व्यङ्ग्योक्ति का उसने जवाब नहीं दिया। परन्तु मोह का आवरण उसकी आँसु के सामने से टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा। उसको मालूम नहीं हुआ कि कैसे इस धर्मलेश-हीन, सर्वदोषाश्रित पाखण्डों के अद्भुत अभिनय से मुग्ध होकर उसके मन में क्षण भर के लिए करुणायुक्त क्षमा का उदय हुआ था। चित्त की इस क्षणिक विह्वलता के कारण पश्चात्ताप से उसका अन्त करण सावधान और कठोर हो उठा। क्षण भर के बाद जब जीवानन्द ने फिर वही प्रश्न किया तब पौडशी ने अपना कण्ठस्वर सयत करके कहा—उसके नाम से आपका प्रयोजन ?

जीवानन्द ने कहा—प्रयोजन है क्यों नहीं। पहले से मालूम हो जायगा तो आत्मरक्षा का कोई उपाय कर लूँगा।

पौडशी ने उसके मुँह को तीव्र दृष्टि से देखकर कहा—तो क्या आत्मरक्षा का मुझे ही अधिकार नहीं है ?

जोवानन्द ने कहा—है क्यों नहीं ।

पोडशी ने कहा—तो आप उस नाम को जान नहीं सकेंगे । आपकी और मेरी आत्मरक्षा का उपाय एक साथ नहीं हो सकता ।

जोवानन्द ने थोड़ी देर स्थिर रहकर कहा—अगर ऐसा ही हो तो समझ लो कि आत्मरक्षा की आवश्यकता मुझे ही अधिक है और उसमें जरा भी कसर नहीं रहेगी ।

पोडशी के मन में आया कि कहे—‘मुझे मालूम है, एक रोज जिले के मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसका फैसला हुआ था । उस दिन एक निरपराध नारी के सिर पर कलङ्क का घाँस लादकर तुम्हें आत्मरक्षा करनी पड़ी थी । और आगे भी तुम्हारी रक्षा का उतना ही बड़ा मूल्य मुझे ही देना पड़ेगा।’ परन्तु उसने कुछ कहा नहीं । उसने सोचा कि इतने बड़े नर-पशु के सामने इतने बड़े दान का उत्सव करना व्यर्थ है ।

जोवानन्द को होश आया । उसके इतने बड़े औदत्य का जिसने जवान तक नहीं दिया, उसके सामने शोषी मारना स्वयं उसके मन में खटकने लगा । उसकी उत्तेजना घट गई, परन्तु क्रोध चढ़ गया । कहा—अलका, तुम्हारे इम वीर पुरुष का नाम मुझे मालूम है ।

पोडशी ने उसी समय उत्तर दिया—मालूम क्यों नहीं होगा, नहीं तो आप नाटक भगडा कैसे करते ? इमके, मिवा समार के वीर पुरुषों में परस्पर परियय रहना भी चाहिए ।

जोवानन्द ने कठोर स्वर से कहा—वह ठीक है। परन्तु इस कापुरुष को बार-बार अपमान करने का बोझ तुम्हारे सहायक वीर पुरुष सह सके तो अच्छा है। खैर, तुमने इस चिट्ठी को फाड़ क्या डाला ?

पोडशी बोली—इसलिए कि दूसरी चिट्ठी लिखकर भेज दी थी।

“परन्तु सीधे उन्हीं को न लिखकर उनकी खां को क्यों लिखा? क्या यह गन्दभेदी बाण उस वीर पुरुष की ही शिक्षा है?”

पोडशी ने कहा—इसके बाद ?

जोवानन्द ने कहा—इसके बाद, आज मेरा सशय मित्र। तुम्हारे मित्र की खबर मैंने दूसरे से सुनी थी, परन्तु राय महाशय से जितनी ही बार पूछा उतनी ही बार वे चुप हो गये! आज मालूम हुआ कि उन्हीं को सबसे ज्यादा चिढ़ क्यों है।

पोडशी चौंक उठी। कलङ्क के बवण्डर में पढ़कर उसके शरीर में कहीं लाञ्छन का दाग लगने में वाकी नहीं था, परन्तु उसने यह नहीं सोचा था कि बवण्डर के बाहर रहने पर भी और एक आदमी छुटकारा नहीं पावेगा। उसने धीरे-धीरे पूछा—वनके सम्बन्ध में आपने क्या सुना है ?

जोवानन्द ने कहा—“मव कुल्ल ।” जरा रुककर कहा—तुम्हारा अचम्भा और तुम्हारे गले की मीठी आवाज सुनकर मुझे हँसी आती चादिण थी, पर मैं हँस नहीं सका। मेरे लिए यह खुशी की बात नहीं है। उस आँधी-पानी की रात

की बात याद है ? उसको गवाह हँ । गवाह लोग कहीं छिपकर देख लेते हैं, यह पहले से मालूम करना कठिन है । मैं जब गाड़ी से बैग लेकर भागा था तब सोचा था कि किसी ने देखा नहीं है ।

पोडशी ने कहा—अगर ऐसा हुआ ही हो तो उसमें भारो दोप क्या हुआ ?

जीवानन्द ने कहा—“उसे छिपाना क्या दोप नहीं है ? और यह पन्नाश ? जरा एक बार खुद ही पढो तो कैसा मालूम होता है ? इसे मैं साथ लिये जाता हूँ । जरूरत होगी तो ठोक जगह पर पहुँचा दूँगा । मेरी तरह ये भी तो एक बार तुम्हारा फैसला करने बैठे थे न । देखता हूँ, तुम्हारा फैसला करने में विपत्ति है ।” अब वह मुस्कुराया ।

पोडशी चुपचाप सोचने लगी । विपत्ति की सूचना देकर हैम के सहारे वास्तव में उसने निर्मल को पत्र लिखा है, हैम का नाम लेकर वास्तव में निर्मल को बुलाया है—यह आह्वान जब इस चिट्ठी के फटे अंश से इस आदमी को भी घोखा नहीं दे सका तब पूरी चिट्ठी क्या हैम की दृष्टि को ही चकमा दे सकेगी ? और ठाक इसी धोर कोई उँगली उठाकर हैम की दृष्टि धाकृष्ट करे तो लज्जा की सीमा नहीं रहेगी ।

उसकी धारों के सामने हैम की गृहस्था का चित्र—उसके पति, उसके पुत्र, उसकी दास-दासियाँ, उसके ऐश्वर्य, उसकी जीवन यात्रा की धारा—जिनकी छवि वह दिन पर दिन

देखती आई है सभी—कलङ्क की भाफ से छा जायगा। यह समझकर वह मानो अपना मुँह अपने ही को दिरंगा न सकी। और यह जो पापी उसी के घर में बैठकर उसी को डरवा रहा है, जिसके कुकर्मों की सीमा नहीं है, जो मिथ्या का जाल बुनकर एक अपरिचित निरपराध रमणी का सर्वनाश करने को तुला हुआ है, उसके प्रति पोडशी को इतनी घृणा हुई जितनी मानो उसने अपनी जिन्दगी में कभी किसी के प्रति न की होगी। और यह विप जिस हृदय को मथ करके निकला उसका गर्भतल मानो इसकी जलन से अग्निकुण्ड की तरह जलने लगा।

निर्मल आ ही जायेंगे। उन्हें कितनी ही असुविधा क्यों न हो, इस दुःख की पुकार को वे टाल नहीं सकेंगे—अपने मन के इस स्वाभाविक विश्वास की लज्जा से मानो वह भ्रम होने लगी। उम समय उसी के कलङ्क को केन्द्र बनाकर ससुर-दामाद में, चाप बेटी में, जर्मीदार रियाया में जो लड़ाई की धूम मचेगी उसकी वीभत्सवा की कल्पना ने उसे लज्जा से मिट्टी में मिला देना चाहा।

शायद पाँच-छ मिनट के सत्राटे के बाद जीवानन्द ने, ठोक इसी समय, उसके चेहरे पर दृष्टि जमाकर कहा—क्यों, बहुत सी बातें मुझे मालूम हैं न ?

पोडशी ने विह्वल की तरह उत्तर दिया—हाँ।

“तो यह सब सच है, क्यों ?”

पोडशो वैसे ही सहज भाव से बोली—हाँ, सच है।

जीवानन्द हँका-बँका सा हो गया। इस प्रकार अप्रत्याशित सन्निप्त उत्तर के पश्चात् सहसा उसके मुँह से कोई बात नहीं निकली। इतना ही कहा—“ओफ, सब सच है।” अब स्तिमित दीपशिरसा को उज्ज्वल करते हुए उसके मुख की ओर बार-बार देखकर अन्त में पूछा—तो अब तुम क्या करोगी ?

“आप मुझे क्या करने को कहते हैं ?”

“तुम्हें ?” कहकर जीवानन्द स्तब्ध होकर मुँह नीचा किये बैठा-बैठा तैलहीन दीये को अकारण बार-बार उसकाने लगा। थोटी देर में जब वह बोला तब भी उसकी दृष्टि उसी दीपक के प्रति थी। कहा—तो ये लोग जो तुम्हें असती कहकर—

इतनी तेर वाद उसने जीवानन्द की बात काटकर कहा— उस बात की जरूरत नहीं। इन लोगों के विरुद्ध मैंने तो आपके यहाँ नालिश नहीं की। मुझे क्या करना होगा, वही कहिए। कोई कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं।

जीवानन्द ने कहा—सो ठीक है। परन्तु सब लोग झूठ कहते हैं और तुम्हें सच बोलती हो—क्या यही तुम मुझे समझाना चाहती हो अलका ?

उसके मुँह की ओर देखकर कुछ उत्तर देने की चेष्टा करते हुए पोडशो फिर चुप हो गई। जीवानन्द ने इससे भी अपने

को अपमानित समझा, कहा—तुम उत्तर देना भी नहीं चाहती हो ?

पोडशी ने गरदन हिलाकर “नहीं” कहा ।

“यानी, मुझे कैफियत देने की अपेक्षा वदनाम हीना भला है । बहुत अच्छा, परन्तु सब कुछ साफ-साफ समझ में आ गया है ।” यह कहकर जीवानन्द ने परिहास की सी हँसी । परन्तु उससे भी पोडशी के कण्ठस्वर की स्वाभाविकता नष्ट न हुई । उसने कहा—साफ साफ समझ में आ जाने के बाद क्या करना होगा, सो तो कहिए ।

उसके पृष्ठने के ढङ्ग और स्थिर कण्ठस्वर से जीवानन्द का क्रोध और अधैर्य सौगुना बढ़ गया । उसने कहा—“तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना होगा, परन्तु मुझे मन्दिर की पवित्रता की रक्षा करनी होगी । वास्तव में अभिभावक तुम नहीं, मैं हूँ । मैं नहीं जानता कि पहले क्या होता था, परन्तु अब से भैरवी को भैरवी की ही तरह रहना होगा, ऐसा न होगा तो उसे जगह खाली करनी पड़ेगी । इस तरह की चिट्ठी लिखने से नहीं चलेगा ।” अब मुँह उठाते ही उसकी ईर्ष्यापूर्ण क्रूर दृष्टि पोडशी की नजर में पड़ी । इससे पोडशी की दृष्टि पल भर में जैसे कोसें बढ़ गई वैसे ही लालमा के उज्ज्वल निश्वास का अपने शरीर में अनुभव कर ससार भर से उसे अरुचि हो गई । मन में हुआ कि हैम, उसका परिवार, यह देवमन्दिर, यहाँ के असहाय किसानों का दुःख और उसका अपना भविष्यत

किसी की उसे आवश्यकता नहीं है—सब बन्धनों से छुटकारा पाकर किसी निर्जन जङ्गल में जाकर वह जान बचा ले। सब से अधिक इच्छा उसे यह हुई कि निर्मल न आवें। बहुत देर तक चुपचाप रहकर अन्त में धीरे धीरे बोली—अच्छी बात है, वही होगा। मैं इस निर्णय के लिए झगडा नहीं करना चाहती कि वास्तव में अभिभावक कौन है, आप लोग अगर ऐसा समझे कि मेरे चले जाने से मन्दिर की भलाई होगी, तो मैं चली जाऊँगी।

इसे ठट्ठा समझकर जीवानन्द जल-भुनकर बोला—तुम चली जाओगी, यह ठीक है। क्योंकि, मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम्हें जाना पड़ेगा।

पोटशो वैसे ही नम्र स्वर से बोली—मैं जब स्वयं जाना चाहती हूँ तब आप क्यों नाराज होते हैं? परन्तु आपके ही ऊपर इसका भार छोड़ जाती हूँ कि मन्दिर की वास्तव में भलाई हो।

जीवानन्द ने पृच्छा—तुम कब जाती हो?

पोटशो ने उत्तर दिया—आप लोग अभी आज्ञा दें। कल, आज, अभी—जब कहिए तब।

जीवानन्द का लोभ घटने के घदने और बढ़ गया। उसने कहा—परन्तु निर्मल वानू?—जमाई वानू?—

पोटशो ने कातर स्वर से कहा—उनका नाम न लीजिएगा।

जीवानन्द ने कहा—मेरे मुँह से उनका नाम तक सुनना पसन्द नहीं ? बहुत अच्छा । परन्तु तुम्हें क्या क्या दिया जाय ?

“कुछ भी नहीं ।”

जीवानन्द ने कहा—जानती हो, यह घर तक छोड़ना होगा ? यह भी देवी का है ।

पोडशी सिर हिलाकर बोली—सब जानती हूँ । हो सका तो कल ही खाली कर दूँगी ।

“कल ही ? अच्छी बात है । कुछ निश्चय किया है, कहीं रहेगी ?”

पोडशी बोली—यहाँ नहीं रहूँगी, इससे अधिक कुछ निश्चय नहीं किया । एक दिन बिना कुछ समझे-बूझे ही मैं भैरवी हुई थी और प्राज विदा लेते समय भी मैं इससे अधिक कुछ न सोचूँगी ।

जीवानन्द चुप हो गया । उसको मालूम होने लगा कि अब तरु शायद कहीं उससे गलती हो रही थी ।

पोडशी बोली—आप देश के जमींदार हैं । चण्डीगढ़ की भलाई-बुराई का बोझ आपको सौंप जाने से अब मुझे कोई चिन्ता नहीं रही । परन्तु मेरे पिताजी बड़े दुर्बल मनुष्य हैं । उनके भरोसे आप निश्चिन्त न हो जाइएगा ।

उसके स्वर और बातों से विचलित होकर जीवानन्द ने पूछा—म्या तुम सचमुच चली जाना चाहती हो अलका ?

पोडशो अपनी बात की ही अनुवृत्ति कर कहने लगी—
और अपने दोन दरिद्र किसानों के सुख-दुःख का भार भी मैं
आपको ही सौंपे जाती हूँ ।

जीवानन्द ने जल्दी से उत्तर दिया—“हाँ हाँ, सो तो होगा ।
कहो तो वे लोग क्या चाहते हैं ?

“उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा । जाते समय मैं केवल
आपकी ही बात उन लोगों से कह जाऊँगी ।” एकाएक
पोडशो बाहर की तरफ भाँककर बोली—“मैं अब जाती हूँ ।
मेरे नहाने का समय हो गया ।” अब उसने अपनी धोती
और अँगौछा सूँटी पर से उतारकर कन्धे पर रख लिया ।

जीवानन्द ने अकचकाकर पूछा—नहाने का समय इतनी
रात में ?

“रात नहीं है । आप घर जाइए ।” कहते-कहते पोडशो
घर से निकल पड़ी । उसकी इस अकारण और आकस्मिक
व्यग्रता से जीवानन्द खुद भी व्यग्र हो उठा । उसने कहा—
परन्तु मेरी तो सभी बातें बाकी रह गई अलफा ?

पोडशो ने कहा—आप घर जाइए ।

जीवानन्द ने जिद पकडकर कहा—नहीं । जब तक
मेरी बातें खतम न होंगी तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा
करता रहूँगा ।

पोडशो ठहर गई । वह अनुनय के साथ बोली—“नहीं,
आपके पैरों पडती हूँ, मेरे लिए आप प्रतीक्षा न करें ।”

अब वह बाई' और के वन मार्ग से तेजी के साथ आँतों से ओझल हो गई ।

२०

उस दिन सवेरे चारो ओर कुदरा फैला हुआ था, राय महाशय अभी विस्तर छोड़कर बाहर आये थे, एक भले आदमी को भीतर घुसते देखकर उन्होंने पृच्छा—कौन है ?

“मैं हूँ निर्मल” कहकर दामाद ने समीप आकर उन्हें प्रणाम किया । निर्मल के आकस्मिक आगमन से उन्होंने विस्मय या हर्ष कुछ भी प्रकट नहीं किया । नौकरों को बुलाकर कहा—कौन है रे, निर्मल का सामान हैम को कमरे में ले कर रख आ । रास्ते में तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ? हैम, उसका लडका, सब अच्छे तो हैं ?

निर्मल ने सिर हिलाकर बताया कि सब अच्छे हैं ।

राय महाशय ने कहा—परन्तु अकेले क्यों आये निर्मल ? हैम को साथ लेते आते तो और एक वार भेंट हो जाती ।

निर्मल ने कहा—दो-चार दिन के लिए फिर—

राय महाशय हँस पड़ । बोले—यह क्या दो-चार दिन का मामला है बेटा । इसमें दो-चार महीने की आवश्यकता है । जाओ, भीतर जाओ—हाथ मुँह धोयो जाकर ।

निर्मल ने भीतर आकर देखा कि यहाँ भी वही एक ही भाव है । किसी तरह हो, उनके आने की बात किसी को

अज्ञात नहीं थी, और इसके लिए कोई प्रसन्न भी नहीं था। हाथ-मुँह धोना, कपड़े उतारना वगैरह हो चुकने पर सास गरम चाय और कुछ जलपान अपने हाथ से लाकर दामाद को रिलाने बैठों और बोलीं—क्या हैम ने आना नहीं चाहा ?

निर्मल ने कहा—नहीं।

“क्या वह जानती है, तुम क्यों आ रहे हो ?”

निर्मल ने सिर हिलाकर कहा—जानती क्यों नहीं, सभी जानती है।

“तो भी मना नहीं किया ?”

उनके प्रश्न और स्वर से व्यथा का अनुभव कर निर्मल ने कहा—मना क्यों करेगी अम्मा ? वह तो जानती है, मैं कभी दुरे काम में हाथ नहीं डालता।

“और उसके पिता ही दुरा काम करते रहते हैं—क्या यही वह जानती है निर्मल ?” अब वे थोड़ा देर तक मिर नीचा किये चुपचाप बैठी रहीं, फिर एकाएक आवेग के साथ बोलीं—वह कुछ भी जानती हो बेटा, यह काम तुम कर नहीं सकोगे। मैं इस काम में कभी तुम्हें हाथ डालने न दूँगा। मसुर-दामाद की लड़ाई होगी। गाव के लोग तमाशा देखेंगे। उससे पहले मैं पानी में डूब मरूँगी। यह कहे देती हूँ बेटा।

निर्मल ने धीरे-धीरे कहा—परन्तु जो दुरा है, जो सहाय हीन है, उसकी रक्षा करना ही तो हमारा पेशा है अम्मा।

सास बोली—परन्तु पेशा ही तो मनुष्य का सब कुछ नहा है न बेटा । वकील-वैरिस्टरों की भी माँ-बहिने हैं, खी है, सास-ससुर हैं—बड़े लोगों की मान-मर्यादा की रक्षा करने की व्यवस्था उनके लिए भी तो है ।

निर्मल ने सिर हिलाकर कहा—“जरूर है थम्मा, जरूर है ।” उसके बाद सारी घटना को हलका कर देने के लिए जरा हँसकर कहा—शायद अन्त तक लडाई-भगडा कुछ भी न करना पड़े ।

गृहिणी का मुख इससे भी प्रसन्न नहीं हुआ, बोलो—
 हो सकता है, परन्तु वह केवल तुम्हारे ससुर की सब तरह से हार होने पर ही हो सकता है । उसके बाद वे इस गाँव में राय महाशय बनकर नहीं रह सकते । इसके सिवा पोडशी दुर्बल भी नहीं, महायहीन भी नहीं । उसके साथ लठैत डाकूओं का दल है, जमींदार भी उससे डरते हैं । एक चिट्ठी पाते ही उसके आदमी पाँच सौ कोस दूर से घर-द्वार बाल-बच्चे छोड़कर चले आते हैं । यह काम हम सैकड़ों चिट्ठियों से भी कर नहीं सकती । वह है भैरवी, जादू-टोना तन्त्र-मन्त्र न जाने क्या-क्या जानती है । सो चाहे वह रहे, चाहे चली जाय, उससे मेरा कुछ नफा-नुफसान नहीं है । अपने पाप का फल आप ही भोगेगी पर मैं जीते जो अपनी लडकी का सत्यानाश न होने दूँगी, यह मैं तुमसे फटे देती हूँ ।

निर्मल चुपचाप बैठे रहे। किसी तरह भी हो, इधर जानने में कुछ बाकी नहीं है, और पडयन्त्र रचने में भी कहीं कमर नहा रह गई है। उनके ससुर ने चारों ओर से घेरा लगा रक्सा है, कहीं जरा सा भी छेद निकालना नहीं जा सकता। उनकी चुपचाप स्वभावजाली सास इन ढङ्ग से इतनी मजबूती से वाते करना जानती हैं, यह उन्हें मालूम नहीं था। जो कुछ उन्होंने कहा वे उन्हीं की सोचो हुई वाते हैं, किसी की सिराई हुई नहीं हैं, इसमें सशय बना ही रहा। परन्तु एकाएक कोई जवान भी निर्मल से देते नहीं बना। इस धर्जी का मसविदा बनाकर जिमने इनके मुँह में ठूँस दिया है, उसने बहुत सोच-विचार करके ही ठूँसा है और यह भी उससे छिपा हुआ नहीं है कि केवल परोपकार करने के लिए ही यह पश्चिम की एक प्रान्तसीमा से खो-पुत्र छोड़कर चला आया है—यह उत्तर भी निर्मल किसी तरह नहीं दे सकेगा।

घण्टे भर विश्राम करने के बाद जब निर्मल घर से निकले तब राय महाशय बाहर बैठक में बैठे हुए थे। वे किसलिए, कहाँ जाते हैं, इत्यादि वृथा पूछ-ताछ में उन्होंने समय नष्ट नहीं किया, केवल जरा जल्दी लौटने का अनुरोध कर कह दिया कि इस घकावट की हालत में अगर देर से नहाओगे और खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो।

शिरोमणिजी पास बैठे कुछ कह रहे थे। उन्होंने भाँक-कर अकचकाते हुए पूछा—जमाई वानू हैं न ?

राय महाशय ने “हाँ” कहा। शिरामाथि न बुलारर वातचीत करने की कोशिश करते ही जनार्दन ने उन्हें रोककर कहा—निर्मल भाग नहीं रहा है। अपनी बात पूरी कर लो, मुझे अभी उठना है।

निर्मल चुपचाप बाहर चले आये। उनके ससुर ने इस कौतूहली पड़ोसी के अप्रिय प्रश्नों का उत्तर देने से उन्हें बचा दिया, इस बात का अनुभव कर उनका मुँह लाल हो उठा।

वे पोटशी के साथ भेट करने जा रहे थे। दो दिन पहले जिस उमङ्ग को लेकर और मन में जिस प्रकार का चित्र खींचकर उन्होंने अपना प्रवास-गृह छोड़ा था आज वह नहीं था। जिस सुदोर्घ कल्पना ने मार्ग के सारे दुःखों को हर लिया था वह सास-ससुर के व्यक्त और अव्यक्त अभियोग के आक्रमण से छिन्न-भिन्न हो गई। समवेत और प्रबल शक्तियों के विरुद्ध उनके अकेले पौरुष ने निराश्रय के अवलम्ब, दुर्बल और निर्जित नारी के निःस्वार्थ बन्धु रूप से, इस गाँव में आना चाहा था। उस पौरुष की बड़ी नामर्त्य और शोभा थी, परन्तु आकर देखा कि उनके सभी कामों का इसी बीच एक कारण प्रकट हो पड़ा है। वह कारण जैसा कुत्सित है वैसा ही काला है। स्याही से लीप-पोतकर एकाकार होने में अब कुछ बाकी नहीं है। निर्मल ने ससुर को कभी आदर्श पुरुष नहीं समझा, वे दिहात के ससारी मनुष्य हैं, मामूली हालत से बढ़ते-बढ़ते अब उन्होंने बहुत सी सम्पत्ति एकत्र कर

ली है। इस कारण परलोक को सर्व का पन्ना भी खाली पडा रहने की बात नहीं है—उसमें अधर्म की पूँजी का लेना होना ही चाहिए—यह उन्हें अच्छी तरह मालूम था, और इसलिए वे मन में उन्हें क्षमा भी करते थे, परन्तु आज उन्होंने जब मन्दिर की प्राचोर की परिक्रमा करके उस पगडण्डो से पोडशो की भोपडी की ओर कदम बढ़ाया तब उनके चित्त में एक ओर जैसे मसुर के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न हुई वैसे ही दूसरी ओर, कुछ अधिक न जानकर भी, पोडशो के प्रति चिढ़ और वितृष्णा से उनका मन खटा हो गया। वे मन में बार-बार कहने लगे कि जो स्त्री पत्र के द्वारा प्रायः अपरिचित परायें पुरुष की कृपा-प्रार्थना करने में जरा भी नहीं मक्कुचाती और उस बात को निर्लज्जा की तरह शोगो के साथ कहती फिरती है उसे, और कुछ भी हो, सम्मान का उच्च पद नहीं दिया जा सकता। परन्तु एकाएक उनकी विचारधारा बाधा पाकर यहाँ रुक गई। मोड घूमते ही उनकी उत्सुक दृष्टि शूहर की पत्तियों के भीतर से, पाम खडा हुई, पोडशो के अवनत बेहरे पर जा पडी। वह आँगन के बाहर खडी एकाग्र चित्त से टट्टरो में रस्ती बाँध रही थी। आगन्तुक के पैरों की आहट उसे नहीं मिली। पल भर के लिए निर्मल न तो हिल सके और न आँग्य ही हटा सके। यही उस दिन की बात है, तो भी उन्हें मालूम हुआ कि वह भैरवी यह नहीं है। परन्तु वे निश्चय नहीं कर सके कि परिवर्तन कहाँ है। वही लाल किनारेवाली

गेरुए रङ्ग की साड़ी, वही खुलो हुई खुरी लटें, गले में वैसी ही रुद्राक्ष की माला, वैसे ही मुख पर उपवास की क्षीण छाया—सिन्दूर से रंगा हुआ त्रिशूल तरु हाथ के पास टिका हुआ है—कुछ भी नहीं बदला है—तो भी किसी अज्ञात मोह ने उन्हें कुछ देर तक आविष्ट कर रक्खा। रस्सी में गाँठ देकर आँस उठाते ही पौडशो चौक उठी, पर दूसरे ही क्षण में रस्सी छोड़कर मुस्कराता हुई सामने आकर बोली—आइए। घर में आइए।

निर्मल सकुचाकर बोले—आपके काम में हर्ज किया।

पौडशो मुस्कराकर बोली—टट्टर बाँधना क्या मेरा काम है ? और हो भी तो क्या अपने नातेदार की खातिरदारी न करनी चाहिए ? सुसराल में दामाद की खातिर नहीं हुई, परन्तु साली की कुटी से वहनोई को अनादर के साथ लौटने नहीं दूँगी। आइए, घर में आकर बैठिए। लल्ला, हैम नौकर-चाकर सब अच्छे तो हैं ? आप अच्छे हैं ?

निर्मल जरा सकुचाने लगे। गरदन हिलाकर कहा—सब अच्छे हैं, परन्तु आज बैठूँगा नहीं।

पौडशो ने कहा—“क्यों भला ?” फिर स्वर को नरम करके और जरा पास आकर कहा—एक दिन अँधेरे में हाव पकड़कर लाई थी, याद है ? दिन में उसकी आवश्यकता नहीं है, चलिए। जो उतनी दूर से बुला सकती है, वह क्षणिक और खींच ले जायगी।

निर्मल को लज्जा मालूम हुई, चोट भी लगी। इस प्रकार के वर्ताव, इस तरह की बातों की आशा पोडशा के मुँह से निर्मल ने नहीं की थी, ये तो उनकी कल्पना से भी दूर थीं। विदुषो सन्यासिनी भैरवी को वे शान्त, समाहित, दृढ यहाँ तक कि कठोर ही समझते थे, उसे सत्तार की अन्य स्त्रियों के समान समझने में भी उन्हें सङ्कोच होता था। उसके बारे में बहुत सोचा है, काम-काज के बीच में, विश्राम के समय इसी पोडशा की चिन्ता उन्होंने कई बार की है—हृदय आनन्द से भर गया, परन्तु कभी इस विचारधारा को नियमित या सयत करने की चेष्टा नहीं की। किन्तु आज जब उसी पोडशा ने अपने को नीचे रखाकर, साधारण मनुष्यों में शामिल कर दिया तब निर्मल ने अपने हृदय के एक ओर जैसे व्यवसाय का अनुभव किया, वैसे ही दूसरी ओर एक तरह के कल्पित आनन्द से तब भर में उनका सारा अन्त करण प्रभावित हो गया।

निर्मल को घर में लाकर पोडशा ने कमबल बिछाकर बिठाया, फिर पूछा—रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई ?

निर्मल ने कहा—नहीं। परन्तु मन्दिर में आज आपको काम नहीं है क्या ?

पोडशा ने कहा—“यानी आज मन्दिर में रविवार है या नहीं ?” उसके बाद कहा—“काम जरूर है, सुबह एक दफा कर भी आई हूँ। जितना बाकी है वह थोड़ी देर में कर लिया जायगा।” हँसकर कहा—जमाई बाबू, यह

आपकी अदालत नहीं है, मन्दिर है। देवता लोग अपने दास-दासियों को पल भर की छुट्टी नहीं देते, कान पकड़कर चौबीसों घण्टे सेवा कराते हैं।

“परन्तु यह नौकरी आपने अपनी ही इच्छा से की है।”

‘अपनी इच्छा से ? होगा।’ अब षोडशो जरा हँसकर बोली—अच्छा, तो आने की खबर जरा पहले से क्यों नहीं दी ?

निर्मल ने कहा—समय नहीं था। परन्तु उसका दण्ड मिल गया, सुसराल में आदर नहीं मिला। कम से कम मुझे देखकर वे खुश नहीं हुए। अच्छा, यह बात आपको कैसा मालूम हुई ? और मेरे आने की खबर, आने के पहले ही, किसने जाहिर कर दी ? मालूम है आपको ?

षोडशो ने कहा—मैं कह नहीं सकती, पर अनुमान कर सकती हूँ।

निर्मल ने कहा—अनुमान तो मैं भी कर सकता हूँ, परन्तु की किसने, और कहाँ उसकी खबर मिली ? मालूम हो तो बताइए। मुझे आशा है, आपने यह बात प्रकट न की होगी।

षोडशो हँसी, बोली—कोई भी आशा करने से मैं किसी को रोक नहीं सकती। परन्तु क्या करेंगे ?

“यदि कष्ट हा तो भो ?”

निर्मल ने सिर हिलाकर कहा—हाँ, कष्ट हो तो भी ।

पोडशो हँस पडो । निर्मल उसके मुँह की ओर ताककर खुद भी जरा हँसकर बोले—हँसीं क्यों ?

‘हँसती हूँ इसलिए कि पुराने जमाने में भेरवियाँ परदेशों मनुष्यों को भेडा बनाकर रख लेती थीं । अच्छा भेडा का बे करती क्या थी ? सेतो में चराया करती थीं या लडवाकर तमाशा देवती थीं ।’ कहते-कहते पोडशी छोटी लडकी के समान खिलखिलाकर हँसने लगी ।

निर्मल का शरीर और मन पुतक से नाचने लगा । इस कठिन आवरण के नीचे रहस्यमयी कौतुकप्रिय नारी-प्रकृति दबी पडा है—उसके व्रत और उपवास की हजारों तरह की कठोर साधना से भी उसकी हँसी का भरना अभी नहीं सूखा है , राख के भीतर की आग की तरह वह जीवित है—उम वात का स्मरण करते ही उनका शरीर कण्टकित हो उठा । उसके परिहास में स्वयं भी भाव देकर निर्मल ने कहा—शायद कभी कभी देरी को बलि देकर खाती भी हों । अर्थात् मेरे ससुर या सासु ने, बीच में, आपके यहाँ आकर गहुत सी अप्रिय असत्य बातें कही हैं ।

पोडशी बोली—“नहीं । उनमें से कोई नहीं आया । मैंने तन्त्र-मन्त्र में सिद्धि प्राप्त की है, यह असत्य हो सकता है । परन्तु अप्रिय क्यों होगा निर्मल वानू ? फिर भी आपके

आने का ढङ्ग देखकर सशय होता है कि शायद असत्य भी न हो।” उसके मुख में हँसी का आभास लगा ही रहा, परन्तु कण्ठ का स्वर बदल गया। होठ और स्वर में विल कुल सामञ्जस्य नहीं रहा।

अचम्भे में आकर निर्मल अवाक् हो रहे। किसी तरह उनकी समझ में न आया कि इसमें कितना परिहास है, कितना तिरस्कार है और वह किसलिए है। पोडशी ने भी और कुछ नहीं कहा, परन्तु उसके अवनत मुख पर जो लज्जा की लाल आभा भलक गई वह उनको दीख पड़ी। किन्तु वह पल भर के लिए ही थी। उसने अपने को सँभालकर, आख उठाकर, उनकी ओर देखते हुए कहा—रिशतेदार की अभ्यर्थना तो हुई। परन्तु वह हँसी-दिहंगी से जहाँ तक हो सकती है उतनी ही—उससे अधिक सामर्थ्य मुझमें नहीं है भैया—अच्छा अब ज़रा काम की घातचीत की जाय।

उसके प्यारे सम्वोधन को इस धार उन्होंने सशय के साथ ग्रहण करना चाहा, तो भी उनका मन भीतर ही भीतर उत्फुल्ल हो उठा। बोले—कहिए।

पोडशी ने कहा—देवता को दो आदमी ठगना चाहते हैं। एक राय महाशय और दूसरे जमींदार—

निर्मल ने कहा—और तीसरे आपके पिता जी। यही लोग तो आपको भी धोखा देना चाहते हैं।

“पिताजी ? हाँ, वे भी हैं” कहकर पोडशी चुप हो रही।

“अपने ससुर की बात समझता हूँ, आपके पिताजी की बात भी समझ में आती है, परन्तु विलकुल समझ में नहीं आते हैं यही जमींदार प्रभु। वे किसलिए आपसे इतनी शत्रुता रखते हैं।”

पोडशी बोली—देवी की बहुत सी जमीन को वे अपनी बत्ताकर बँच डालना चाहते हैं, परन्तु मेरे रहते वह तो हो नहीं सकता।

निर्मल ने हँसकर कहा—“उसे मैं सँभाल सकूँगा।” अब उन्होंने कनरियों से भैरवी के मुँह की ओर देखा कि वह चुपचाप है परन्तु उसके चेहरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ देर बाद आँसु उठाकर वह धीरे-धीरे बोली—परन्तु और भी बहुत सा चीजें हैं जिन्हें आप भी शायद न सँभाल सके।

“वे क्या हैं ? एक तो आपकी भूठी बदनामी—”

पोडशी ने किसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट नहीं की, नमी के स्वर से कहा—उसका मैं खयाल नहीं करती। बदनामी भूठी हो या सची, उसी को लेकर तो भैरवी का जीवन है निर्मल बाबू। उन लोगों से मैं यही कह देना चाहती हूँ।

निर्मल ने अचरज से कहा—यही बात अपने मुँह से आप कहना चाहती हैं ? वह तो मान लेने को समान हो जायगा ? पोडशी चुप हो रही।

निर्मल ने सकोच से कहा—वे लोग कहते हैं—

निर्मल चुप हो रहे। चण्डोगढ की भैरवियों के सम्बन्ध में यह वदनामी सदा से चली आ रही है। और उसके लिए इस गाँव के किसी आदमी ने कभी लज्जा के मारे प्राण तक दे डाले, ऐसा प्रवाद भी नहीं है। लोगों को यह भी मालूम नहीं कि स्वयं चण्डी देवी ने कभी आपत्ति की है। भैरवियों की रीति-रस्म, आचार-अनाचार सभी बातें वे सुन गये थे इसलिए उनका मन इस सम्बन्ध में निरपेक्ष ही था। खासकर, पोडशो की वदनामी पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया था। अतः यह अगर मिथ्या प्रमाणित होती तो वे खुश होते, परन्तु इस वदनामी का मिथ्या प्रमाणित होना ही भैरवी पद के लिए एक मात्र दावा है ऐसा वे नहीं समझते थे। उनके ससुर का इशारा नया भी नहीं, भीषण भी नहीं, परन्तु आज इन्हीं बातों से एकाएक उनका मन जब चौकन्ना सचेत हो उठा, तब अपने मन के इस विचित्र भाव का अनुभव कर सचमुच उन्हें अचम्भा हुआ। उन्हें मौन देखकर राय महाशय ने फिर कहा—क्या कहते हो ?

सही और समयोपयोगी उत्तर देने का समय और मौका निर्मल को नहीं था। इससे उन्होंने पहली बात की ही पुनरुक्ति कर कहा—भैरवियों की वदनामी तो आज नई बात नहीं है।

राय महाशय ने इनकार नहीं किया, कहा—यह ठीक है, परन्तु वदनामी है तो बुरी चीज न ? सदा की नजीर दिखाकर बुरी चीज को बराबर चलाते जाना तो नहीं न चाहिए। क्यों ?

“परन्तु वह घद है, यह बात क्या निश्चित रूप से प्रमाणित हो गई है ?”

राय महाशय ने निःसशय भाव से “हाँ” कहा ।

निर्मल ने जरा चुप रहकर पूछा—कैसे प्रमाणित हुई ? निश्चित प्रमाण किसने दिया ?

राय महाशय ने कहा—जिसने दिया है वह आज भी देगा । शाम को मन्दिर में जाना, उसके बाद शायद ससुर-दामाद को दो तरफ गूडे छोड़कर गाँव भर की हँसी दिखगी न बटोरनी पड़े । तुम तो कानून-पेशा हो, अब निश्चित प्रमाण किसे कहते हैं, यह मुझे तुमको बतलाना न होगा ।

गृहिणी पत्थर की घाली में मिठाई और फटोरी में दही ले आई, बोली—क्या घेठा, ग्याते क्या नहीं ?

“ग्याता तो हूँ” कहकर निर्मल ने खाने में मन लगाया । राय महाशय ने कहा—दही निर्मल को देकर मेरे लिए थोड़ा सा दूध ला दे । आज तथियत अच्छी नहीं है । दही न खाऊँगा ।

गृहिणी को चले जाने पर राय महाशय ने कहा दिन धँधरी रात में, तेन आंधी-पानी के समय, - पकड़कर तुम्हें घर पहुँचा दिया था, उसके लिए निक क्यो हम लोग भी छुता है । जो अपकार करता है, अपकार करने को दित नहीं चाहता, परन्तु यह तो बात नहीं है निर्मल, यह गाँव की बात है, समाज की

निर्मल चुप हो रहे। चण्डोगढ़ की भैरवियों के सम्बन्ध में यह वदनामी सदा से चली आ रही है। और उसके लिए इस गाँव के किसी आदमी ने कभी लज्जा के मारे प्राण तक दे डाले, ऐसा प्रवाद भी नहीं है। लोगों को यह भी मालूम नहीं कि स्वयं चण्डी देवी ने कभी आपत्ति की है। भैरवियों की रीति-रस्म, आचार-अनाचार सभी बातें वे सुन गये थे इसलिए उनका मन इस सम्बन्ध में निरपेक्ष ही था। खासकर, पोडणो की वदनामी पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया था। अतः यह अगर मिथ्या प्रमाणित होती तो वे खुश होते, परन्तु इस वदनामी का मिथ्या प्रमाणित होना ही भैरवी पद के लिए एक मात्र दावा है ऐसा वे नहीं समझते थे। उनके ससुर का इशारा नया भी नहीं, भीषण भी नहीं, परन्तु आज इन्हीं बातों से एकाएक उनका मन जब चौककर सचेत हो उठा, तब अपने मन के इस विचित्र भाव का अनुभव कर सचमुच उन्हें अचम्भा हुआ। उन्हें मौन देखकर राय महाशय ने फिर कहा—क्या कहते हो ?

सही और समयापयोगी उत्तर देने का समय और मौका निर्मल को नहीं था। इससे उन्होंने पहली बात की ही पुनरुक्ति कर कहा—भैरवियों की वदनामी तो आज नई बात नहीं है।

राय महाशय ने इनकार नहीं किया, कहा—यह ठीक है, परन्तु वदनामी है तो बुरी चीज न ? सदा की नजीर दिखाकर बुरी चीज को बराबर चलाते जाना तो नहीं चाहिए। क्यों ?

“परन्तु वह वद है, यह बात क्या सिद्धि कर ले-
खित हो गई है ?”

राय महाशय ने नि सशय भाव से कहा—

निर्मल ने जरा चुप रहकर पूछा—
निश्चित प्रमाण किमने दिया ?

राय महाशय ने कहा—निमने सिद्ध है कि वह वद
देगा। शाम को मन्दिर में जाना, वहाँ वद मन्त्र
दामाद को दो तरफ खड़े होकर गाँव में जाने देना,
न घटोरनी पडे। तुम तो कानून-वद
प्रमाण किसे कहते हैं, यह मुझे तुमको बतलाना न देना

गृहिणी पत्थर की घाली में सिद्धि कर लेने में
ले आई, दोली—क्यों घेता, गाँव कहां नये ?

“साता तो हूँ” कहकर निर्मल ने वद से कहा—

राय महाशय ने कहा—दही निर्मल को बतलाने के लिए
थोडा सा दूध ला दो। आज तबिले वद नये है। वद
न साऊँगा।

गृहिणी को चले जाने पर राय महाशय ने कहा—
दिन अँधेरी रात में, ऐन आवा-पाना के समय, वदने हाथ
पकडकर तुम्हे घर पहुँचा दिया न मुझे सिद्धि सिद्धि
क्यों हम लोग भी वृत्त हैं। जो नकर करता है, वद
अपकार करने को दिल नहीं चाहेता, परन्तु यह लो
वात नहीं है निर्मल, यह गाँव का वात है, समाज की

देवी देवता की बात है—इस कारण जो मासे बड़ा कर्तव्य है
 यह मुझे करना ही पड़ेगा ।

उस रात की घटना छिपी नहीं है यह वे सुन आये थे,
 परन्तु उसे उन्होंने उस समय छिपा लिया था, यह याद आते
 ही वे लज्जा से चुप हो गये । राय महाशय कहने लगे—देवता
 लोग मुँह से कुछ कहते नहीं परन्तु बदला लेते हैं । गाँव
 की भलाई कभी नहीं हुई है, बल्कि बराबर अवनति ही होती
 आ रही है । मालूम होता है, यह भी उसका एक कारण
 है । प्रमाण की बात पूछते थे, सो तुम यहाँ आ रहे हो
 नहीं हमें कैसे मालूम हुआ ? तुम लडके के समान हो,
 तुम्हारे सामने सब बातें साफ साफ कहते मैं भिन्नरुता हूँ,
 परन्तु बिना कहे भी नहीं चलता । जमीदार बाबू को शायद
 उस रात को खाना खाकर जाने की फुरसत नहीं मिली थी ।
 खाना लाने के लिए पोडशी के बाहर जाते ही एक चिट्ठी
 के फटे टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी । गायद तुम्हें लिखकर
 उसे फाड़ डाला और फिर हैम को लिखा था । आज उसे
 भी देख लेना, वे खबरे आते समय साथ लेते आये थे ।

निर्मल क्रोध के मारे जल-भुनकर बोल उठे—भूठ है, सरासर
 भूठ है । जो बेइया खुद अपराधी है, उस पियकड पाजों बदमाश
 की बात पर आप विश्वास करते हैं ? यह हो ही नहीं सकता ।

राय महाशय सिर्फ जरा हँसे । फिर दृढ़ स्वर से बोले—
 हो सकता है और हुआ है । जमीदार खुद बेइया, पियकड,

पाजो और बदमाश है, यह मुझे मालूम है। शायद उससे भी ज्यादा है, नहीं तो अपने ही कलङ्क की बात मुँह से निकाल सकता। उसके पाजोपन की हद नहीं है। गाँव की भलाई के लिए भी उसने इस काम में हाथ नहीं डाला है। देव-देवियों पर उसका विश्वास भी नहीं है। उसने जवर्दस्ती मन्दिर में खसी (बकरा) ऋतवाकर रखा था। जखुरत होने पर वह पारण्डो मुर्गी और सुअर ही नहीं बल्कि गो-बद बरू करके खा सकता है।

“तो भी उसे प्राय मदद देना चाहते हैं ?”

‘नहीं। मैं तो काटे से काँटा निकालना चाहता हूँ।’

निर्मल न थोड़ी देर चुप रहकर कहा—मालूम नहीं, आपका काँटा निकलेगा या नहीं, पर वह निष्कण्टक हो जायगा। देवी की जिस सम्पत्ति को वह बेच डालना चाहता है उसे षोडशी के भैरवी रहते नहीं बेच सकता।

राय महाशय ने कहा—उसके चले जाने से भी विक्रो न होगी—क्योंकि मैं हूँ।

वे मौजूद हैं—इतनी बड़ी बात को निर्मल भूल गये थे। उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि जमींदार को लाभ न भी हो, परन्तु देवी को कुछ लाभ नहीं होगा। तो लाभ किसको होगा, वह उन्होंने मुँह से बाहर नहीं निकाला।

राय महाशय ने नमी के साथ कहा—“बेटा निर्मल, तुम बड़े कानूनदाँ हो, बहुत समझते-बूझते हो, परन्तु दुनिया में

जब मुझे खाली हाथ से लडाईं शुरू करनी पडी थी, तब मैंने सिर्फ धन-सम्पत्ति बटोरकर ही समय नहीं बिताया, दिमाग के भीतर भी कुछ सब्बय करने का मुझे मौका मिला है। लोगों ने तुमसे कहा है कि उस थोडो सी जमीन पर ही जमींदार का लोभ है—पांडशी बडी मजबूत है, उसने रहते जमींदार की दाल नहीं गलेगो, इसलिए अपना ही कलङ्क फैलाकर वह उसे हटाना चाहता है। प्रच्छा बेटा, बीजगाँव के जमींदार के लिए वह सम्पत्ति है ही कितनी सी? उसको रुपये की है जरूरत, यह न सही वह और कुछ बेच डालेगा, अटकेगा नहीं। परन्तु जहाँ उसकी चास्तव में अटक है, वह विलकुल दूसरी चीज है। इस जङ्गल में वह महीनों इस तरह पडा नहीं रह सकता। शहर का आदमी शहर में जाना चाहता है। बेटा निर्मल, हैम की तरह तुम भी मेरे लडके हो, तुमसे कहने में शर्म मालूम होती है, परन्तु अगर उस छोकडो की भलाई ही तुम करना चाहो तो कह देना कि वह डरती किस-लिए है। चण्डीगढ की भैरवी की आमदनी बहुत नहीं है—जितना उसका हर्ज होगा, उसका चौगुना उसको जमींदार से मिल जायगा—यह बात मैं सौगन्द खाकर कह सकता हूँ। वह उसे तरुलीफ देना भी नहीं चाहता, देगा भी नहीं, वरतें कि वह दो नावों में पैर रखने की असम्भव आशा छोड दे। निर्मल निरुत्तर होकर स्तब्ध बैठे रहे। ससुर की वे पहचानते थे, परन्तु इतना नहीं जानते थे। इन्हीं ससुर ने

पोडशों के लिए कल्याण का जो मार्ग बतला दिया, उसके बारे में तर्क तर्क करने की उनको प्रवृत्ति नहीं हुई।

सास को दूध गर्म कर लाने में देर हुई। वे घर में आकर पति के सामने दूध की कटोरी रख करके दामाद को थोड़ा भोजन करने के लिए मृदु तिरस्कार करने लगीं, और इस कसर को पूरा करने का भार स्वयं लेकर घगल में बैठ गई।

राय महाशय ने दूध की कटोरी को मुँह से उतारकर कहा—परन्तु उसकी इतनी प्रशंसा अवश्य करनी पडती है कि पढने-लिखने में मानो सरस्वती है। ऐसा शालू नहीं जिसे न जानती हो।

गृहिणी उसी दम मम्मति देकर बोली—बहुत ठीक। देखा नहीं है, किसी काम-काज में वह खड़ी रहे तो तुम्हारे शिरोमणि तो डर से के चुआ बन जाते हैं। उसके हट जाने पर बेहद बाते सूझती हैं—परन्तु सामने निन्दा करने की हिम्मत नहीं होती।

राय महाशय ने कहा—नहीं-नहीं, निन्दा क्यों करेंगे, वे तो प्रशंसा ही करते हैं।

गृहिणी ने नाक की बडो सी नथुनी को हिलाकर प्रतिवाद किया, कहा—हाँ, ऐसे ही आदमी वे हैं न। ईर्ष्या से जले मरते हैं। वे भला प्रशंसा करेंगे? याद नहीं है, उम अन्तु की बहिन के प्रायश्चित्त की व्यवस्था के बारे में कुछ दिन तक कैसी चर्चा फैलाई थी? इसके सिवा उस लडकी ने इधर

जब मुझे खाली हाथ से लडाई शुरू करनी पडी थी, तब मैंने सिर्फ धन-सम्पत्ति बटोरकर ही समय नहीं बिताया, दिमाग के भीतर भी कुछ सञ्चय करने का मुझे मौका मिला है। लोगों ने तुमसे कहा है कि उस थोड़ी सी जमीन पर ही जमींदार का लोभ है—पांडशी बडी मजबूत है, उसके रहते जमींदार की दाल नहीं गलेगी, इसलिए अपना ही कलङ्क फैलाकर वह उसे हटाना चाहता है। प्रच्छा वेटा, बीजगाँव के जमींदार के लिए वह सम्पत्ति है ही कितनी सी? उसको रुपये की है जरूरत, यह न सही वह और कुछ बेच डालेगा, अटकेगा नहीं। परन्तु जहाँ उसकी वास्तव में अटक है, वह बिलकुल दूसरी चीज है। इस जङ्गल में वह महीनों इस तरह पडा नहीं रह सकता। शहर का आदमी शहर में जाना चाहता है। वेटा निर्मल, हैम की तरह तुम भी मेरे लडके हो, तुमसे कहने में शर्म मालूम होती है, परन्तु अगर उस छोकडो की भलाई ही तुम करना चाहो तो कह देना कि वह डरती किस-लिए है। चण्डीगढ की भैरवी की आमदनी बहुत नहीं है—जितना उसका हर्ज होगा, उसका चौगुना उसको जमींदार से मिल जायगा—यह बात मैं सौगन्द खाकर कह सकता हूँ। वह उसे तरुलीफ देना भी नहीं चाहता, देगा भी नहीं, वरन्ते कि वह दो नावों में पैर रखने की असम्भव आशा छोड दे।

निर्मल निरुत्तर होकर स्तब्ध बैठे रहे। ससुर को वे पहचानते थे, परन्तु इतना नहीं जानते थे। इन्हीं ससुर ने

पोइशों के लिए कल्याण का जो मार्ग बतला दिया, उसके बारे में तर्क तक करने की उनको प्रवृत्ति नहीं हुई ।

सास को दूध गर्म कर लाने में देर हुई । वे घर में आकर पति के सामने दूध की कटोरी रख करके दामाद को थोड़ा भोजन करने के लिए मृदु तिरस्कार करने लगीं, और इस कसर को पूरा करने का भार स्वयं लेकर बगल में बैठ गई ।

राय महाशय ने दूध की कटोरी को मुँह से उतारकर कहा—परन्तु उसकी इतनी प्रशंसा अवश्य करनी पड़ती है कि पढ़ने-लिखने में मानो सरस्वती है । ऐसा शाल्व नहीं जिसे न जानती हो ।

गृहिणी उसी दम सम्मति देकर बोलीं—बहुत ठीक । देखा नहीं है, किसी काम-काज में वह खड़ी रहे तो तुम्हारे शिरोमणि तो डर से के चुआ वन जाते हैं । उसके हट जाने पर बेहद धाते सूझती हैं—परन्तु सामने निन्दा करने की हिम्मत नहीं होती ।

राय महाशय ने कहा—नहीं-नहीं, निन्दा क्यों करोगे, वे तो प्रशंसा ही करते हैं ।

गृहिणी ने नाक की बड़ी सी नथुनी को हिलाकर प्रतिवाद किया, कहा—हाँ, ऐसे ही आदमी वे हैं न । ईर्ष्या से जले मरते हैं । वे भला प्रशंसा करोगे ? याद नहीं है, उस अन्तु की बहिन के प्रायश्चित्त की व्यवस्था के बारे में कुछ दिन तक कौसी चर्चा फैलाई थी ? इसके सिवा उस लड़की ने इधर

जो कुछ भी किया हो, किन्तु शोक-दुःख, आपत्ति-त्रिपत्ति में गरीबों के लिए ऐसा माँ-बाप गाँव भर में दूसरा नहीं है। जब जिस काम के लिए बुलाओ, हँसती हुई हाज़िर है, नाहीं करना तो जानती ही नहीं।

राय महाशय प्रसन्न नहीं हुए, बोले—सब भैरवियाँ ऐसा ही करती हैं।

गृहिणी ने कहा—सब ? मातङ्गो भैरवी को क्या मैंने आँस से नहीं देखा है ?

‘देखा होगा, लेकिन भूल गई हो।’

गृहिणी ने क्रोध में आकर जवाब दिया—कुछ भी भूली नहीं हूँ। आज भी मेरा उन पर सौ रुपया पावना है—साफ़ इनकार कर गई। पोटशी किसी को कभी धोखा नहीं देती और न झूठ ही बोलती है।

राय महाशय बहुत नाराज होकर बोले—‘‘नहीं—वह तो युधिष्ठिर है।’’ अब वे आसन से खड़े हो गये। गृहिणी ने दामाद से कहा—मैं तो जानती हूँ कि इसी की कृपा से हम लोगों ने नाती का मुँह देखा है। नहीं बेटा, लोग कुछ भी कहें, छली कपटो या धोखेवाज वह नहीं है। इसी से जब सुना कि उसने देवी की पूजा करना छोड़ दिया, तभी मन में सन्देह हुआ कि यह क्या ? नहीं तो किसी की बात पर मैं एकाएक विश्वास नहीं करती हूँ।

राय महाशय ने चौखट के बाहर पैर बढ़ाया था, कान खड़े करके ठहरकर कहा—“अच्छा, उसकी कृपा से नाती मिला है तो उसी नाती के भले के लिए मनौती की पूजा अपने हाथ से करना उसने क्यों स्वीकार नहीं किया, जरा बुलाकर पूछ क्यों नहीं लेती ?” अन्न वे उत्तर सुनने की प्रतीक्षा न करके वहाँ से चले गये ।

निर्मल भोजन कर चुके थे । वे भी खड़े होकर बोले—देखता हूँ, षोडशी के ऊपर से अम्मा की श्रद्धा अभी तक नहीं गई है ।

“नहीं बेटा, भूँठ क्यों कहूँ, उसके चेहरे की याद आते ही मुझे न मालूम क्यों रुलाई आती है । न मालूम ये लोग मिलकर क्यों उसके पीछे पड़े हैं ।”

निर्मल जरा हँसकर राय महाशय का अनुसरण करते हुए बोले—परन्तु अम्मा, उसके तन्त्र-मन्त्र की शक्ति की बात भी जरा सोचिए ।

सास कुछ और कहना चाहती थीं, इतने में नौकरनी ने आकर खबर दी—एक आदमी जमाई बाबू को बुलाने आया है । बाबू ने खबर देने को कहा है ।

हाथ-मुँह धोकर निर्मल ने बाहर आते ही देखा कि गाँव के बहुत से आदमी आकर बैठे हुए हैं । शाम को मन्दिर में जो सभा होगी उसी के विषय में चर्चा चल रही है । शिरो-मण्डिजी को आज अमावास्या का उपवास है । उन्होंने

निर्मल को बुलाकर आशोर्वाद दिया, और उन्हें एकाएक पहचान न सकने के लिए अपने बुढापे को दोष दिया। जो आदमी खम्भे के पास खड़ा था, उसने प्रणाम कर कहा— भैरवी माँजी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई जरूरी बात कहनी है।

निर्मल को बड़ो लज्जा मालूम होने लगी। पीछे न देखने पर भी उन्हें मालूम हुआ कि उनका उत्तर सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे हैं। इसके भीतर जो छिपी हुई दिखगो है, उससे उन्होंने अपने को अपमानित समझा, दूसरा समय होता तो शायद वे उसे टाल भी जाते, परन्तु आज उनमें उतनी शक्ति नहीं थी। किसी हालत में भा न कह सके—‘चलो मैं आता हूँ। बल्कि एक तरह से लज्जित होकर ही उस आदमी से उन्होंने कह दिया—जाकर कह दे, मुझे अभी फुरसत नहीं है।

शिरोमणि बिना ही जरूरत के बोल उठे—तुम लोग इन्हें ज़रा विश्राम भी करने दोगे। अब आँस से इशारा करके वे अकारण ठठाकर हँसने लगे। किसी-किसी ने तो उनके हँसने में साथ दिया और कोई-कोई जरा मुक्कुराकर ही रह गया। सब टालकर निर्मल भीतर जा रहे थे कि शिरोमणि ने जोर से कहा—अजी जमाई बाबू को क्या उस लौडिया ने वैरिस्टर किया है ?

निर्मल ने उद्दीप्त क्रोध को दबाकर शान्त भाव से कहा— मुकदमा छिड़ जाय तो शायद वह काम करना ही होगा।

शिरोमणि को इस तरह के उत्तर की आशा न थी। अक-
वकारर बोले—सो तो करोगे, पर मैं अभी से कहे रखता हूँ
बनुआ कि यह मच्छर का कल्लेजा नहीं है—शेर-भालू की
लडाई है—यह मुकदमा हाईकोर्ट तक गये बिना न रुकेगा—
यह याद रखना।

निर्मल ने कहा—मुकदमा कह, तरु जाता है, वह तो मेरे
ही जानने की बात है पण्डितजी।

शिरोमणि ने कहा—“यह ठोक है, यह तो तुम्हारा
पेशा है, तुम नहीं जानोगे ? परन्तु और भी बहुत सा सचाई
है, वह कौन देगा ?” अब वे जरा हँसे। परन्तु इस हँसी
में किसी ने साथ नहीं दिया।

निर्मल ने कहा—जरूरत होगी तो मैं दे दूँगा।

जवाब सुनकर शिरोमणि ही नहा सभी लोग दङ्ग रह गये।
राय महाशय से भी धीरज धरते नहीं बना, रूपे खर से
घोले—तुम्हारे साथ पण्डितजी का हँसी दिल्लगी का रिश्ता
नहीं है निर्मल, फिर शिरोमणिजी तो बड़े बूढ़े और माननीय
हैं—दिल्लगा करना तुम्हें नहीं सोहता।

निर्मल चुप हो गये। शिरोमणि अपने को सँभालकर
हँसने की कोशिश करते हुए बोले—रुपया तो दोगे, परन्तु
देने का मतलब क्या है, सुन सकता हूँ ?

निर्मल ने कहा—मेरा मतलब निर्फ आप लोगों के
अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना है। मैं जहाँ

रहता हूँ वहाँ अगर जाँच-पड़ताल कीजिएगा तो पता लगेगा कि जीवन में ऐसा भ्रमला कई बार मैंने अपने सिर लिया है।

जो आदमी बुलाने आया था वह भ्रमों गया नहीं था, उसने कहा—तो आपको कब फुरसत होगी ? उन्हें खबर देनी है।

“फुरसत होने पर मैं मिलूँगा” कहकर वे भीतर चले गये।

शाम को जनार्दन राय कपड़े पहनकर आँगन में आये। उन्होंने निर्मल को पुकारा, कहा—मन्दिर में सब लोग आ गये हैं। तुम्हें उन लोगों ने बुला भेजा है, अगर जाना चाहो तो देर न करो।

निर्मल ने बाहर आकर पूछा—मेरा जाना क्या आप आवश्यक समझते हैं ?

“जिन लोगों ने बुला भेजा है, वे जरूर समझते होंगे।” कहकर जनार्दन राय चलने लगे।

सन्ध्या के बाद ही देवी की आरती होने लगे। माता की तरह-तरह की गौरव की चीजें अब कम हो गई हैं, परन्तु उनके शङ्ख, घण्टा, सिंगा, डमरू, नगाडा आदि वाद्य यन्त्र और बजानेवालों की संख्या आज भी उतनी ही है। वही तुमुल वाद्य-ध्वनि निर्मल को सुनाई दी। आरती के बाद पश्चायत होनेवाली थी, इसलिए उस पवित्र ध्वनि के समाप्त होते ही वे घर से खाना हुए। उन्होंने मन्दिर में घुसकर देखा कि रोशनी का कुछ इन्तजाम नहीं है। आँगन के बीच नाट्य मन्दिर में दो लालटेने खूबकर हल्ला मचा हुआ है और उसी

को, चारों ओर खड़े होकर, बहुत से आदमी सुन रहे हैं। उम अँधेरे में निर्मल को किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने दो आदमियों के कन्वे पर से भाँककर देखा कि वहाँ बाबू श्रेणी का एक भलामानस हाथ मुँह हिला-हिलाकर कुछ कह रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दिया, परन्तु लोगो के सुनने का आग्रह देखकर मालूम हुआ कि वे अत्यन्त श्रुतिमधुर किसी की निन्दा और बुराई कर रहे हैं। उन्होंने अनुमान किया कि यही व्यक्ति जमींदार जीवानन्द चौधरी है, अतः संशय नहीं रहा कि वक्तव्य विषय भी पोडशी का जीवनचरित है। भीड़ को ढकेलकर सामने जाने की उनको इच्छा न थी, फिर भी दो-एक घाते सुन लेने का लोभ न छोड़ सकने के कारण पैरों के अँगूठों को बल ऊँचे होकर वे खड़े हो गये। थोड़ी देर में मन लग गया—अभो तरु जीवानन्द चौधरी मूल विषय पर नहीं आया था—पोडशी की माता की कहानी चल रही थी, परन्तु सभी सुनी सुनाई बातें थीं—सात्ता तारादाम पास ही बैठे हुए थे। वक्ता कह रहा था—इन भ्रष्ट स्त्रियों के सम्बन्ध से पीठस्थान धीरे-धीरे अपवित्र हो रहा है—और देश की अवनति हो रही है—

पीछे पीठ पर जरा दान पड़ते ही निर्मल ने घूमकर देखा कि अँधेरे में सिर से पैर तक फाड़े से ढके हुए किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहर की तरफ आने का इशारा किया। उसका अनुसरण कर दो-चार कदम चलते ही निर्मल को मान्गुम हो गया कि

यह गठीला, लम्बा और ऋजु शरीर पोडशी के सिवा, और किमी का नहीं है। फाटक के बाहर आकर वह खड़ी हो गई। उसने जरा हँसकर शिकायत के स्वर में कहा—छि रूडे रूडे क्या सुन रहे थे ? बहुत से कायर मिलकर दो असहाय स्त्रियों की निन्दा कर रहे हैं। उनमें से एक तो मर गई है और दूसरी गैरहाजिर है। चलिए मेरे घर, वहाँ फकीर साहब बैठे हुए हैं। चलिए, आपका परिचय करा दूँ।

“वे कब आये ?”

“मालूम नहीं। शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर के सामने रूडे हैं। खुशी के मारे रहा नहीं गया, प्रणाम करके भीतर ले जाकर बिठाया। सारा वृत्तान्त उन्होंने व्याज से सुना।”

“सुनकर क्या कहा ?”

“जरा सा हँस दिया। मालूम पडा मानो सब कुछ जानते थे। अच्छा निर्मल बाबू, क्या आपने कहा है कि मेरे मुकदमे का भार आप लेंगे ? क्या यह सच है ?”

निर्मल सिर हिलाकर बोले—हाँ, सच है।

“परन्तु किसलिए ?”

निर्मल दम भर चुप रहकर बोले—शायद इसलिए कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है।

“परन्तु और कुछ तो न समझिएगा ?” कहकर पोडशी जरा हँसकर फिर बोली—रैर, रहने दीजिए—शास्त्र का ऐसा कोई अनुशासन नहीं है कि सभी बातों का जवाब देना

ही चाहिए। खासकर इस कूट शास्त्र का—क्यों ? आइए, घर में आइए।

कुटी के भीतर जाकर देखा, फकीर साहब नहीं हैं। उसने कहा—“कहीं चले गये होंगे, शायद अभी लौट आवें।” दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा उसकाकर विछाया हुआ आसन दिखा करके कहा—बैठिए। लडाई-भगडे, शोर-गुल के मारे इतनी फुरसत नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करें। अच्छा, मुकदमे का बोझ तो आप सँभाल लेंगे परन्तु अगर हार जाऊँ तो मेरा भार कौन सँभालेगा ? उस समय पीछे तो नहीं हटिएगा ?

निर्मल से कुछ उत्तर देते नहीं बना। उनके कान तरु का अश्रु लाल हो उठा। थोड़ी देर में उन्होंने कहा—हारने की कोई सम्भावना नहीं है।

“वह ठीक है।” कहकर पोटशी जरा अनमनी हो पडी। परन्तु पल ही भर के लिए। एकाएक चौंककर उसने पूछा—लडका कैसा है निर्मल बाबू ? भला बचाओ तो, उसे छोड़कर कैसे आये ? मैं तो ऐसा न कर सकती।

अकस्मात् इस तरह के अनोखे प्रश्न से निर्मल को आश्चर्य हुआ। पोटशी इधर उधर दो-तीन बार मिर हिलाकर हँसती हुई बोली—“अगर मैं हैम होती तो ऐसा परोपकार करना छुडवा देती। मैं इतनी भोली नहीं हूँ—मेरे सामने धोखा नहीं चलता—दिन-रात आँसों के सामने रखती।

यह गठीला, लम्बा और ऋजु शरीर पोडगी के सिवा, और किसी का नहीं है। फाटक के बाहर आकर वह खड़ी हो गई। उसने जरा हँसकर शिकायत के स्वर में कहा—छि रखे-रखे क्या सुन रहे थे? बहुत से कायर मिलकर दो असहाय क्रियों की निन्दा कर रहे हैं। उनमें से एक तो मर गई है और दूसरी गैरहाजिर है। चलिए मेरे घर, वहाँ फकीर साहब बैठे हुए हैं। चलिए, आपका परिचय करा दूँ।

“वे कब आये?”

“मालूम नहीं। शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर के सामने रखे हैं। खुशी के मारे रहा नहीं गया, प्रणाम करके भीतर ले जाकर बिठाया। सारा वृत्तान्त उन्होंने ध्यान से सुना।”

“सुनकर क्या कहा?”

“जरा सा हँस दिया। मालूम पडा मानो सब कुछ जानते थे। अच्छा निर्मल बाबू, क्या आपने कहा है कि मेरे मुकदमे का भार आप लेंगे? क्या यह सच है?”

निर्मल सिर हिलाकर बोले—हाँ, सच है।

“परन्तु किसलिए?”

निर्मल दम भर चुप रहकर बोले—शायद इसलिए कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है।

“परन्तु और कुछ तो न समझिएगा?” कहकर पोडगी जरा हँसकर फिर बोली—सैर, रहने दीजिए—शास्त्र का ऐसा कोई अनुशासन नहीं है कि सभी बातों का जवाब देना

ही चाहिए। खासकर इस कूट शास्त्र का—क्यों ? आइए, घर में आइए।

कुटी के भीतर जाकर देखा, फकीर साहब नहीं हैं। उसने कहा—“कहाँ चले गये होंगे, शायद अभी लौट आवें।” दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा उसकाकर विछाया हुआ आसन दिखा करके कहा—बैठिए। लडाई-भगडे, शोर-गुल के मारे इतनी फुरसत नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करूँ। अच्छा, मुकदमे का बोझ तो आप सँभाल लेंगे परन्तु अगर हार जाऊँ तो मेरा भार कौन सँभालेगा ? उस समय पीछे तो नहीं हटिएगा ?

निर्मल से कुछ उत्तर देते नहीं बना। उनके कान तरु का अश लाल हो उठा। थोड़ी देर में उन्होंने कहा—हारने की कोई सम्भावना नहीं है।

“वह ठीक है।” कहकर पोडशी जरा अनमनी हो पडो। परन्तु पल ही भर के लिए। एकाएक चौंककर उसने पृच्छा—लडका कैसा है निर्मल बाबू ? भला बताओ तो, उसे छोड़कर कैसे आये ? मैं तो ऐसा न कर सकती।

अकस्मात् इस तरह के अनोखे प्रश्न से निर्मल को आश्चर्य हुआ। पोडशी इधर उधर दो-तीन बार मिर हिलाकर हँसती हुई बोली—अगर मैं हैम होती तो ऐसा परोपकार करना छुडवा देती। मैं इतनी भोली नहीं हूँ—मेरे सामने धोखा नहीं चलता—दिन-रात आँसों के सामने रखती।

यह गठीला, लम्बा और ऋजु शरीर पोडशी के सिवा, और किसी का नहीं है। फाटक के बाहर आकर वह खड़ी हो गई। उसने जरा हँसकर शिकायत के स्वर में कहा—छि सहे-सडे क्या सुन रहे थे? बहुत से कायर मिलकर दो असहाय दियों की निन्दा कर रहे हैं। उनमें से एक तो मर गई है और दूसरी गैरहाजिर है। चलिए मेरे घर, वहाँ फुकीर साहब बैठे हुए हैं। चलिए, आपका परिचय करा दूँ।

“वे कब आये?”

“मालूम नहीं। शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर के सामने सडे हैं। खुशी के मारे रहा नहीं गया, प्रणाम करके भीतर ले जाकर बिठाया। सारा वृत्तान्त उन्होंने व्यान से सुना।”

“सुनकर क्या कहा?”

“जरा सा हँस दिया। मालूम पडा मानो सब कुछ जानते थे। अच्छा निर्मल घाबू, क्या आपने कहा है कि मेरे मुकदमे का भार आप लेंगे? क्या यह सच है?”

निर्मल सिर हिलाकर बोले—हाँ, सच है।

“परन्तु किसलिए?”

निर्मल दम भर चुप रहकर बोले—शायद इसलिए कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है।

“परन्तु और कुछ तो न समझिएगा?” कहकर पोडशी जरा हँसकर फिर बोली—गैर, रहने दीजिए—शाम का ऐसा कोई अनुशासन नहीं है कि सभी बातों का जवाब देना

ही चाहिए । खासकर इस कूट शास्त्र का—क्यों ? आइए, घर में आइए ।

कुटी के भीतर जाकर देखा, फकीर साहब नहीं हैं । उसने कहा—“कहीं चले गये होंगे, शायद अभी लौट आएं ।” दिया टिमटिमा रहा था । उसे जरा उसकाकर विछाया हुआ आसन दिखा करके कहा—बैठिए । लडाईं-भगडे, शोर-गुल के मारे इतनी फुरसत नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करूँ । अच्छा, मुकदमे का बोझ तो आप सँभाल लेंगे परन्तु अगर हार जाऊँ तो मेरा भार कौन सँभालेगा ? उस समय पीछे तो नहीं हटिएगा ?

निर्मल से कुछ उत्तर देते नहीं बना । उनके कान तक का अश लाल हो उठा । थोड़ी देर में उन्होंने कहा—हारने की कोई सम्भावना नहीं है ।

“वह ठीक है ।” कहकर पोडशी जरा अनमनी हो पडी । परन्तु पल ही भर के लिए । एकाएक चौंकर उसने पूछा—लडका कैसा है निर्मल बाबू ? भला बताओ तो, उसे छोड़कर कैसे आये ? मैं तो ऐसा न कर सकती ।

अकस्मात् इस तरह के अनोखे प्रश्न से निर्मल को आश्चर्य हुआ । पोडशी इधर उधर दो-तीन वार मिर हिलाकर हँसती हुई बोली—अगर मैं हैम होती तो ऐसा परोपकार करना छुडवा देती । मैं इतनी भोली नहीं हूँ—मेरे सामने धोखा नहीं चलता—दिन-रात आँसों के सामने रखती ।

इशारा इतना साफ था कि निर्मल की छाती के अन्दर एक ही साथ आश्चर्य, भय और आनन्द की तरङ्गें उठने लगीं। उनके मुँह से एकाएक निकल गया—आँखों के सामने रखने से ही क्या रक्खा जा सकता है पोडशी ? इसका चन्धन जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक आँखों की दृष्टि नहीं पहुँचती। क्या यह बात तुम्हें आज तक मालूम नहीं हुई ?

“मालूम है।” कहकर पोडशी हँसने लगी। बाहर किसी की आहट पाकर द्वार से भाँकते हुए कहा—अच्छा आप भी आ गये।

“कौन, फकीर साहब ?”

“नहीं, जमींदार बाबू। मैंने कहला भेजा था कि पञ्चायत उठने पर लौटते समय मेरी कुटी में होते जायँ। शायद इसी से पधारे हैं। साथ में बहुत से आदमी भी हैं। एक स्त्री के घर में अकेले आने का भलेमानस को साहस नहीं हुआ। शायद बदनामी हो।” अग वद हँसने लगी।

निर्मल को यह मामला विलकुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चिढ़ और सङ्कोच के मारे सिङ्कड़कर कहा—यह बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं फही ?

“वाह ! एक बार तुम, एक बार आप ?” कहकर वह सती हुई बोली—“डरिए नहीं, आप बड़े सज्जन हैं। लडते नहीं हैं। इसके सिवा आप लोगों का परिचय नहीं है—यह भी तो एक लाभ है।” कहकर वह दरवाजे के

बाहर आकर स्वागत करके बोली—आइए, मेरी कुटी दुबारा पवित्र हुई ।

जीवानन्द ने चौखट में पैर रखकर भिक्कु के साथ देखते हुए कहा—आप ? शायद निर्मल बाबू हैं ?

पोडशो ने हँसकर जवाब दिया—हाँ, आपके मित्र बनाने पर परिचय कराने में सम्भवतः अतिशयोक्ति न होगी ।

२२

अनुमान गलत नहीं है, यह आदमी सचमुच निर्मल बाबू है, यह जानकर जीवानन्द पहले चौंक उठा, परन्तु हर हालत में अपने को मँभालने की शक्ति उसमें अपूर्व थी । उसने तनिक हँसकर कहा—गुह्य खूब । मित्र नहीं तो क्या हैं ? आप ही लोगों की कृपा से तो अब तक जीता हूँ । नहीं तो मामा की जमींदारी पाने से आज तक जैसे जैसे काम किये गये हैं, उससे चण्डोगढ़ के शान्तिकुञ्ज के बदले अन्दमान के कैदखाने में जाकर रहना पड़ता ।

निर्मल को पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, परन्तु अपने दुष्कर्मों के धारे में इस प्रकार के लज्जाहीन परिहास से उनका शरीर जलने लगा । मुँह लाल करके कुञ्ज कहने को थे, परन्तु कहना नहीं पड़ा । पोडशो ने जवाब दिया, कहा—चौधरी साहब ! वकील-वैरिस्टर बड़े आदमी हैं, इसलिए क्या शाबाशी यही लोग पावेंगे ? अन्दमान आदि बड़े मामलों में

न सही, परन्तु छोटे होने से इस देश के कैदखाने भी तो कुछ आराम की जगह नहीं हैं—क्या भैरवियाँ, दुखी होने के कारण, घोडा मा धन्यवाद नहीं पा सकतीं ?

जीवानन्द ने अकचकाकर जो मुँह में आया वही कह दिया—धन्यवाद पाने का समय आने पर ही पाओगी ।

पोडशी ने हँसकर कहा—जैसा कि अभी मन्दिर में रखे होकर एक दफा दे आये ।

जीवानन्द ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया । निर्मल की ओर देखकर कहा—आपके ससुर से सुना था कि आप आ रहे हैं । मुझे आशा थी कि मन्दिर में भेंट होगी ।

पोडशी बोली—वह मेरा दोष है चौधरी साहब । आप आये भी थे, और आप लोगों के सदालाप में शामिल नहीं हुए सही, परन्तु भीड़ के बाहर खड़े-खड़े सिर ऊँचा करके सुनने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु मैं देखते ही हाथ पकड़कर यहाँ खींच लाई । मैंने कहा—चलिए निर्मल बाबू, घर में बैठकर जरा गपशप ही की जाय ।

जीवानन्द ने मन की जलन दबाकर सहज कण्ठ से ही कहा—तब तो मैंने आकर उसमें रोक टोक कर दी है ।

पोडशी ने कहा—इसमें आपका दोष नहीं है । आपको तो मैंने ही बुला भेजा था ।

जीवानन्द ने पूछा—परन्तु किसलिए ? शायद गपशप करने के लिए नहीं ?

पोडशी हँस पडी । बोली—“नहीं जी, नहीं—बल्कि उसका उलटा । आज आपका मैं बहुत धमकाऊँगी ।” उसका कण्ठस्वर और कहने का ढङ्ग देखकर निर्मल और जीवानन्द चौधरी दोनों ही अकचकाकर उसे देखने लगे । पोडशी एका-एक जरा गम्भीर होकर बोली—“छि-छि, वहाँ आज क्या कर रहे थे, बताइए तो ? एक सभा का आडम्बर रचकर, बीच में रखे दो करके, दो असहाय स्त्रियों की न मालूम कैसी-कैसी निन्दा कर रहे थे । इनमें भी एक तो इस लोक में है ही नहीं । यह क्या किसी मर्द के लिए शोभा देता है ? उसके सिवा प्रयोजन ही क्या था ? उस दिन तो इसी घर में बैठकर मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जैसी आज्ञा करेंगे, मैं मान लूँगी । आपने भी स्पष्ट रूप से अपना हुक्म सुना दिया था । मैंने अपनी प्रतिश्रुति का प्रत्याहार नहीं किया । यह लीजिए मन्दिर की चावियाँ, और यह लीजिए हिसाब की वही ।” अत्र उसने आँचल से चावियों का गुन्झा खोलकर और ताक पर से एक मोटी सी लाल वही उतारकर जीवानन्द के पैरों के पास रख करके कहा—देवी की जितने अलङ्कार हैं, जो कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, सब सन्दूक के अन्दर ही हैं । सन्दूक में एक कागज और मिलेगा जिम्मे भैरवी की तमाम जिम्मेदारी और कर्तव्य छोड़ने का मैंने दस्तरत कर दिया है ।

जीवानन्द ने शायद ठीक विश्वास नहीं किया, इसी से कहा—कहती क्या हो ? और अधिकार साँपा भी किसे ?

पोडशी बोली—उसी में लिया है, देख लीजिएगा ।

“अगर ऐसा ही है तो ये चावियाँ भी उसी को क्यों नहीं दे दीं ।”

“उन्हीं को तो दी हैं” कहकर पोडशी होंठ दवाकर जरा हँसी । परन्तु उस हँसी को देखकर अन्न जीवानन्द का चेहरा उतर गया । उसने थोड़ी देर चुप रहकर सशय के माथ कहा—परन्तु इसे तो मैं ले नहीं सकता । मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वही में लिखे हुए नामों के साथ सन्दूक की चाँजे मिल जायँगी । तुम्हें जरूरत हो तो दस आदमियों के सामने सहेज देना ।

पोडशी ने सिर हिलाकर कहा—“मुझे कोई जरूरत नहीं । परन्तु चौधरी साहब, आपका यह वहाना भी अचल है । एक रोज आँसू मूँदकर आपको जिसके हाथ से विप लेकर खाने का साहस हुआ था, वही के हाथ से आज इसे भी आँसू मूँदकर लेने का साहस आपको होना चाहिए । मैं तो किसी हालत में नहीं मान सकती कि आपमें दूसरे पर विश्वास करने की शक्ति इतनी कम है । लीजिए, मैंभालिए”—कहकर उसने वही और चावियों का गुच्छा नीचे से उठाकर एक तरह से जबरदस्ती जीवानन्द के हाथ में ठूस दिया और कहा—“अब मेरी जान बचो । आपने कभी तो मेरा कोई भार लिया नहीं है, इतना भी न लीजिएगा तो वर्म से पतित हो जाइएगा । इसके सिवा परलोक में जवाब क्या दीजिएगा ?” वह हँसती

हुई फिर बोली—“मैं जानती हूँ कि परलोक की चिन्ता से तो आपको नॉद नहीं आती, परन्तु जो बीती ताहि विमार देकर अब आगे की सुधि लेनी होगी, यह मैं कहे देती हूँ।” उसके मुख में मुसकुराहट रहने पर भी अन्तिम बातों में उसका स्वर मानो कोमलता से गल गया। उसने फिर कहा—“एक भार आपको और भी सौपे जाती हूँ। वह है मेरी गरीब प्रजा का भार। मैं हजार कोशिश करके भी उनकी भलाई नहीं कर सकी, परन्तु आप सहज ही कर सकेंगे।” निर्मल की ओर देखकर कहा—मेरी बातचीत सुनकर आप शायद आश्चर्य में आ गये हैं, क्यों निर्मल बाबू ?

निर्मल ने सिर हिलाकर कहा—मुझे आश्चर्य ही नहीं हुआ, बल्कि मैं तो प्रायः अभिभूत हो गया हूँ। भैरवी का आसन छोड़कर इतनी जल्दी आपने त्याग-पत्र पर दस्तखत तक कर रक्खा है, यह खबर तो मुझे इशारे से भी नहीं बतलाई।

पोडशो मुसकुराती हुई बोली—अपनी बहुत सी बातें मैंने आपको अभी तक नहीं बतलाई हैं, परन्तु एक रोज आपको सब मालूम हो जायेंगी। ससार में एक ही मनुष्य हैं जिन्हें मेरी सभी बातें मालूम ह—वे हैं फकीर साहब।

“तो यह सलाह भी उन्हींने दी होगी ?”

पोडशो ने उसी वक्त जवाब दिया—नहीं, वे आज सबेरे तक कुछ नहीं जानते थे और जिसे आप त्याग-

पत्र कहते हैं वह मेरी कल रात की रचना है। जिन्होंने इस काम में मुझे प्रवृत्ति दी है, उनके नाम को मैं सप्ताह में गुप्त रक्खूँगी।

जीवानन्द ने थोड़ी देर तक चुप रहकर सहसा एक लम्बी साँस छोड़कर कहा—मालूम होता है, घर में घुलाकर मेरे साथ एक प्रचण्ड परिहास कर रही हो षोडशी। इस पर विश्वास करना तो उस दिन के मरफिया खाने से भी मुझे कठिन मालूम हो रहा है।

इतनी देर के बाद निर्मल ने जर्मीदार की ओर ताका और जरा हँसकर कहा—“आप तो यही थोड़े से कदम चले आकर तमाशा देख रहे हैं, परन्तु मुझे तो काम-धन्दा, घर-द्वार सब छोड़कर यही तमाशा देखने आठ सौ-मील से दौड़ आना पडा। यदि यह सब सत्य हो तो आपने जो चाहा था वह आपको मिल गया, परन्तु मेरे भाग्य में तो सोलहों आना नुकसान है। इसे तमाशा कहूँ या परिहास, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है।” अब उन्होंने और एक बार जर्मीदार की ओर अच्छी तरह देखा। देखा कि जर्मीदार की आँखें व्यथा के बोझ से लदी हुई हैं, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ जरा हँसने की चेष्टा की।

पोडशी ने कहा—नहीं जी, मेरी धीर मेरी माँ की निन्दा देश भर में फैल गई, यह क्या मेरा हँसी-दिल्लगी का समय है ? मैंने वास्तव में ही छुट्टी ले ली ।

निर्मल ने कहा—तो आपको यह काम बड़े कष्ट से करना पडा है ।

पोडशी ने कुछ उत्तर नहीं दिया । निर्मल ने तनिक चुप रहकर कहा—“मैं आया था आपको बचाने, और शायद बचा भी लेता, फिर भी आपने किसलिए वैसा नहीं होने दिया, वह मैं समझ गया । सम्पत्ति बच जाती, परन्तु निन्दा का तूफान उससे न रुकता । और उसे रोकने की शक्ति भी मुझमें न थी ।” वहाँ उपस्थित सभी समझ गये कि यह उन्होंने किस पर कटाक्ष किया । परन्तु जीवानन्द चुप ही रहा । पोडशी ने स्वयं भी कुछ प्रतिवाद नहीं किया ।

निर्मल ने पूछा—तो अब क्या कीजिएगा, कुछ निश्चय किया है ?

पोडशी बोली—वह मैं आपको पीछे बतलाऊँगी ।

“कहाँ रहिएगा ?”

“यह भी मैं आपको बाद को बताऊँगी ।”

बाहर से आवाज आई—“माँजी ?” पोडशी बाहर भागकर बोली—“कौन भूतनाथ ? आओ बेटा, भीतर ले आओ ।” मन्दिर का नौकर एक टोकरे में भरकर देवी का प्रसाद, तरह-तरह के फल और मिठाइयाँ लाया था । पोडशी उसे हाथ में

लेन देन

लेकर जीवानन्द की ओर देखती हुई स्निग्ध हँसी हँस
बोली—“उस दिन मैं आपको भर पेट खिला नहीं सकी
परन्तु आज वह कसर पूरी करके छोड़ूँगी।” निर्मल
ओर देखकर बोली—और आप तो वहनोई ही हैं, आप
यों ही जाने देना बेजा होगा। बहुत कड़वी बातचीत हो
रही है, अब बैठिए तो दोनों महाशय खाने के लिए। बिना
मिठा किये छोड़ देने से मेरे चोभ की सीमा न रहेगी।

निर्मल ने कहा—“लाइए दीजिए।” परन्तु जीवानन्द
इत्तफ़ार कर कहा—नहीं, मैं खा न सकूँगा।

‘खा नहीं सकिएगा ? पर यहाँ तो आज खा
ही होगा।’

जीवानन्द ने इतने पर भी सिर हिलाकर कहा—नहीं।

पोडशी हँसकर बोली—“फिजूल सिर हिलाना है चौध
साहब। जो मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा, उसे आप
अगर हाथ में पाकर छोड़ दूँ तो व्यर्थ ही अब तक भैरवी का
काम किया।” अब उसने दोनों के सामने के स्थान को पान
के हाथ से पोंछ लिया और पत्तल विछाकर मिठाई परो
दी। वह खुद भी खिलाने के लिए पास बैठ गई।

मिठाई आज मचमुच में जीवानन्द के गले से उतरती
थी, इसे समझते पोडशी को विलम्ब नहीं लगा। उसने मन्
स्वर से कहा—“तो रहने दीजिए, यह सब आप न खावें
आप थोड़े से फल खाइए।” वह अपने हाथ से जर्मीदा

की पत्तल की जूठो मिठाइयो को एक ओर हटाकर बोली—आज आपको क्या हो गया ? सचमुच भूख नहीं है क्या ? न हो तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं । देह में जो बीमारी बना रक्की है उसे याद करते ही मेरा शरीर काँपने लगता है ।

निर्मल मन लगाकर खा रहे थे । उन्होंने मुँह उठाकर ताका । इस कण्ठस्वर की अनिर्वचनीयता ने चट से उनके कानो में खटक पैदा करके बहुदूरवर्तिनी हैम को याद करा दिया । पोडशा के साथ उनकी बहुत तरह की हँसी-दिल्लगी हुई है । आज सवेरे भी उमकी बातों और इशारे से कई बार उनके शरीर में आनन्द की विजली दौड गई है, परन्तु यह गला तो वह नहीं था । मधुरता का ऐसा घना रस तो उससे नहीं टपका था । मिठाई की मिठास उनके मुँह में खादहीन और फलों का रस कहुआ लगकर उनके भोजन का सारा आनन्द क्षण भर में मिट गया । कुछ देर बाद देखकर पोडशा आश्चर्य के साथ बोली—आपकी भी वही हालत हुई निर्मल बाबू, अभी खाया ही क्या है आपने ?

निर्मल ने कहा—जितना खा सका उतना आपके कहने के पहले ही मैंने खा लिया, अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं की ।

“मिठाइयाँ शायद आज अच्छी नहीं धनीं ?”

“हो सकता है, दूसरे दिन कैसी बनती हूँ वह तो मालूम नहीं।” कहकर उन्होंने हाथ धोने का उद्योग किया । इस विषय में उनके फौतूहल के अभाव पर पोडशा की ही नहीं

फिन्तु जीवानन्द की भी दृष्टि खिंची। परन्तु इस पर किसी ने और चर्चा नहीं की। बाहर आकर पोटशी ने हाथ-मुँह धोने को पानी देकर पान का बीड़ा हाथ में दिया और अनुरोध किया कि देर लीजिए पान ठीक है या नहीं परन्तु अपने या उनके सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं किया।

निर्मल ने कहा—तो मैं अब जाऊँ ?

“आप घर कब जायेंगे ?”

“मुझे और तो कुछ काम है नहीं, शायद कल ही लौट जाऊँ।”

“तो हैम से, और लडके से मेरा आशीर्वाद कह दीजिएगा।”

निर्मल ने दम भर के बाद पृच्छा—मेरी और तो कोई जरूरत नहीं है ?

पोटशी स्वयं भी थोड़ी देर में बोली—इतने घमण्ड की बात क्या मैं कह सकती हूँ निर्मल बाबू ? परन्तु मन्दिर के वारे में अब शायद मुझे आपको कष्ट देने की जरूरत न होगी।

निर्मल ने मलिन मुख से हँसने की चेष्टा करते हुए कहा—आशा है, हमें जल्दी भूल न जाइएगा।

पोटशी ने सिर हिलाकर सिर्फ “नहीं” कहा।

निर्मल ने नमस्कार करके कहा—“तो मैं चलता हूँ अगर सवेरे की गाड़ी से जाना हुआ तो शायद फिर मिलने का अवकाश न हो। हैम को आपसे बड़ा प्रेम है, फुरसत मि

तो बीच बीच में अपना कुशल-मङ्गल लिखती रहिएगा।”
 अन् वे उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही बाहर चले गये।
 प्रवृत्त की लज्जा और जलन अत्यन्त गुप्त रूप से उनकी
 छाती के भीतर धधक-धधककर जलने लगी। विकल-मनो-
 रथ पियकड जिस प्रकार कलवरिया का दरवाजा बन्द देर-
 कर लौटते समय अपने को ढाढ़स देता रहता है, उसी प्रकार वे
 रास्ते भर मन ही मन यही कहते हुए चलने लगे कि मैं बच
 गया, मैं बच गया, स्नेह्याचारिणी के मोह के बन्धन से छुटकारा
 पाकर मैंने फिर हैम को पा लिया। इन बातों का बार-बार
 दुहराते हुए उन्होंने अपने पीडित और आहत हृदय के सामने
 यही प्रमाणित करना चाहा कि यही अच्छा हुआ कि पोडशी
 के घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा को बन्द हो गया।

दो-तीन मिनट के बाद जीवानन्द ने बाहर आकर देखा
 कि अँधेरे में एक सन्भे के सहारे पोडशी चुपचाप खड़ी है, पास
 आकर उसने धीरे-धीरे पूछा—क्या निर्मल बाबू चले गये ?

इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।
 पोडशी चुपचाप खड़ी रही। जीवानन्द ने कहा—इन्हे मैं
 ठोक समझ नहीं सका।

पोडशी रास्ते की ओर टकटकी बाँधे खड़ी थी। उसी तरफ
 नजर रखते हुए उसने कहा—उससे आपको हानि क्या है ?

“मेरी हानि ? नहीं, हानि शायद कुछ नहीं है, परन्तु
 तुम्हें तो कुछ है। क्या तुम्हें उन्हें समझ सकी हो ?”

पोडशी बोली—मुझे जितनी ज़रूरत है उतना अवश्य समझ सकी हूँ ।

“अच्छी बात है ।” कहकर थोड़ी देर चुप रहकर मानो उसने अपने ही मन में कहा—“अपनी याद रखने के लिए वे कैसी व्याकुल प्रार्थना जता गये । दरख्वास्त मञ्जूर हुई न ?” कहते हुए आँस उठाकर देखते ही उन अँधेरे में भी दोनों की आँसे मिल गई । पोडशी ने दृष्टि नीची नहीं की । बोली—“उन्हें जितना मैं जानती हूँ उसका आधा भी मुझे जानने का उन्हें अवकाश होता तो इतनी बड़ी प्रार्थना करने का साहस वे न कर सकते । मेरी जो कुछ कल्पनाएँ, जो कुछ आनन्द की तरङ्गें हैं वे सब उन्हीं लोगों को लेकर हैं । उन लोगों को देखकर ही तो मैं वह पोडशी अब नहीं रही । चण्डो-गढ़ का यही भैरवी का पद है—जिसका बँटवारा कर लेने के लिए आप लोगों ने खींचतानी की हद्द कर दी है, और जिसके लिए आप लोगों ने देश को कलङ्क से भर दिया है—उसे आज मैं फटे-पुराने कपड़े की तरह छोड़े जाती हूँ, उसकी शिक्षा कहाँ पाई है, जानते हैं आप ? वहीं पर । स्त्रियों के लिए यह सब—पद, सम्मान आदि—कैसा मिथ्या और कैसा ब्रूया है यह उन लोगों को देखकर ही मैंने समझा था । परन्तु इसका उन्हें स्वयं तक में ज्ञान नहीं, शायद कभी जान भी न सकें ।

जीवानन्द विस्मित होकर उसका मुँह ताक रहा था । एकाएक उस तरफ नजर पड़ते ही पोडशी अपने उच्छ्वसित

आवेग से लज्जित होकर चुप हो गई। थोड़ी देर तक दोनों के चुप रहने के बाद जीवानन्द ने धीरे-धीरे मुँह खोला, कहा—एक बात पूछने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है, परन्तु अगर मैं पूछ सकता तो क्या तुम उसका ठीक जवाब देतीं अलका ?

जीवानन्द के मुँह से यही 'अलका' नाम षोडशो के लिए सबसे बड़ा दुर्लभता है। उसे मालूम न होता था कि तीन अक्षरों का यह छोटा सा नाम उसके कहीं जाकर चोट पहुँचाता है। खासकर जीवानन्द के प्रश्न करने के इस कौतुक-कर ढङ्ग से उसे हँसी आई, उसने कहा—अगर आप कोई अद्भुत काम कर सकते तो उसके बाद मैं भी कोई दूसरा विचित्र काम कर दिखाती कि नहीं, इतनी बड़ी शपथ करने की शक्ति मुझमें नहीं है। परन्तु वह अद्भुत काम करने की आपको जरूरत नहीं—मैं समझ गई। कतङ्क आप लोगों ने लगाया है इसलिए यह कोई नियम नहीं कि उसे सत्यरूप में परिणत करना ही पड़ेगा। मैं कभी किसी कारण से किसी का आश्रय न लूँगी। किसी लालच से मैं इस बात को भूल नहीं सकती कि मेरे स्वामी हैं। यही भयानक प्रश्न ही न आपको लज्जित कर रहा था चौधरी साहब ?

“तुम मुझे चौधरी साहब क्यों कहती हो ?”

“तो क्या कहूँ ? हुजूर ?”

“नहीं। बहुत लोग जिस नाम से पुकारते हैं—वही जीवानन्द बाबू।”

पोडशी ने कहा—अच्छी बात है, अब ऐसा ही करूँगी।
जीवानन्द ने कहा—भविष्य में क्यों, आज से ही क्यों
नहीं कहती ?

पोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। भीतर दिया
बुझ रहा था। उसने घर में जाकर उसे उसका दिया।
जीवानन्द के आकर बैठते ही पोडशी ने विस्मित होकर कहा—
रात हो रही है, आप घर नहीं गये ? आपको आदमी कहाँ हैं ?

“मैंने उन्हें वापस भेज दिया है।”

“अकेले घर जाने में आपको डर नहीं मालूम होगा ?

“नहीं। पिस्तौल साथ है।”

“तो उसी को लेकर घर जाइए। मुझे बहुत काम है।”

जीवानन्द ने कहा—तुम्हें हो सकते हैं, परन्तु मुझे नहीं
है। मैं अभी नहीं जाऊँगा।

पोडशी की दृष्टि तीक्ष्ण हो उठी, परन्तु वह शान्त भाव
से बोली—रात अधिक हो गई है, मैं आदमी बुलाकर साथ
किये देती हूँ, वे घर तक पहुँचा आयेंगे।

जीवानन्द को मालूम हुआ कि उसने अच्छी बात नहीं
कही है। उसने सकुचाकर कहा—फ़िसी को बुलाने की
जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ। जाने को मेरा मन नहीं
चाहता, यही मैं कह रहा था। क्या तुम सचमुच ही चण्डी-
गढ़ छोड़कर चली जाओगी अलका ?

फिर वही नाम । जीवानन्द को मुँह की ओर देखकर उसे व्यथा मालूम हुई । सिर हिलाकर उसने बतलाया कि वास्तव में वह चली जायगी ।

“कब जाओगी ?”

“ठीक निश्चय नहीं, शायद कल ही चली जाऊँ ।”

“कल ? कल ही जा सकती हो ?” कहकर जीवानन्द स्तब्ध हो रहा । बहुत देर के बाद एकाएक लम्बी साँस छोड़कर कहा—प्राश्चर्य है । अपने मन को समझने में मनुष्य से कौसी भूल होती है । मैंने जी-जान से अब तक यही कोशिश की है जिसमें तुम चलो जाओ, परन्तु अब तुम चलो जाओगी यह सुनकर सारी दुनिया मानो मेरी ओरों के सामने सूख गई । निर्मल वावू बड़े आदमी हैं, नामी वैरिस्टर हैं—वे तुम्हारी ओर से पैरवी करने आ रहे हैं—लड़ाई छिड़ जायगी—हमों जीतेंगे, और कर्ज अदा करने के लिए जो जमीन बेच डाली है, उसके बारे में फिर कोई झगडा नहीं सडा होगा—बहुत सा नक़द रुपया भी हाथ लगेगा, और जो-जो कूँगा वही तुमको करना पडेगा—अब तक इसी तरफ को देखा था, परन्तु और भी एक तरफ है—तुम खुद ही सब छोड़-छाड़कर अलग हो जाओगी तो बात कौसी होगी—मामला कहीं जाकर रुकेगा—यह तो मैंने अपने में भी नहीं सोचा था । अच्छा अज्ञात, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी तरह तुमसे भी भूल हो रही है, अपने मन की खबर तुम्हें भी नहीं मिली है ?

वाते ऐसी मनोरम और ऐसी नई हैं कि एकाएक मालूम होता है मानो जीवानन्द के मुँह से ये निकलो ही नहीं हैं। उत्तर देने में पोडशी को जरा रुकना पडा। अन्त में उसने हामी भरकर कहा—हो क्यों नहीं सकता ? परन्तु यह मैं अवश्य जानती हूँ कि जो मैंने तय किया है वह फिर टलेगा नहीं।

जीवानन्द ने कहा—आप रे बाप। तुम्हें मर्द और मुझे औरत होना चाहिए था। अच्छा, वहाँ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा ?

पोडशी ने पहले की तरह सहज कण्ठ से उत्तर दिया—इसकी चर्चा मैं आपके साथ किसी हालत में कर नहीं सकती।

जीवानन्द ने नाराज होकर कहा—तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पत्थर हो। मेरे बाल सुफेद हो आये, जवानी गई और बुढ़ौती आ गई—अब क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रो सकता हूँ—तुम समझती हो ?

पोडशी ने कहा—देखिए, रात बहुत हो गई है, अभी तक मैंने पूजा-पाठ भी नहीं किया।

पुजारी की साँसी और पैरों की आहट बाहर सुनाई दी, उसने दरवाजे के पास आकर कहा—माजी, सबके सामने मन्दिर का दरवाजा बन्द करके आज चावी मैंने तारादास पण्डितजी को दी है। राय बाबू, गिरोमण्डिजो—ये सब सहे थे।

पोडशी ने कहा—“अच्छा किया। तुम जरा ठहरो, मैं सागर के यहाँ जाऊँगी।” अब वह उठ खडो हुई।

जीवानन्द ने भी चुपचाप खड़े होकर कहा—तो यह सब मैं तुम राय महाशय के पास ही भेज देना ।

पोडशो ने सिर हिलाकर कहा—नहीं, सन्दूक की चाबी और किसी के हाथ में देने से मुझे विश्वास नहीं होगा ।

“सिर्फ मुझे देने से ही होगा ?”

पोडशो कुछ उत्तर न देकर घर का ताला हाथ में लिये बाहर आ खड़ी हुई, और जीवानन्द को बाहर आते ही किवाड़ बन्द करके, उसके आगे माथा टेकर, पोडशो पुजारी के पीछे-पीछे चली गई । जीवानन्द अकेला अँधेरे बरामदे में, भूत की तरह, चुपचाप खड़ा रह गया ।

२३

वैरिस्टर साहब चले गये हैं, पोडशो भी जा रही है—मन्दिर का ताला-चाबी सामान वगैरह जो कुछ कामती माल है सब फुञ्जे में आ गया है—आदि समाचार के फैल जाने में विलम्ब नहीं लगा । शिरोमणि सुक्त-कच्छ और अस्त-व्यस्त वेश में राय महाशय के बैठकराने में पहुँचे ।

निर्मल के जाते समय त्रिदा की घटना बहुत प्रतिकर नहीं हुई । मन में इन बातों की आलोचना से ही शायद जनार्दन राय का मुख गम्भीर हो रहा था, परन्तु उस तरफ ग्याल करने की हालत शिरोमणि को नहीं थी । उन्होंने आशी-

वादि के ढङ्ग से दाहिना हाथ उठाकर गद्गद कण्ठ से कहा—
चिरञ्जीवी रहो भइया, ससार मे तुम्हारा ही इल्म सफल हुआ।

जनार्दन ने उनकी ओर देखकर पूछा—वात क्या है ?

शिरोमणि ने कहा—वात क्या है ? बीसों गाँवों में इस
खबर के फैलने में बाकी है क्या ? छोकड़ो चावी वगैरह सब
कुत्र देकर जा रही है, सुना नहीं है क्या ?

जो भला आदमी सुबह से तैठा इस महीने के सूद का
कुछ रुपया माफ कराने के लिए खुशामद कर रहा था, उसने
कहा—वाह, मालिक को मालूम नहीं और खबर लगी ऐरों-
गैरों को ? यह सब किया किसने शिरोमणि चाचा ? सभी
की जड में तो हमारे राय महाशय हैं।

शिरोमणि ने बैठकर कहा—परन्तु खास चावी, सुना है
कि, जाकर पडो है जमोंदार के हाथ मे ? पाजी शरावी है।
देखना भइया, आखिर देवी का सोना-चाँदी जवाहिरात कल-
वार के सन्दूक में न ममा जाय। पाप की सीमा न रहेगी।

धीरे-धीरे, एरू-एरू करके, गाँव के बहुत से आदमी आ
गये। निश्चय हुआ कि जमोंदार के हाथ से उस चावी को
तुरन्त ले लेना चाहिए। तीसरे पहर सोकर उठने के बाद हुजूर
जब शराब पीना शुरू कर देंगे तब, उनके बेहोश होने के
पहले ही, उसे हथिया लेना होगा। जमोंदार के हाथ में उस
चावी के जाने के बारे में जनार्दन राय ने अपनी जरा सी
धसावधानी और भूल स्वीकार कर कहा—मैंने सब ठीक कर

रक्खा था, एकाएक वे बीच में आकर उस चाची को हथिया लेंगे, ऐसा खयाल ही नहीं हुआ। अब मिलना कठिन मालूम होता है। दस दिन के बाद शायद कह बैठेंगे, सन्दूक में तो कुछ भी न था। परन्तु हम लोग जानते हैं भइया, पोटशी और कुछ भी करे, देवी की सम्पत्ति बढ़ नहीं चुरायेगी— एक पैसा भी न लेंगी।

इस बात को सभी ने खोकार कर लिया। वहुतों के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ कि इससे तो वही अच्छी थी।

यह दल जब ठीक समय पर समारोह के साथ जमींदार के शान्तिकुञ्ज में पहुँचा तब जमींदार बाहर के कमरे में बैठा था। शराब की बोतल के बदले जमींदारी की मोटी-मोटी वहियाँ उसके सामने रक्की थीं। एक तरफ उसका सहचर प्रफुल्ल अखबार पढ़ रहा था। उसने सबको स्वागत करके विठाया।

शिरोमणि सबके पहले बोलते और सबके पीछे पछताते हैं। इस मौके पर भी वे ही पहले बोले। कहा—हुजूर के आराम में कहीं गड़बड़ न हो इसलिए हम लोग जरा देर करके—

जीवानन्द ने धीरे-धीरे को एक ओर ढकेलकर हँसते हुए कहा—देर न करके आने से भी हुजूर के आराम में बाधा नहीं होती पण्डितजी, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोता।

“परन्तु हम लोगों को तो मालूम है—”

“मालूम है ? आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें मालूम हैं जो सत्य नहीं हैं और बहुत सी विलकुल मिथ्या बातें कहते

हैं। जैसे, मेरे सम्बन्ध में भैरवी की बात"—कहकर वक्ता ने हँस दिया। परन्तु श्रोताओं का दिल सुनकर मझोच से सिकुड़ गया। जीवनानन्द ने कहा—खैर, जिसलिए जल्दी-जल्दी आना चाहते थे उसका कारण क्या है, जरा सुन लूँ ?

जनार्दन राय ने अपने को सँभाल लिया। मन ही मन कहा कि इतना डर ही किस बात का है ? जाहिरा कहा—आशा न थी कि मन्दिर के मामले का निपटारा इतनी आसानी से हो जायगा। निर्मल जिस तरह अरुड़ बैठा था—

जीवानन्द ने कहा—वे सीधे कैसे हुए ?

इस व्यंग्योक्ति को जनार्दन समझ गये, परन्तु शिरोमणि ने उस पर खयाल ही नहीं किया, खुश होकर घमण्ड के साथ कहा—देवी की इच्छा है सरकार, सीधा तो होना ही पड़ेगा। पाप का भार उनसे अब सहा नहीं जाता था।

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—होगा, उसके बाद ?

शिरोमणि ने कहा—“परन्तु पाप तो टला, अब—कहो न जनार्दन, हु जूर को सब समझाकर कहो न ?” अब उन्होंने राय महाशय को हाथ से ढकेला। जनार्दन ने चौरुकाफ कहा—मन्दिर की चाबी तो हम लोगों ने सामने रखे होकर तारादास को दिला दी है। आज सुबह उन्हीं ने मन्दिर खोला है, परन्तु सन्दूक की चाबी, सुना है कि, षोडशी ने हु जूर को सौपी है।

जीवानन्द ने हामी भरकर कहा—हाँ सौंपी तो है । जमा-
खर्च की वही भी दी है ।

शिरामणि ने कहा—लौंडी अभी तक यहीं है । कुछ
ठिकाना नहीं कि कन कहाँ चली जाय ।

जीवानन्द ने दम भर वृद्ध के मुख की ओर देखकर
पूछा—परन्तु उसके लिए आप लोगों को इतनी घबरा-
हट क्यों है ?

उत्तर के लिए जमादार ने जनार्दन की ओर ताका, जनार्दन
ने साहस पाकर कहा—दस्तावेज, कीमती वस्त्र, देवी के
जवाहिरात वगैरह जो कुछ है, गाँव के बड़े-बूढ़ों को सब
मालूम है । शिरामणिजी का कहना है कि षोडशी के रहते-
रहते वह सब मिलाकर सहेज लेना अच्छा है । शायद—

“शायद न हो ? यही न ? अगर न हो तो आप लोग
वसूल कैसे करेंगे ?”

जनार्दन को एकाएक जवान न सूझा । अन्त में उन्होंने
कहा—तो भी मालूम तो हो जायगा हुजूर ।

“परन्तु आज मुझे अवकाश नहीं है राय महाशय ।”

जनार्दन मन में बड़े प्रसन्न हुए, इसी मतलब से तो वे
लोग आये थे । शिरामणि ने आज्ञा के साथ कहा—चाधी
अगर जनार्दन भइया को दे दी जाय तो आज सन्ध्या के पहले
ही सब मिला लिया जाय । हुजूर की भी कोई जिम्मेवारी न
रहेगी । उसके भागने के पहले ही मालूम हो जायगा कि

क्या है और क्या नहा । क्यों भइया ? तुम लोगो की क्या राय है ? ठीक है न ?

इस प्रस्ताव पर सभी ने सम्मति दी, नहीं दी केवन जीवानन्द ने जिसके हाथ में चावी है । उसने ज़रा हँसकर कहा—जल्दी क्या है पण्डितजी, अगर कुछ सौ ही गया हो तो वह भिखारिन से वसूल न होगा । आप लोग आज पधारिए, मुझे जिस दिन फुरसत होगी, मिला लेने के लिए आप लोगों के पास मैं खर भेजूँगा ।

चाल को चलते न देखकर सबके मन में बड़ा क्रोध हुआ । राय महाशय ने खड़े होकर कहा—परन्तु एक जिम्मेवरी—जीवानन्द ने उसी दम सम्मति देकर कहा—वह तो ठीक ही है राय बाबू । जिम्मेवरी मुझ पर ही रही ।

फाटक के बाहर आकर शिरोमणि ने जनार्दन को हाथ से छूकर कहा—देखा भइया, शराबी का मतलब ही समझ में नहीं आता । सभी बातों में समस्या है । नशे में मस्त है । बचेगा नहीं ज्यादा दिन ।

जनार्दन ने कहा—हूँ । जो डर था वही दीखता है । शिरोमणि ने कहा—अब गया सब कलवार की दूकान में । बदमाश लौंडिया जाते समय ग्लासा धोसा दे गई । एक आदमी ने कहा—हु जूर अब चावी न देंगे । शिरोमणि ने उत्तेजित होकर कहा—“फिर ? अबकी

पिलाके छोड़ेगा ।” इस बात को कहते ही उनके रोंगटे खड़े हो गये ।

घर के भीतर जीवानन्द खुले दरवाजे की तरफ शून्य दृष्टि से देखता हुआ बैठा था, प्रफुल्ल ने कहा—फिर एक नया बखेड़ा क्यों माल लिया भाई साहब ? चाबी उन्हें दे देते तो भ्रष्ट मिट जाता ।

जीवानन्द ने उसके गुँह की ओर दृष्टि फिराकर कहा—नहीं मिटता प्रफुल्ल भ्रष्ट मिटने की सम्भावना होती तो मैं दे देता । ऐसी नौजब आने के डर से ही वह कल रात को मुझे चाबी दे गई है ।

प्रफुल्ल के मन में शायद विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा—सन्दूक में है क्या ?

जीवानन्द ने जरा मुमकुराकर कहा—क्या है, आज वही मैं सबेरे इस नही में पढ़कर देख रहा था । मुहरों, रुपये, हीरे, पन्ने, मोती की मालाएँ, मुकुट, तरह-तरह के जडाऊ जेवर, दस्तावेज, उसके सिगा सोने-चाँदी के बर्तन भी कम नहीं हैं । मैंने सपने में भी न सोचा था कि इतने दिनों में जमा होते-होते इस छोटे से चण्डोगढ की देवी के इतनी सम्पत्ति सन्धित हो गई है । लुटेरों के डर ने भेरवियाँ शायद किसी को जानने भी न देती थीं ।

प्रफुल्ल डर के साथ बोला—क्या कहते हैं आप । उसकी कुछी है आपके पाम । एकलीता लडका नौपना डाइन के दाब में ?

जीवानन्द नाराज नहीं हुआ, बोला—“विलकुल भूठ नहीं कहा है तुमने। यह इतनी बड़ी रकम है कि मैं अपने ऊपर भी विश्वास न कर सकता।” इस भर के बाद उसने फिर कहा—परन्तु यह मैंने चाहा नहीं था। मैंने जितना ही उसे दवाया कि चावो राय वावू को दी जाय उतना ही उसने इनकार कर मेरे हाथ में चावो ठूस दी।

प्रफुल्ल ने स्वयं भी पल भर चुप रहकर पूछा—इसका कारण ?

जीवानन्द ने कहा—शायद उसने सोचा था कि इस बदनामी के बाद चोरी के कलङ्क को वह सह नहीं सकेगा। इतने लोगों को उसने पहचान लिया था।

प्रफुल्ल ने कहा—परन्तु आपको वह नहीं पहचान सकी।

जीवानन्द हँस पड़ा। परन्तु उस हँसी में आनन्द नहीं था, उसने कहा—इसमें दोष उसका है, मेरा नहीं। उसके सम्बन्ध में मेरा अपराध दूररी तरफ कितना ही क्यों न हो, किन्तु शुरू से आरिपर तक मैंने एक दिन के लिए भी ऐसा वर्ताव नहीं किया जिससे मैं पहचाना न जाऊँ। अद्भुत है यह पृथ्वी, और उससे भी विचित्र है यहाँ के मनुष्य का मन। यह किससे क्या निश्चय कर लेता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जानते हो भइया उसकी युक्ति क्या है? उस दिन जो उसके हाथ से मरफिया लेकर आँसू मीचकर खाने की बात तुमसे कही थी, वही है उसके सब तकों का बड़ा

तर्क, सब विश्वासों का बड़ा विश्वास । परन्तु उस रात को तो दूसरा उपाय ही नहीं था, इससे भी मरता था, उससे भी मरता था । उसके सिवा और किसी को और ताकने का रास्ता भी न था, यह सब पोडशी भूल गई है । उसके मन में तो यही एक बात जागती है कि जो अपने प्राण उसके हाथ में सौंप देने में नहीं हिचका, उस पर अविश्वास कैसे किया जाय ? वस, जो कुछ था सब मेरे हाथ में आँस मूँदकर दे दिया । प्रफुल्ल, दुनिया का सबसे खालाक आदमी भी कभी-कभी ऐसी-ऐसी गहरी भूले कर बैठता है, नहीं तो ससार एकदम मरुभूमि हो उठता, कहीं रस की भाफ भी न जमने पाती ।

प्रफुल्ल गर्दन हिलाकर बोला—बहुत ठीक है भाई साहब । अतः अब तुरन्त इस वही को जला डालिए और तारादास को बुलाकर धमका दोजिए । उन मुहरों से अगर सलोमन साहब का कर्ज अदा हो जाय तो सिर्फ रस की भाफ क्यों, मूसलधार वर्षा होने लगेगी ।

जीवानन्द ने कहा—प्रफुल्ल, इसी लिए तुम्हें इतना पसन्द करता हूँ ।

प्रफुल्ल ने हाथ जोड़कर कहा—इस पसन्द को अब जरा घटाना पड़ेगा, भाई साहब । आपका रस का धनन्त फुहारा दिन पर दिन छूटता रहे, परन्तु मुसाहवी करते-करते इस गुलाम का गला तक सूखकर काठ हो गया है । अब

एक बार बाहर जाकर अपने लिए जरा दाल रोटी का इन्तजाम करना होगा। कल या परसों मैं विदा होता हूँ।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—एकदम विदा ? इस बार समेत कितनी बार विदा ले चुके प्रफुल्ल ?

“चार बार” कहकर उसने खुद भी हँसकर कहा— ईश्वर ने मुँह दिया था सो बड़े आदमी का प्रसाद खाने में ही दिन बीते, दो-चार बड़ी-बड़ी घातें हो अगर यह निराल न सका तो इसका जन्म ही बृथा है। मेरा ही सोलहो आने अपराध नहीं है भाई माहव। बहुत दिनों से आप लोगों की ‘हाँ से हाँ मिलाते-मिलाते इस देह के मेद मांस का ही वृद्धि हुई है, असली खून शायद एक वूँद भी न बचा हो। आज सोचा है कि एक काम करूँ। सन्ध्या के अँधेरे में छिपकर चला जाऊँ और एक मुट्ठी भैरवी माँजी की चरण-रज लेकर निगल जाऊँ। आपके यहाँ की बहुत ही बढिया-बढिया चीजें मेरे पेट में समाई हुई हैं, बिना इसके वे हजम न होगी, पेट में कीलो की तरह गडेंगी।

जीवानन्द ने उसने की चेष्टा करते हुए कहा—आज उच्छ्वास की कुछ अधिकता मालूम होती है प्रफुल्ल।

प्रफुल्ल ने फिर हाथ जोड़कर कहा—ठहरिए तो भाई साहब, इसे खतम कर लेने दीजिए। मुमाहबी की पेन्शन बतलाकर जिस दान-पत्र में उस दिन आपने पाँच हजार रुपया लिख रक्खा है उस पर जरा कलम मार दीजिए—

चण्डी देवी का रुपया हाथ में आने पर मुसाहनों की कमी नहीं रहेगी, किन्तु मुझे दान करके उतना रुपया बरवाद न कीजिएगा ।

जीवानन्द ने कहा—तो क्या अब की बार तुमने सचमुच ही मुझे छोड़ दिया ?

प्रफुल्ल वैसे ही हाथ जोड़े हुए बोला—आशावाद दीजिए, यह सद्बुद्धि अन्त तक धनी रहे ।

जीवानन्द चुप हो रहा । प्रफुल्ल ने पूछा—तो कब जायँगी वे ?

“मुझे नहीं मालूम ।”

“सहाँ जा रही हैं ?”

“वह भी मालूम नहीं ।”

“मालूम होकर भी कोई लाभ नहीं है भाई साहब ।” एकाएक उसका चेहरा बदल गया, उसने कहा—नाप रे । औरत तो है ही नहीं, मर्द का दादा है । मन्दिर में खड़ा होकर मैं उस दिन बहुत देर तक देख रहा था, मालूम हुआ कि नल से सिख तक पत्थर की मूर्ति है । चोट लगा लगाकर चूर-चूर कर सकते हैं, पर ऐसी चोज ही नहीं कि आग में गलाकर साँचे में ढालकर इच्छानुसार गढ़ लेंगे । हो मके तो वैसा मतलब छोड़ दीजिएगा ।

जीवानन्द ने कुछ दिल्लगी के ढङ्ग से पूछा—तो प्रफुल्ल, अब की बार तुम एकदम जा रहे हो ?

प्रफुल्ल ने विनय के साथ उत्तर दिया—बड़ों के आशीर्वाद का जोर रहे तो मनोकामना पूरी होगी ।

जीवानन्द ने कहा—वह हो सकता है । परन्तु वतलाओ तो, क्या करोगे ?

प्रफुल्ल बोला—इच्छा तो पहले ही आपके सामने प्रकट की है । पहले जरा दाल-रोटी का प्रबन्ध करूँगा ।

जीवानन्द ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा—तो तुम्हें विश्वास होता है कि पोडशी सचमुच चली जायगी ?

प्रफुल्ल ने कहा—जी हाँ । कारण यह है कि ससार में सभी प्रफुल्ल नहीं हैं । अच्छी याद आई भाई साहब, आपको एक खबर देना मैं भूल गया था । कल रात को नदी के किनारे घूम रहा था । एकाएक फकीर साहब मिल गये । वही जिन्होंने एक रोज अपने बरगद के पेड़ के क्यूतरों को मारने से आपको रोका था, बन्दूक छीन ली थी । मैंने सलाम कर कुशल-चेम पूछा । मन में आया कि मीठी-मीठी दो-चार खुशामद की बातें करके कोई अच्छी सी दवा सीख लूँ और आपकी मदद से पेटेन्ट लेकर, बेंच करके, दो पैसा कमा लूँगा । परन्तु आदमी हैं बड़े होशियार । उस तरफ से गये ही नहीं । बातचीत के सिलसिले में सुना कि वे आये थे अपनी भैरवी माँ को देखने । अब जा रहे हैं । उन्हीं से पता लगा कि भैरवी सब छोड़-छाड़कर जा रही हैं ।

जीवानन्द को कौतूहल हुआ। कहा—इन्हीं के सदुपदेश से शायद वह चली जा रही है ?

प्रफुल्ल सिर हिलाकर बोला—नहीं। बल्कि उनके उपदेश के विरुद्ध ही वे जा रही हैं।

जीवानन्द ने दिल्लगी करते हुए कहा—क्या कहते हो प्रफुल्ल। सुना है कि फकीर साहब उसके गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का उल्लङ्घन ?

प्रफुल्ल ने कहा—यहाँ ऐसा ही हुआ है।

“परन्तु इतने बड़े विराग का कारण ?”

प्रफुल्ल ने कहा—“विराग का कारण आप हैं।” जरा ठहरकर फिर कहा—मालूम नहीं, यह बात आपको सुनाना ठोक है कि नहीं, परन्तु फकीर को विश्वास है कि आपसे वे बहुत डरती हैं। कहीं लडाई-भगडे के सिलसिले में आपसे मेल-मिलाप बढ़ जाय, यही उनकी सबसे अधिक डर है, नहीं तो देश के लोगों से वे डरती न थीं।

जीवानन्द आँखें फाड़कर उसकी ओर ताकने लगा। प्रफुल्ल ने जरा हँसकर कहा—भाई साहब, परमात्मा ने आपको भी कम बुद्धि नहीं दी है, परन्तु अपना सर्वस्व सौंपकर कल उन्होंने उड़ी भारी भूल की है या हाथ फैलाकर ग्रहण करने में उससे भी बड़कर भूल आपने की है, इस बात की मोमांसा आज रह गई। अगर जीवित रहूँगा तो धारा है एक रोज देर लूँगा।

जीवानन्द ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठा रहा।

शाम होने में देर नहीं थी। नौकर गिलास में शराब भर लाया। जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—ले जा, जरूरत नहीं है।

समझ न सकने के कारण नौकर खड़ा रहा। प्रफुल्ल ने कहा—बता न दोजिए, कब जरूरत होगी ?

जीवानन्द न मालूम कब अन्यमनस्क हो गया था, प्रफुल्ल के प्रश्न से आँख उठाकर कहा—“अभी तो ले जा, जरूरत होने पर बुलाऊँगा।” वह चला जा रहा था, जीवानन्द ने पुकारकर पूछा—चाय है ?

प्रफुल्ल ने कहा—वाह ! चाय नहीं है तो मैं जीता कैसे हूँ ?

“तो एक प्याला ले आ।”

नौकर के चले जाने पर प्रफुल्ल ने पूछा—अकस्मात् अमृत से अरुचि क्यों ?

जीवानन्द ने कहा—अरुचि तो नहीं है, परन्तु अन्न न पिऊँगा।

प्रफुल्ल हँस पड़ा। पल भर पहले अपने ऊपर किये गये ठट्टे को लौटाकर उसने कहा—आज समेत कितनी बार ‘तोत्रा’ हुई भाई साहब ?

जीवानन्द नाराज नहीं हुआ। उसने भीड़ेंसकर उसी का अनुकरण करते हुए कहा—यह मीमांसा आज रहने दो प्रफुल्ल। अगर जीते रहे तो आशा है एक रोज देख सकोगे।

प्रफुल्ल मुस्कराया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया ।

नौकर दिया जला गया । क्रमशः सन्ध्या का अँधेरा जग बाहर घना होने लगा तब जीवानन्द ने एकाएक सडे होकर कहा—चलूँ, जरा घूम आऊँ ।

प्रफुल्ल ने आश्चर्य करके पूछा—कपडे क्यों नहीं बदले ?
“रहने दो ।”

“आपका सहचर, भरा हुआ पिस्तौल ?”

“उसकी भी जरूरत नहीं । आज अकेला ही घूमने जाता हूँ ।”

प्रफुल्ल ने जोर से शोककर कहा—“नहीं-नहीं, यह नहीं होगा, भाई साहब । एक तो अँधेरी रात, विस पर चारों ओर आपके दुश्मन हैं ।” अतः वह भटपट दराज खोलकर पिस्तौल निकाल उसके हाथ में जबरदस्ती देने गया ।

जीवानन्द ने दो कदम पीछे हटकर कहा—उसे मैं अब कभी नहीं छुँऊँगा प्रफुल्ल—

प्रफुल्ल ने विस्मय से अवाक् होकर कहा—एकाएक यह क्या हो गया भाई साहब ? तो फिर नौकरों को बुला दूँ, उनमें से कोई साथ चला जाय ।

जीवानन्द ने मिर हिलाकर कहा—“नहीं वह भी नहीं । आज से मैं ऐसा ही अकेला निकला करूँगा, मानो मेरा कहीं कोई शत्रु नहीं है । मुझसे किसी को डर न हो—मुझ पर कुछ भी श्रियों न घोते—मैं किसी से नालिश करने न जाऊँगा ।”
अतः वह अँधेरे में अकेला बाहर चला गया ।

शराब का भरा हुआ गिलास उपेक्षित होकर लौट गया, इससे प्रफुल्ल ने परिहाम किया। करने की ही बात है। 'लिवर' की असहनीय यातना से और वैद्य की भर्त्सना से शय्याशायी जीवानन्द के जीवन में ऐसा अभिनय कई बार हो चुका है। परन्तु अपनी इच्छा से, नीरोग शरीर में, शराब के बदले चाय पीकर घर से निकलना शायद यही पहले-पहल है। सारा ससार उनके सामने नीरस मालूम होने लगा, और शान्तिकुञ्ज के सघन वृक्षों की छाया से छिपे हुए मार्ग में जिधर ही वे नजर घुमाने लगे, उधर से ही अस्फुट रुदन का सुर उनके कानों में आकर गूँजने लगा। उनके अभ्यस्त जीवन के नीचे उन्हीं का और भी एक यथार्थ जीवन आज भी जीवित है—यह खबर उन्हें न थी। फाटक पार होकर जब वे मैदान के मार्ग में निकल आये तब सन्ध्या का धुँधला आकाश रात के अँधेरे में परिणत हो चुका था, एक और शीर्ष नदी का रेतीला तट घूम-फिरकर दिगन्त में जाकर अदृश्य हो गया है, दूसरी ओर वैशाख का शष्प शस्य हीन विस्तृत क्षेत्र चण्डो-गढ़ के पादमूल में जाकर मिल गया है। राह में बटोही नहीं हैं, मैदान में किसान नहीं दिखाई पड़ते, गडरियों के लडके चराने का काम करके घर लौट गये हैं—सान्ध्य आकाश के नीचे जनहीन भूखण्ड की यही स्तब्ध विपण्य मूर्ति आज जीवानन्द को बढो ही करुण और अपूर्व मालूम हुई। इसी मार्ग में,

ऐसी ही निज्जन सन्ध्या के समय, वे और भी कई वार ध्राये-गये हैं, परन्तु इतने दिनों तक धरित्रों ने मानो अपना यह दुःख का चित्र शराबों की लाल आँसों से बड़े सड्कोच के साथ छिपा रक्खा था। उस पार के, धूप से जले, प्रान्तर से गर्म हवा बीच बीच में आकर उनके शरीर में लग रही थी—नया कुछ भी नहीं था—परन्तु उस और देखकर अकस्मात् अवहृद्ध अभिमान के रुदन से उनका हृदय भर गया। मन ही मन वे कहने लगे—मात वसुन्धरे! तुमने अपने दुःख की गर्म साँस तरु क्या मेरे सामने से लज्जा के कारण अब तक छिपा रक्खी थी, पासण्डो जानकर उसे जानने नहीं दिया? ससार में अपना कहने लायक मेरा कोई नहीं है। सिवा अपने दुःख के, कभी किसी के दुःख का भाग मैंने नहीं पाया—क्या वह भी मेरा ही दीप है? आज हूँ, अगर फल न रहूँ तो दुनिया में किसी को उससे हानि-लाभ नहीं है, क्या यह बात तुमने कभी सोची है, माँ?

यह शिक्कायत उन्होंने किससे की, माँ कहकर उन्होंने किसको पुकारा, शायद वे स्वयं ही उसका निश्चय नहीं कर सके, तो भी गिरि-गात्र-स्खलित उपलसण्ड जैसे भरने के रास्ते अपने ही भार से अपने आप लुढ़कते चने जाते हैं, उसी प्रकार उनकी सद्य उत्सारित आकस्मिक वेदना की अनुभूति आँसुओं की धारा के रास्ते वान्श्यों की माला गूँथती हुई लगा-तार बहने लगी। मैदान के पानी के निकाम के लिए किसानों

ने एक बार इसी रास्ते पर से एक नाला काट दिया था। नन्दीजी की सम्मति पाने लायक प्रचुर दक्षिणा जब वे लोग किसी हालत में इकट्ठे नहीं कर सके तब, केवल सर्वनाश से अपना बचाव करने के लिए, उन लोगों ने लाचारी से यह काम किया था, परन्तु दरिद्रों की इतनी असह्य स्पर्धा की बात हुजूर को विदित कराते ही उन्होंने उसी वक्त उसे बन्द करवा दिया था। निरुपाय गरीबों के आँसुओं पर जरा भी खयाल नहीं किया था। वह जगह तब तक ऊबड़-खाबड़ ही थी। दरिद्रों के पीडन का यह उत्कट चिह्न इसी राह में जाते समय कितनी ही बार जर्मादार की नजर में पडा है, परन्तु आज इसे देखते ही आँसे भर आई। वे मन ही मन कहने लगे कि अहो! इन गरीब किसानों की न मालूम कितनी हानि हुई है, कितने ही छोटे-छोटे बच्चों को शायद पेट भर दोनों वक्त अन्न नहीं मिलेगा। मनुष्य क्यों ऐसा काम करता है? उस स्थान को अंधेरे में ही घोड़ी देर तक देख-भालकर उन्होंने मन ही मन कहा— 'हाथ में रुपया रहता तो कल ही मिन्घो लगाकर इसे बँधवा देता, हर साल इसकी बदौलत किसानों को फिर दुःख भोगना नहीं पडता। अच्छा, कितने रुपये लग सकते हैं?' रास्ते से वे खेत में उतर गये और मन लगाकर उस स्थान की जाँच करने लगे। इस सम्बन्ध में कुछ भी अभिज्ञता उन्हें न थी, उन्हें कुछ भी ज्ञात न था कि कितनी ईंटें, कितना चूना-बालू, कितनी लकड़ी और क्या-क्या चाहिए, परन्तु यह धुन उन

पर सवार हो बैठो। वहीं अंधेरे में अकेले भूत की तरह खड़े होकर मन में यही हिसाब करने लगे कि इतना व्यय करना उनकी सामर्थ्य के बाहर है या नहीं। मार्ग के उधर से कोई दौड़कर भाग गया, शायद कुत्ता या गौदड़ हो परन्तु उसी से उनके पिचारों की धारा टूट गई। दूसरे के दुःख की उपलब्धि अभ्यास-विरुद्ध होने के कारण अपनी इस प्रकार की चिन्ता को मन की दुर्बलता समझकर उन्हें बड़ी हँसी आई। भट रास्ते पर चढ़कर उन्होंने मन में कहा—‘बाह, मुझे क्या हो गया है ? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा ?’

जीवानन्द आज बिना ही शराब पिये निकले थे, आज मन की इस दुर्बलता का कारण समझने में उन्हें विलम्ब नहीं लगा। थके माँदे हृदय के भीतर क्यों आज बार-बार रुलाई का सुर गूँज रहा है वह भी वे समझ गये। और भी एक विषय में उन्हें आज प्रथम अपने ऊपर सशय हुआ कि मुदत का अभ्यास आज उनके स्वभाव में परिणत हो गया है। अपने को अपना कहने के दावा करने का अधिकार भी हमेशा के लिए हाथ से निकल गया है। ठीक याद नहीं आई कि किसलिए वे घर से निकले थे। मन के आवेग से जब घर से बाहर आये थे तब शायद कुछ स्थिर सङ्कल्प नहीं था, शायद अस्पष्ट रूप से बहुत सी बातें ही थीं जो अब लिप-पुतकर एकाकार हो गईं। घर से इस तरफ आने का कोई उद्देश्य ही याद नहीं पडा। परन्तु घर लौटने की भी इच्छा नहीं हुई। थोड़ा दूर आगे बढ़कर, रास्ता

छोड, जो पगडण्डी खेतों में से होती हुई सीधे चण्डीगढ़ गाँव की ओर गई है उसी से चलने लगे। यह रास्ता कुछ लम्बा और ऊँचा-नीचा था। पग-पग पर रुकावट होने लगी, परन्तु ठोकर खा-खाकर राह चलते-चलते उनके विचित्र चित्त के भीतर न मालूम फिर कब ईंट-चूने-लकड़ी की चिन्ता की धारा बहने लगी, उन्हें पता भी न लगा। वात कुछ भी नहीं, एक छोटा सा पुल है। बीजगाँव के जमींदार के लिए यह तुच्छ बात है। उसके बनाने में न शिल्प है और न सौन्दर्य, तो भी यही शिल्पसौन्दर्यहीन पदार्थ गरीबों के सुख-दुःख के साथ मिलकर उनके मन के भीतर आज एक नये रस में भरकर अपूर्व रूप से प्रतीयमान होने लगा। उसे तोड़कर तरह तरह से गढ़ने पर भी वह सतम होना नहीं चाहता था। परन्तु यह सब अपने उदास मन के अस्थायी खयाल हैं, वास्तव में सत्य नहीं है, कल दिन में इसका चिह्न भी न रहेगा, यह भी वे भूल नहीं गये। उत्सव के अन्दर छिपे हुए शोक की तरह उनके मन में यह बात गढ़ने लगी। परन्तु आज रात के लिए इस लडकपन को वे किसी तरह छोड़ न सके। कल्पना के ऊपर कल्पना का ताँता बँध गया। एकाएक काले आकाश-पट में चण्डी-मन्दिर का शिखर दिखाई पडा। उन्हें होश नहीं था कि इतनी दूर आ गये हैं, और भी समीप आकर देखा कि मन्दिर का फाटक अभी तक खुला हुआ है। वे चुपचाप भीतर घुस गये। बहुत देर हुई, देवी की आरती समाप्त हो चुकी है।

मन्दिर का द्वार बन्द है। आंगन में अँधेरा फैला हुआ है। दालान में एक दिया टिमटिमा रहा है। जीवानन्द ने सामने जाकर देखा कि चार-पाँच आदमी मच्छड़ों के दर से नर से सिर तक चढ़र ओढ़े सो रहे हैं। केवल एक आदमी खम्भे की आड़ में चुपचाप बैठा माला जप रहा है। जीवानन्द ने और भी जरा सामने जाकर उस आदमी को देखने की चेष्टा करते हुए पूछा—तुम कौन हो ?

उस आदमी ने जीवानन्द की सफेद पोशाक का अँधेरे में भी अनुभव कर उन्हें भूता आदमी समझ लिया और कहा—
मैं यात्री हूँ बाबू जी।

“यात्री। कहाँ जाओगे ?”

“मैं पुरीधाम को जाऊँगा।”

“कहा से आ रहे हो ? ये लोग शायद तुम्हारे साथी हैं।” कहकर जीवानन्द ने सोये हुए उन आदमियों की ओर इशारा किया।

उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा—जी नहीं। मैं अकोला ही मानभूमि जिले से आ रहा हूँ। इनमें किसी का घर है मेदिनीपुर और किसी का और नहीं। मैं नहीं जानता कि ये कहाँ जायेंगे। दो आदमी तो आज ही दोपहर को आये हैं।

जीवानन्द ने पूछा—अच्छा, यहाँ रोज कितने आदमी आते हैं ? जो लोग रहते हैं उन्हें यहाँ दोना वक्त भोजन मिलता है न ?

वह आदमी जरा घबराया। उसने लज्जित भाव से कहा—फ़ैवल खाने के लिए ही सब लोग यहाँ नहीं रहते वायूजी। पैदल चलने का मुझे अभ्यास नहीं था, इसलिए अधिक चलने के कारण पैरों में फटकर घाव मा हो गया है। भैरवी माँजी ने अपनी आँखों देखकर हुक्म दिया कि जितने दिनों तक आराम न हो, यहाँ रहे।

जीवानन्द ने कहा—अच्छी बात है, रहे न। जगह की तो कमी नहीं है।

‘परन्तु सुना है कि भैरवी माँजी तो नहीं हैं।’

जीवानन्द ने हँसकर कहा—“इतनी जल्दी सुन लिया? अच्छा वे नहीं हैं तो न सही, उनका हुक्म तो है। तुम्हें यहाँ से कौन हटा सकता है? जब तक तुम्हारे पैर अच्छे न हो जायें तब तक तुम यहीं रहे।” अब जीवानन्द उसके पास आकर बैठ गये। उस आदमी ने पहले जरा डर और सङ्कोच का अनुभव किया, परन्तु उसका वह भाव नहीं रहा। देखते देखते अँधेरे में, इस सुनसान देवायतन के एक प्रान्त में, एक दुर्दान्त जमींदार और एक दीन गृह हीन भिखारी के सुख-दुःख की आलोचना अत्यन्त घनिष्ठ हो उठी। उस आदमी का नाम है उमाचरण, जाति का कैर्त है, घर पहले मानभूमि जिले के वशतट गाँव में था। गाँव में अब नहीं है, पानी नहीं है, वैद्य भी नहीं है—यह जिनकी जमींदारी में रहता है, वे पश्चिम के किसी बड़े शहर में वकालत करते हैं।

राजा प्रजा में प्रीति नहीं है, सम्बन्ध नहीं है, है केवल गरीब
 जा के खून चूसने का वशपरम्परागत अधिकार। इसी
 गालगुन के आखिर में हैजे से इस (यात्रा) की स्त्री मर गई
 , दोनों योग्य पुत्र आँसु के सामने बिना इलाज के एक-एक
 करके चल बसे हैं। वह कुछ प्रतीकार नहीं कर सका। अन्त
 में अपनी टूटी-फूटी भोपड़ी एक विधवा भतीजी को सौंपकर
 जीवन भर के लिए घर छोड़ निकल आया है। इस जन्म में
 घर लौटने की आशा नहीं है, इच्छा भी नहीं—यह कह-
 कर वह फूट-फूटकर रोने लगा। जीवानन्द भी आँसु से भी
 आँसू टपकने लगे। दूसरे का रोना उनके सामने नई चीज
 नहीं है, इस जीवन में वैसा उन्होंने बहुत देखा है, परन्तु कभी
 न मे जरा सा दाग भी नहीं पडने पाया। आज सिवा
 उनके और किसी को मालूम भी नहीं हुआ, परन्तु अंधेरे में
 मीज की आस्तीन से आँसू पोंछते हुए उनको इच्छा होने
 लगी कि उनकी जो स्त्री मरी नहीं है, जिस पुत्र का अभी तक
 जन्म नहीं हुआ है, जिस घर को उन्हें छोड़कर नहीं आना
 पडा है—उन्होंने के लिए कहीं भागकर, इस अपरिचित मनुष्य
 की तरह, गला फाड़कर घाड़ो देर रो लें।

कुछ देर बाद अपने को जरा सँभालकर उसने कहा—
 भतीजी, मेरे ऐसा दुःखी ससार में कोई नहीं है।

जीवानन्द ने कहा—नहीं भइया, ससार बहुत उड़ो जगह
 । कहा नहीं जा सकता कि इसमें कहीं कौन किम दरा में है।

इसका मतलब ठोक-ठोक समझने लायक शिखा था शक्ति इस मामूली आदमी को नहीं थी। जीवानन्द ने स्वयं भी उसे प्रकट नहीं किया, परन्तु वे रुक भी नहीं सके। अपने आँसुओं से भीगे कण्ठस्वर की अपूर्वता ने उनके कानों में ऐसे अमृत की वर्षा की कि वे लोभ को नहीं सँभाल सके। कहने लगे—दुखियों की अलग जाति नहीं है भइया, दुख का भी कोई नियमित रास्ता नहीं है। ऐसा होता तो सभी लोग उसे टाल सकते। जब वह एकाएक सिर पर आ पड़ता है तभी लोगों को उसका पता लगता है। परन्तु किस रास्ते से उसकी आवा-जाई रहती है उसका आज तक किसी को पता नहीं चला। मेरी सब बातें तुम नहीं समझोगे भइया, परन्तु ससार में तुम्हीं अकेले दुखी नहीं हो, कम से कम एक साथी तुम्हारे बहुत ही नजदीक है, उसे तुम पहचान नहीं सके।

वह आदमी चुपचाप बैठा रहा। बात भी नहीं समझा, नजदीक कौन है, उसे भी नहीं पहचाना। जीवानन्द ने खड़े होकर कहा—तुम माँ का नाम जप रहे थे भइया, मैं घाघक हुआ। फिर जप करो, मैं चलता हूँ। कल शायद इसी वक्त फिर भेंट हो।

उस आदमी ने कहा—अब भेंट नहीं होगी बाबूजी। मैं यहाँ पाँच दिन से हूँ। कल सबेरे मुझे चला जाना पड़ेगा।

“चला जाना पड़ेगा? परन्तु अभी तो तुमने कहा था कि पैर अच्छे नहीं हुए, तुम चल नहीं सकते?”

उसने कहा—देवी का मन्दिर अब राजा बाबू का है । हुजूर का हुक्म है कि तीन दिन से अधिक किसी को रहने नहीं दिया जायगा ।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—“भैरवी अभी तक गई नहीं है, इतने में ही हुजूर का हुक्म जारी हो गया ? चण्डी माता का भाग्य अच्छा है ।” अब अचानक एक बात याद आते ही उन्होंने आप्रह के साथ पूछा—अच्छा, आज अतिथियों को भोजन कैसा मिला ? तुमने क्या खाया भइया ?

उसने कहा—जो लोग तीन दिन से नहीं आये हैं उन सभी ने माता का प्रसाद पाया है ।

“और तुमने ? तुम्हें तो तीन दिन से अधिक हो गये हैं ।”

उमाचरण बहुत भला आदमी था । एकाएक किसी की निन्दा करने की उसको आदत नहीं थी । उसने कहा—पण्डितजी को क्या इख्तियार है । राजा बाबू का हुक्म जो नहीं है ।

“होगा ।” कहकर जीवानन्द एक लम्बी साँस छोड़कर चुप हो गये । सम्भव है, अनाहूत यात्रियों के सम्बन्ध में पहले से यही नियम चला आ रहा हो, परन्तु पोडशी इसे मानती नहीं थी । अब तारादास और एककौड़ी नन्दी मिलकर जमींदार के नाम से इस नियम को अचरश प्रवर्तित करने की चेष्टा कर रहे हैं । यदि ऐसा ही है तो शिकायत करने का कोई हेतु नहीं है, परन्तु उनका अन्त करण इसे मानना नहीं चाहता था । भीतर ही भीतर वे बार-बार यही

लेन-देन

कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे को अन्न न देने का कोई नियम नहीं हो सकता। यहाँ जो भूखा अतिथि बिना खाये बैठा रह गया, इसकी भूख को किस कानून से बाँध रखेंगे ? कहा— भइया, मैं कल फिर आऊँगा, परन्तु गुपचुप चले मत जाना।

“परन्तु पण्डितजी अगर कुछ कहें तो ?”

जीवानन्द ने कहा—“अगर कहें तो सुन लेना। इतना दुःख सह सके और ब्राह्मण की एक बात नहीं सुन सकोगे ?” धीरे धीरे वे बाहर जा रहे थे कि एकाएक मन्दिर के बरामदे में, खम्भे की आड़ में, आदमी के गले की दबी आवाज सुनकर अकचकाये। पहले समझा कि सुनसान मन्दिर में कोई देवी की आराधना करने आया होगा, परन्तु बात उनके कानों में पहुँची। एक आदमी ने कहा—हमारी माँ का सर्वनाश जिसने किया है, उसका सर्वनाश किये बिना हम किसी हालत में नहीं रहेंगे।

दूसरे ने कहा—चण्डी की चौखट छूकर मैं सौगन्ध खाता हूँ चाचा, फाँसी चढ़ना पडे सो भी मजूर।

पहले ने कहा—हूँ, हम लोगों को जाना होगा जेल, हम लोगों को होगी फाँसी। माँजी चली जाना चाहती हैं, पहले उन्हें जाने दो—

अँधेरे में न तो आदमी ही पहचाना गया और न गला ही, तो भी ऐसा मालूम हुआ कि इनमें से एक का गम्भीर

कण्ठस्वर उन्होंने कहीं सुना है, एकदम अनजान नहीं है। कोशिश करते तो शायद याद भी कर सकते, परन्तु आज उनका मन ही उस तरफ नहीं गया। उन्होंने तो बहुतेरों का सर्व-नाश किया है, अतः वे स्वयं भी तो इसके लक्ष्य हो सकते हैं। परन्तु आज इसका निर्णय करने की इच्छा ही नहीं हुई। मन में हँसकर कहा—वास्तव में देवताओं की तरह सहृदय श्रोता दूसरा नहीं है। अगर भूठा घमण्ड भी हो तो भी उसकी कीमत है। दुर्बल का अहङ्कार व्यर्थ होने पर भा उसमें तनिक गौरव का स्वाद मिलता है।

सुनसान सत्राटे में जब वे चुपचाप बाहर निकल आये तब दोपहर रात बोल गई थी। निर्मल नीला आकाश ताराओं से भरा हुआ था। उन ताराओं से छिटककर गुप्त प्रकाश के आभास ने अँधेरे रास्ते की मिट्टी को धुमला कर रक्खा था। बीच-बीच में इधर-उधर के मिट्टी के ढेर, थके-माँड़े राहगीर की तरह, न मालूम कितने युगों से चुपकी साधे बैठे हुए हैं, उसका इतिहास नहीं है। उन्हीं में से एक के पास जाकर वे धूल के ऊपर बैठ गये। सामने ही पेड़ों की आड़ में पोडशी की झोपड़ी स्पष्ट न सूझने पर भी मालूम हुआ कि बहुत से आदमी कतार लगाकर बाहर आ रहे हैं, और थोड़ी ही दूर के रास्ते से जब वे लोग चले गये तब उनकी बातचीत से जीवानन्द ने यही समाचार समझ लिया कि पोडशी के लिए बैलगाड़ी आ गई है, और कल सवेरे ही वह चण्डीगढ़

से चली जायगी। भक्त प्रजा का दल उसके पैरों की धूल लेकर घर लौट रहा है। पोटशी को रोकने का रास्ता नहीं है, मना करने से वह मानेगी नहीं—इन घोडे से दिनों के परिचय से इतना उसे उन्होंने समझ लिया है—परन्तु उनका मन बहुत व्यथित हुआ। जानकर और अज्ञान में इसके ऊपर अब तक जितने अत्याचार उन्होंने किये हैं, इतने दिनों के बाद एक-एक करके उनका हिसाब करना कठिन है, परन्तु आज उनकी आँसुओं के ऊपर उन अनगिनत अत्याचारों का ढेर लग गया। उसे हटा रखने का स्थान ससार में उन्हें कहीं नहीं सूझा। जिसे पत्नी स्वीकार करने में उनको लज्जा मालूम हुई थी उसी को गणिका रूप से पाने की शैतानी उन्हें कहीं से सूझी, यह उनकी समझ में नहीं आया। आज उनका सारा हृदय उसके लिए तरस रहा है, यह उनके स्वत्व का दावा है, परन्तु इसी की वरावर उपेक्षा करके, इसका अपमान कर, और मिथ्या के ऊपर मिथ्या लादकर उन्होंने जो दीवाल खड़ी कर ली है, उसे लाँघने का रास्ता आज उन्हें कहीं है ?

अचानक सामने देखा कि कोई तेजी से जा रहा है। अँधेरे में भी उसे पहचानने में उन्हें विलम्ब नहीं लगा।
पुकारा—अलका ?

पोटशी चौंककर खड़ी हो गई। आवाज से ही वह जान गई कि ये जीवानन्द हैं। जरा पाम आकर रूखे स्वर से
पूछा—आप यहाँ क्यों बैठे हैं ?

जीवानन्द ने खड़े होकर कहा—मालूम नहीं, यो ही बैठा था। तुम जाने के पहले मन्दिर में प्रणाम करने जा रही हो न ? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।

आज एक ही दिन के अन्दर कण्ठ-स्वर में कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया है। पोडशी विस्मय से चुप हो रही। थोड़ी देर के बाद बोली—मेरे साथ चलने में विपत्ति है, यह तो आप जानते ही हैं ?

जीवानन्द ने कहा—जानता हूँ। परन्तु मेरी धीर से विलकुल नहीं है। आज मैं अकेला और निरत्न हूँ। एक छडा तक साथ नहीं है।

पोडशी ने कहा—सुना है। प्रफुल्ल वायू आपको ढूँढने आये थे। वन्हीं से खबर मिली कि आज आप अकेले ही विलकुल झाली हाथ घर से आये हैं और—

“और जोश के मारे बिना ही शराब पिये बाहर चला आया हूँ। क्यों ?”

पोडशी ने कहा—हाँ। परन्तु चण्डीगढ़ में यह काम आप आइन्दा न करें।

जीवानन्द ने कहा—यह काम मैं प्रतिदिन करूँगा और जब तक जिऊँगा, करूँगा। प्रफुल्ल ने तुमसे इतनी घाते कही हैं परन्तु यह बात नहीं कहो कि ‘इस जीवन में और चाहे जो मैं मान लूँ किन्तु यह बात कभी न मानूँगा कि सत्कार में मेरा कोई शत्रु है।’

पोडशी स्तब्ध होकर खड़ी रही। जीवानन्द की इस बात पर भी तर्क नहीं किया और इसके स्थायित्व पर भी प्रश्न नहीं किया। जीवानन्द का चेहरा अँधेरे में उसे दिखाई नहीं पडा, परन्तु उनका वह अनोखा कण्ठस्वर गहरी रात के इस सुनसान मैदान में उसके कानों के भीतर अपूर्व सुर में गूँजने लगा। थोड़ी देर में उसने पूछा—मेरे साथ मन्दिर में जाकर आप क्या करोगे ?

जीवानन्द ने कहा—कुछ भी नहीं। जब तक तुम रहोगी, साथ में रहूँगा। उसके बाद जाते समय तुम्हें गाड़ी पर सवार कराकर मैं घर चला जाऊँगा।

पोडशी को एकाएक कोई जवान नहीं सूझा। जीवानन्द ने कहा—जाने के दिन आज तुम मेरे ऊपर अविश्वास न करना अलका। मेरे जीवन का मूल्य तो तुम्हें मालूम ही है, फिर शायद भेंट भी न हो। मुझ पर तुमने जितने प्रकार से कृपा की है, उसे अपने अन्तिम दिन तक मैं याद करता रहूँगा।

“आइए” कहकर पोडशी चल पडी। दो मिनट चुपचाप चलने के बाद जीवानन्द ने कहा—लोग कहते हैं कि वह कृपा के योग्य नहीं है। अच्छा अलका, कृपा के योग्य या अयोग्य के विचार करने की क्या आवश्यकता है ? कृपा जो करते हैं वे तो अपनी ही गरज से करते हैं, नहीं तो कृपा पाने की योग्यता मुझमें थी—इतने बड़े दोष का आरोप, मेरा जानी दुश्मन तो दूर रहा, तुम भी नहीं कर सकोगी।

पोडशी ने मृदु स्वर से कहा—मुझसे बड़ा दुश्मन क्या सखार में आपका और कोई नहीं है ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं ।

मन्दिर में घुसने के वाद जीवानन्द एकाएक बोल उठे—
“तमाशा तो देखो अलका, सखार में जिसको अपनी रोटी का ठिकाना नहीं, वही दूसरे की रोजों का सबसे बड़ा बाधक है ।” पोडशी को इसका मतलब पूछने के ढङ्ग से पीछे मुडकर देखते ही उन्होंने कहा—“मैं इतनी देर तक इस मन्दिर में ही बैठा था । भैरवी नहीं है, अब जमींदार मालिक हैं । इसलिए हुजूर का नाम लेकर इतने में ही तीन दिन रहने का कानून जारी कर दिया गया है । तुम्हारा वही लँगडा अतिथि, जिसे तुमने पैर अच्छे न होने तक रहने की इजाजत दी थी, उसी के मुँह से सुना कि हुजूर के सख्त हुक्म से आज उसको भोजन नहीं दिया गया । बेचारा भूखा-प्यासा देवी का नाम जप रहा था । हुजूर का भला हो, कल सबेरे हा यहाँ से चले जाने का भी हुक्म हुआ है, पैर उसके रहें या जायँ ।

पोडशी बोली—मेरे पिताजी ने ही शायद हुक्म दे दिया हो ।

जीवानन्द ने कहा—एक तुम्हारे पिताजी ही नहीं, बल्कि दीन-दरिद्रों के ऊपर कृपा दिखाने के लिए इस गाँव में बहुत से पिताजी मौजूद हैं । और हुजूर के सुयश से तो जमीन-आसमान एक हो गया । इसी लिए उस आदमी के पास बैठकर

पोडशी स्तब्ध होकर खड़ी रही। जीवानन्द की इस बात पर भी तर्क नहीं किया और इसके स्थायित्व पर भी प्रश्न नहीं किया। जीवानन्द का चेहरा अँधेरे में उसे दिखाई नहीं पडा, परन्तु उनका वह अनेखा कण्ठस्वर गहरी रात के इस सुनसान मैदान में उसके कानों के भीतर अपूर्व सुर में गूँजने लगा। थोड़ी देर में उसने पूछा—मेरे साथ मन्दिर में जाकर आप क्या करेंगे ?

जीवानन्द ने कहा—कुछ भी नहीं। जब तक तुम रहोगे, साथ में रहूँगा। उसके बाद जाते समय तुम्हें गाड़ी पर सवार कराकर मैं घर चला जाऊँगा।

पोडशी को एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। जीवानन्द ने कहा—जाने के दिन आज तुम मेरे ऊपर अविश्वास न करना अलका। मेरे जीवन का मूल्य तो तुम्हें मालूम ही है, फिर शायद भेंट भी न हो। मुझ पर तुमने जितने प्रकार से कृपा की है, उसे अपने अन्तिम दिन तक मैं याद करता रहूँगा।

“आइए” कहकर पोडशी चल पडी। दो मिनिट चुपचाप चलने के बाद जीवानन्द ने कहा—लोग कहते हैं कि वह कृपा के योग्य नहीं है। अच्छा अलका, कृपा के योग्य या अयोग्य के विचार करने की क्या आवश्यकता है ? कृपा जो करते हैं वे तो अपनी ही गरज से करते हैं, नहीं तो कृपा पाने की योग्यता मुझमें थी—इतने बड़े दोष का आरोप, मेरा जानी दुश्मन तो दूर रहा, तुम भी नहीं कर सकोगी।

पोडशी ने मृदु स्वर से कहा—सुभसे बड़ा दुश्मन क्या ससार में आपका और कोई नहीं है ?

जीवानन्द ने कहा—नहीं ।

मन्दिर में घुसने के बाद जीवानन्द एकाएक बोल उठे—

“तमाशा तो देखो अलका, ससार में जिसको अपनी रोटी का ठिकाना नहीं, वही दूसरे की रोजों का सबसे बड़ा बाधक है ।” पोडशी के इसका मतलब पूछने के ढङ्ग से पीछे मुड़कर देखते ही उन्होंने कहा—“मैं इतनी देर तक इस मन्दिर में ही बैठा था । भैरवी नहीं है, अब जमादार मालिक हैं । इसलिए हुजूर का नाम लेकर इतने में ही तीन दिन रहने का कानून जारी कर दिया गया है । तुम्हारा वही लँगडा अतिथि, जिसे तुमने पैर अच्छे न होने तक रहने की इजाजत दी थी, उसी के मुँह से सुना कि हुजूर के सख्त हुक्म से आज उसको भोजन नहीं दिया गया । बेचारा भूखा-प्यासा देवी का नाम जप रहा था । हुजूर का भला हो, कल सवेरे हा यहाँ से चले जाने का भी हुक्म हुआ है, पैर उसके रहें या जायँ ।

पोडशी बोली—मेरे पिताजी ने हो शायद हुक्म दे दिया हो ।

जीवानन्द ने कहा—एक तुम्हारे पिताजी ही नहीं, बल्कि दीन-दरिद्रों के ऊपर कृपा दिलाने के लिए इम गाँव में बहुत से पिताजी मौजूद हैं । और हुजूर के सुयश से तो जमीन-आसमान एक हो गया । इसी लिए उस आदमी के पास बैठकर

तुम सब छोड़-छाड़कर चल दीं। जाने के पहले तुम अपनी देवी से कह जाओ कि इससे बढकर मिथ्या और कुछ नहीं है।

पोडशी कुछ उत्तर न देकर ज्योंही चुपचाप बाहर निकलने लगी त्योंही जीवानन्द ने एकाएक उसके आगे दोनों हाथ फैलाकर कहा—अपने देवता के सामने खड़ी होकर आज यही बात मुझसे कह दो कि किस उपाय से तुम्हें और एक दिन अपने पास रख सकता हूँ। उसके बाद तुम—

पोडशी पीछे हटकर बोली—चौधरी साहब, क्या आपके यहाँ दरवान सिपाही कोई नहीं है जो आप इतनी विनती दिखाते हैं? आप तो जानते ही हैं, मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी।

जीवानन्द रास्ते से हटकर खड़े हो गये। उन्होंने न तो लोभ किया, न प्रतिघात, बल्कि धीरे-धीरे विनय से कहा—तुम जाओ। अनहोनी के लोभ से मैं तुम्हें फिर दुःख नहीं पहुँचाऊँगा। प्यादे-सिपाही सभी तो हैं अलका, परन्तु जो अपनी इच्छा से कब्जे में नहीं आवेगी उसे जबरदस्ती पकड़ रखकर डोते फिरने की ताकत अब मुझमें नहीं है।

पोडशी ने रास्ता खुला पाकर भी पैर नहीं बढाया। कहा—मैं जहाँ जाती हूँ उसे सुनने का आग्रह भी गायब आपको नहीं है?

जीवानन्द ने कहा—‘आग्रह? उम्की तो हृद ही नहीं है, परन्तु उसमें अब जलन भी नहीं है अलका। मैं अब

यही चाहता हूँ कि वहाँ तुम्हें कोई न सतावे । तुम्हारे ऊपर जो लोग नाराज हैं वे तुम्हें बिलकुल भूल जायँ ।' अचानक उनका गला रुक गया । परन्तु अपनी कमजोरी को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया । पल भर में अपने को सँभालकर कहा—'मैं जानता हूँ कि जो अपनी इच्छा से सब छोड़ जाता है उसके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती । जिस दिन तुमने अपनी चाबी हमको सौंप दी, उसी दिन हम सबको एक ही साथ तुम्हारे सामने हार माननी पडो । यद्यपि तुम्हारे बल की आज सीमा नहीं है तो भो मनुष्य का मन नहीं मानता । जितने दिन जिऊँगा, यह शङ्का मेरी कभी नहीं मिटेगी ।

षोडशी ने वहीं माथा टेककर प्रणाम किया और जीवानन्द के पैरों की धूल माथे में लगाकर कहा—'आपसे मेरा यही अनुरोध है—

“क्या अनुरोध है अलका ?”

षोडशी क्षण भर चुप रहकर बोली—'उसे आप जानते हैं ।

जीवानन्द ने जरा सोचकर कहा—'शायद जानता हूँ, या शायद सोचने से जान लूँगा, परन्तु एक दिन जो तुमने सावधानी से रहने के लिए कहा था—'शायद वह मुझसे हो नहीं सकेगा । आज ही थोड़ी देर पहले इस मन्दिर के अँधेरे में खड़े होकर दो आदमी, देवता की चौखट छू करके, प्राणों की बाजी लगाकर सौगन्ध खा गये हैं कि उनकी माता का जिसने सर्वनाश किया, उसका सत्यानाश किये बिना वे

विश्राम नहीं करेंगे। श्रोत में खड़े होकर मैंने अपने ही कान से सब सुना है। दो दिन पहले सुनता तो शायद समझता कि उसका लक्ष्य मैं ही हूँ। फिक्र की सीमा न रहती, परन्तु आज मन में जरा भी खटक नहीं—क्या है अलका ?

“नहीं, कुछ नहीं।” कहकर पोटशी फिर सीधी खड़ी हो गई। अंधेरे में जीवानन्द को दिखाई नहीं पडा, एकाएक पोटशी का मुँह पीला पड गया। उसने कहा—चलिए, मेरे घर चलकर अब थोड़ी देर बैठ लीजिए। मुझे गाडी पर सवार कराये बिना आप घर नहीं जाने पावेंगे। आइए।

२५

वैल गाडी के नीचे गाडीवान चढ़र ओढे से रहा था। उसने अटकल से पोटशी के पैरों की आइट समझकर कहा—माजी, शैवालदीधी तो दस-बारह कोस का रास्ता है। जरा रात रहते न चलने से पहुँचने में कल दोपहर हो जायगा।

पोटशी ने कहा—“अच्छा वही होगा।” दो-चार कदम आगे बढ़कर कहा—शायद आपने सुन लिया है कि मैं कहाँ जाती हूँ ?

जीवानन्द ने कहा—हाँ, सुन लिया।

पोटशी बोली—यहुत दूर नहीं है। आपका आक्रोश शायद इतना रास्ता हूँड लेगा।

“परन्तु तुम्हारे ऊपर मेरा तो अब कोई आक्रोश नहीं है।”

दरवाजा खोलकर पोडशी घर के भीतर गई, बोली—
 “मेरा एकमात्र कम्बल गाड़ों में विछा दिया गया है।
 आपको बैठने को क्या दूँ ? निर्मल बाबू होते तो आँचल
 विछा देती परन्तु आपको तो वह नहीं फवेगा।” उसने जरा
 मुसकुराकर कोने से एक कुशासन लाकर विछा दिया और
 कहा—अगर अपराध न मानें तो—

जीवानन्द चुपचाप बैठ गये।

इतने बड़े परिहास का कुछ जवाब न पाकर पोडशी मन
 में विस्मित हुई। दीपक की रोशनी बहुत ही धीमी हो रही
 थी। पोडशी ने उसे जरा उसकाफर हाथ में उठा लिया
 और जीवानन्द के मुख के पास लाकर, पल भर स्थिर रह
 करके, कहा—बताइए तो आप क्या सोच रहे हैं ?

“मेरे सोचने का क्या कोई अन्त है ?”

“अन्त न सही, आदि तो है, वही बताइए।”

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा—नहीं, वह भी नहीं
 है। जिसका अन्त नहीं है उसका आदि भी नहीं।

पोडशी की जवान पर आया कि कह दे—‘वे दर्शनशास्त्र
 के वचन हैं—केवल कथन मात्र है। उससे ससार नहीं चल
 सकता।’ परन्तु जीवानन्द का चेहरा देखकर उसके मुँह
 से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह सचमुच मन में विस्मित
 होकर सोचने लगी कि केवल एक योग्य उत्तर देने के उद्देश्य से
 आज उसने यह बात नहीं कही है, बल्कि—

और अधिक तर्क नहीं करना चाहती । जिसको भली भाँति व्यर्थ समझ लिया है उस पर और तर्क करने का क्या प्रयोजन ?

वहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठकर पोडशी उठ बैठी । दीपक को रखकर उसने हाथ धोये और कहा—मेरा एक अनुरोध मानिएगा ?

“क्या ?”

“एक दिन आपने इसी घर में मुझसे माँगकर खाया था, आज मेरी प्रार्थना से आपको कुछ खाना पड़ेगा ।”

“लाओ । भूख भी लगी है ।”

“मुझे मालूम है । हम लोग पुरुषों का मुँह देखते ही समझ जाती हैं ।” । यह कहकर उसने गीले हाथ से जर्मी-दार के सामने के स्थान को पोछकर पत्तल परोस दी । आज देवी का प्रसाद नहीं था, परन्तु किसानों ने आज उसे बहुत कुछ भेंट में दिया था । उसे लाने के लिए पोडशी के रसोईघर में चले जाने पर जब जीवानन्द ने अकेले में चारों ओर नजर घुमाई तो उस दिन का दावात-कलम ताक पर दिखाई पडा । दो मिनट सोचकर उन्होंने उसे उतार लिया । जब से उन्होंने एक चिट्ठी निकाली ।/ उसके सफेद अश को फाड़कर वे दीपक के सामने चिट्ठी लिखने बैठ गये । पत्र शायद तीन-चार पक्तियों से ज्यादा नहीं होगा । उसे खतम-कर मोड दिया और ऊपर पोडशी का नाम लिखकर जेब में रख लिया । थोड़ी देर में पोडशी भोजन सामग्री ले आई ।

एक देने में महीन धान का चूड़ा, थोड़ा सा इही, चीनी, कुछ फल और लोटे में पानी लाकर उनके सामने रख दिया। जरा म्लान हँसी हँसकर कहा—उस दिन धनी का दिया हुआ देवता का प्रसाद था और आज गरीबों के घर का चूड़ा-दही और थोड़ी सी चीनी है। क्या यह आपको रुचेगा ?

जीवानन्द हाथ मुँह धोकर खाने बैठ गये। कहा—तुम्हारे देने से रुचि की चिन्ता नहीं है अलका, परन्तु पेट में पचे तो ? फिर मेरा वही शूल का दर्द—

वात पूरी होने के पहले षोडशी ने तुरन्त ही पत्तल खींच ली और घबराकर अपने माथे पर हाथ पटकते हुए कहा—मैं अभागिन भूल गई थी। मैं यह आपको कभी खाने न दूँगी।

अपनी बात से जीवानन्द को लज्जा मालूम हुई। उन्होंने कहा—ज्यादा न खाऊँ तो शायद हानि न हो।

षोडशी बोली—शायद ? शायद लेकर आप लोगों का चल सकता है, मेरा नहीं।

“परन्तु इस कारण तो तुम्हें दुःख होगा ?”

षोडशी ने आँखें फाड़कर कहा—‘दुःख की बात क्या कहते हो ? यहाँ से जाते समय तुम्हारे सामने से भोजन छीन लिया, खाने को कुछ भी नहीं दे सकी। अफसोस से मैं तो रोते-रोते मरूँगी।’ थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक अनुनय के स्वर से बोली—दोपहर को भूखट के मारे कुछ बना नहीं शाम को पकाया था। भात, मछली का भोल—

“मछली का भोल कैसे—?”

पोडशी हँसकर बोली—क्या मैं विधवा हूँ ? मैं तो सब खाती हूँ ।

अब जीवानन्द के ओठों में हँसी दिखाई पड़ी । कहा—तो वह सब अपने लिए रखकर मुझे कृपाकर फलाहार क्यों कराने लगीं ?

पोडशी ने तुरन्त उत्तर दिया—“मुझसे भूल हुई । सौ बार दौप मानती हूँ ।” यह कहते हुए वह चूड़ा दही की पत्तल चठाकर दाल-भात लाने के लिए हँसती हुई चली गई ।

पोडशी के पूछने पर जब जीवानन्द ने कहा था कि उनकी चिन्ता का आदि या अन्त नहीं है तब उन्होंने झूठ नहीं कहा था, कुछ बढ़ाकर भी नहीं कहा था । इस जीवन में अपने जीवन को उन्होंने कभी आलोचना का लक्ष्य ही नहीं ममभा था और कभी परिणाम की चिन्ता भी क्षण भर के वर्तमान प्रयोजन को नहीं दबा सकी । इसी से उनके लिए क्षण भर के रूमाल का प्रयोजन भविष्यत् की रेशमी चदर के प्रयोजन से बहुत बड़ा है, इसी कारण चदर न रहने से उनके विस्तरे में कीमती शाल बिछाया गया था और इसी कारण सिगरेट की धूल झाड़ने की तश्तरी सामने न पाकर, वे सोने की घड़ी पर जलता हुआ सिगरेट रखने में जरा भी नहीं हिचकते । उनके लिए भविष्यत् कोई सत्य वस्तु नहीं है । जो अभी तक आया नहीं है, उस अनागत की वे परवा नहीं करते । स्त्री का जो शरीर

आँस से देखा जाता है उसी पर उनकी आसक्ति थी, पर जो स्त्रीत्व दृष्टि के परे है उस पर उनको लोभ ही न था। परन्तु आज भाग्यवश यौवन के अन्त में आकर जिस गहन वन में वे राह भूल गये हैं, उसकी कोई खबर ही उन्हें नहीं थी। किस-लिए उनका मन अलका के चारों ओर घूम रहा है, तरह-तरह के कृच्छ्र तप करने से जिसका शरीर सूख गया है, जिसका रूप और यौवन कठिन तथा कान्तिहीन हो गया है, उसकी कामना करते-करते सारा ससार ही जब उनको बेमजे मालूम होने लगा तब इस कारणातीत मोह की कैफियत अपने अन्दर भी उनको ढूँढने से नहीं मिली। इस रमणी से उनका कौन सा अभाव कब पूरा होगा और उससे उनका प्रयोजन ही क्या है, इस अपरिचित विचार का उन्हें कोई किनारा नहीं मिलता।

भोजन करते-करते वे अन्यमनस्क हो गये थे। सामने ही खुले दरवाजे की ओर पीठ किये षोडशी बैठी थी। दो एक मामूली प्रश्नों का जवाब न पाकर षोडशी बोल उठी—आप क्या सोच रहे हैं ? मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते ?

जीवानन्द ने आँस उठाकर पूछा—किसका ?

षोडशी बोली—अब तो आपको चण्डीगढ़ छोड़कर घर जाना चाहिए। आपको यहाँ और तो कोई काम नहीं है।

जीवानन्द शायद अन्यमना रहने के कारण ठीक मतलब नहीं समझ सके, कहा—काम नहीं है ?

पोडशी बोली—रुहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता । यह गाँव आपका है, इसे निष्पाप करने के लिए आप आये थे । मेरी ऐसी असती को देश से निकालने के बाद आप को यहाँ और क्या काम है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता ।

“परन्तु तुम तो असती नहीं हो ।” कहकर जीवानन्द आँखें फाड़कर उसकी ओर एकटक देखते रहे । चण भर के लिए दोनों की आँखें मिलीं, उसके पश्चात् पोडशी ने मुँह फेर लिया । परन्तु इतनी देर में, इतनी बातचीत के भीतर भी, जिस वस्तु पर उसका ध्यान नहीं गया था उसे इस चणिक दृष्टि में पहले पहल देखकर वह वास्तव में विस्मित हुई । जीवानन्द की आँखों में उस तीक्ष्ण बुद्धि का आभास नहीं था, जगानी बातचीत की तरह उसकी दृष्टि बहुत भोली-भाली, स्पष्ट और स्थूल थी, अपनी तानेजनी और प्रणय-मान इस आदमी के सामने व्यर्थ हुआ है, यह उसको स्पष्ट प्रतीत हुआ । तनिक चुप रहकर बोली—परन्तु अब तक तो यह बात मेरी अपेक्षा आप ही अधिक जानते थे ।

जीवानन्द ने कहा—परन्तु निर्मल तुम्हें प्यार करते हैं यह तो सच है ।

अपने लज्जा से रँगे हुए मुख को दूसरे की दृष्टि की छोट में रखकर पोडशी बोली—“तो क्या वह भी मेरा ही दोष है ? अगर और कोई अपने फलुपित प्रेम से मेरे जीवन को दुर्भर कर दे तो क्या वह भी मेरा ही अपराध है ?” परन्तु

बात कहकर उनका मुँह देखते ही वह पछताती हुई भट बोल उठी—“किन्तु मेरे दोष के लिए तो इन चीजों का अपराध नहीं है।” अब वह सामने के वर्तन को दिखाती हुई बोली—खाना बन्द क्यों कर दिया ? सभी तो पडा है।

“नहीं, खाता तो हूँ।” कहकर जीवानन्द ने फिर खाने में मन लगाया।

गाड़ोवान ने पुकारकर कहा—क्या और भी देर होगी माजी ?

“नही बेटा, अब ज्यादा देर नहीं होगी।” स्वर नीचा करके कहा—आपको चण्डीगढ़ से जाना ही पड़ेगा, यह मैं कहे देती हूँ।

जीवानन्द ने कहा—तो बतलाओ, कहाँ जाऊँ ?

“अपने मकान पर, बीजगाँव में।”

“बहुत अच्छा, वहीं जाऊँगा।”

“परन्तु कल ही जाना होगा।”

जीवानन्द ने मुँह उठाकर कहा—कल ही ? परन्तु काम तो है। मैदान से पानी के निकास के लिए एक पुल बनवाना है। इन लोगों की जमीन लौटा देनी है, यह तो तुम्हारा ही दृक्म है। उसके सिवा, मन्दिर का भी अच्छा प्रबन्ध करना है। जो अतिथि यात्री लोग यहाँ आते हैं उन पर अत्याचार न हो—यह सब बिना किये ही तुम चले जाने को कहती हो ?

पोडशी दुविधा में पड गई । परन्तु उसने हँसकर पूछा—
आपके ये सब अच्छे सङ्कल्प क्या कल सुबह तक बने रहेंगे ?

जीवानन्द परिहास में शामिल नहीं हुए, चुप हो रहे ।

पोडशी ने कहा—तो आवश्यक के अतिरिक्त एक दिन भी
नहीं ठहरिएगा । मुझसे वादा कीजिए और जितने दिन रहना
पड़े, पहले की तरह सावधान रहिएगा । वचन दीजिए ।

इस बात का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया । चुपचाप
भोजन करने लगे । पोडशी ने जिद नहीं की, परन्तु उत्तर
की अपेक्षा इस नीरवता ने जीवानन्द के भीतर का परिवर्तन
अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया ।

उनके भोजन कर चुकने पर बाहर आकर पोडशी ने
उनके हाथ धुलाये । उसका एकमात्र अँगूठा गठरी के काम
में लगकर गाड़ी के अन्दर पहुँच गया था । अतएव अपना
आँचल उसने हाथ में थमाकर सिर्फ कहा—यह लीजिए ।

जीवानन्द ने हाथ-मुँह पोछकर एकाएक कहा—परन्तु
इसे और किसी को तुमसे दिया नहीं जा सकता था अलका ।

पोडशी ने अपना आँचल खींचकर मुँह झुकाये हुए
कहा—भीतर आकर और जरा बैठिए । तैयार होकर
बाहर निकलने में अब देर नहीं लगेगी । मुझे गाड़ी पर
सवार कराकर आपको जाना होगा ।

जीवानन्द ने कहा—“यानी तुम्हारे देश-निकाले का
काम मैं ही पूरा कर जाऊँ ? गैर, मैं वही कर जाऊँगा,

परन्तु तुम्हारा भी एक काम बाकी है। अपनी करनी का फल मेरे सिवा और कौन भोगेगा ? उसकी शिकायत मैंने अब तक किसी से नहीं की—परन्तु जाते समय तुमसे इतना ही दावा करूँगा कि उससे ज्यादा दुःख मुझे न भोगना पड़े।’ अब उन्होंने घर में आकर पाकेट से वह चिट्ठी निकालकर षोडशी के हाथ में देते हुए कहा—“दिन भर तुमने कुछ खाया नहीं है, अब थोड़ा सा खा लो। तब तक मैं अँधेरे में जरा टहल आऊँ। ठीक समय पर हाजिर हो जाऊँगा।” उनके बाहर निकलने की चेष्टा करते ही षोडशी पल भर में दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। इतनी बातचीत के भीतर भी इस पर-दुःख-विमुख स्वार्थी मनुष्य ने उसके भूखे रहने के तुच्छ विषय को याद रक्खा है, यह सोचकर षोडशी के मन में काँटा चुभने लगा। हाथ की चिट्ठी की ओर ताककर उसने पूछा—यह तो मुझी को लिखी गई है। क्या आपके सामने ही मैं इसे नहीं पढ़ सकती ?

जीवानन्द ने कहा—पढ़ सकती हो, किन्तु जरूरत नहीं। इसका जवाब देने की तो आवश्यकता नहीं होगी। मुझे दुःख से बचाने के लिए उससे बहुत अधिक दुःख तुमने अपने ऊपर ले लिया है, नहीं तो शायद हम तरह तुम्हें जाना भी न पड़ता। मेरा अन्तिम अनुरोध इसी में लिखा है। अगर उसे मान सको तो उससे अधिक आनन्द का विषय मेरे लिए और कुछ न होगा।

षोडशी ने कहा—तो पढ़ लूँ ?

जीवानन्द चुपकी साधे खडे रहे। पोडशी ने उस कागज को हाथ पर खोलकर जरा झुकते हुए उन थोड़ी सी पक्तियों को साँस रोककर पढ़ डाला। अब वह निश्चल खड़ी रही। बाहर उसका नाम लिखा रहने पर भी वास्तव में यह चिट्ठी उसकी नहीं थी। भीतर लिखा था—

“फकीर साहब,

पोडशी का असली नाम अलका है। यह मेरी खो है। आपके कुष्ठाश्रम की मैं भलाई चाहता हूँ, लेकिन इससे कोई नीच काम न कराइएगा। जहाँ आश्रम खोला गया है, वह जगह मेरी नहीं है, परन्तु उससे मिला हुआ शैवाल-दीघो गाँव मेरा है। उस गाँव की आमदनी पाँच-छ हजार रुपये हैं। मैं आपको जानता हूँ। परन्तु आपकी अनुपस्थिति में कोई निरुपाय समझकर इसका अनादर न करे, इस डर से आश्रम के लिए ही वह गाँव मैं इसे देता हूँ। आप खुद किसी वक्त कानूनदा थे, अतएव इस दान की पक्की कार्रवाई कर लेने के लिए जो कुछ जरूरत हो, कर लीजिएगा। उसका खर्च मैं ही दूँगा। दस्तावेज लिगवाकर भेज देने से मैं दस्त-खत करके रजिस्ट्री करा दूँगा।

श्रीजीवानन्द चौधरी”

पोडशी बाहर जाकर भट आँरों पीछकर लौट आई और बोली—पूरी रात तुम्हें कहीं गिली ? मैं कुष्ठाश्रम की दामनी बनकर जा रही हूँ, यह भी तुम्हें कैसे मान्य हुआ ?

जीवानन्द ने कहा—कुष्ठाश्रम की बात बहुत लोग ही जानते हैं। रही तुम्हारी खबर। सो आज ही देवता के स्थान पर खड़े होकर जो लोग सौगन्ध खा गये और अपने कान से सुनकर भी जिन्हें मैं अँधेरे में पहचान नहीं सका उन्हें तुमने कैसे पहचान लिया ?

पोडशी इसका ठीक जवाब नहीं दे सकी। एकाएक बोल उठी—क्या घर-गृहस्थी में अब तुम्हारा मन नहीं लगता ? सब खैरात में गवाँकर क्या तुम सन्यासी होकर चले जाना चाहते हो ?

यह प्रश्न दोनों के ही कानों में खटका। जीवानन्द पहले कुछ जवाब नहीं दे सके, परन्तु देखते ही देखते वे उत्तेजित हो उठे। कहा—मैं सन्यासी हूँ ? भ्रूठ बात। घर-गृहस्थी का कुछ भी मैं गवाँ नहीं सकूँगा। अब मैं यहाँ जीना चाहता हूँ, आदमियों के बीच आदमी बनकर रहना चाहता हूँ। मकान चाहता हूँ, स्त्री चाहता हूँ, बाल-बच्चे चाहता हूँ—और जिस दिन मृत्यु को नहीं रोक सकूँगा, उस दिन उन्हीं के सामने चला जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ सो दिया है, जितना गँवाया है उसका लंसा सुनने से तुम चौंक उठोगी। किन्तु मैं और सुकसान नहीं उठाऊँगा।

पोडशी डरती हुई धीरे-धीरे बोली—परन्तु मैं तो सन्यासिनी हूँ। दुनिया में स्त्रियों की कमी नहीं है। इसमें तुम मुझे क्यों समेटना चाहते हो ?

जीवानन्द ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दुनिया में खियों की कमी है या नहीं, यह बात कहने की स्पर्द्धा जिसको हुई है, उसे वे और क्या कहें ?

गाढावान ने आँगन में से आवाज दी—पै फटने में देर नहीं है माजी।

“अच्छा, आती हूँ घेटा।” कहकर पोडशी ने बचा हुआ तेल दिये में उँडेल दिया और चीण दीपशिरा को उज्वल कर वह बाहर निकल आई। घर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। दरवाजे में साँकल लगाकर गले में आँचल लपेटते हुए उसने जीवानन्द के चरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत् की। उनके पैरो की धूल लेकर कहा—मैं अग्र जाती हूँ।

जीवानन्द ने कहा—खाने की भी फुरसत नहीं मिली।

“नहीं। असामी जानते हैं कि मैं तडके खाना हूँगी, उनके खाने के पहले ही मुझे चल देना चाहिए।” जरा हँसकर बोली—एक-आध दिन न खाने से हम लोग नहीं मरतीं।

साथ-साथ आकर जीवानन्द ने उसे गाढी पर चढा दिया। गाढी चल पडने पर उसके कान के पास मुँह लाकर जीवानन्द ने कहा—अलका, तुम्हारी माँ ने एक दिन तुम्हें मुझको सौपा था, तो भी मैं तुम्हें न पा सका, परन्तु अगर उस दिन मुझे कोई तुम्हारे हाथ में सौप देता तो शायद इस अँधेरे में इस प्रकार मुझे छोड़कर तुम न जा सकतीं।

घोडशी को इसका जवाब नहीं सूझा । केवल उन बातों की एक अव्यक्त व्याकुल ध्वनि उसके कानो में गूँजने लगी । मोड़ पर गाड़ी के घूमने के पहले उसने गर्दन बढ़ाकर देखा कि पिछली रात के घने अँधेरे में ठीक वही पर वे वैसे ही स्तब्ध खड़े हुए हैं ।

सवेरा होने में ज्यादा देर नहीं थी । जीवनानन्द मैदान के रास्ते अपने घर लौटने लगे । थोड़ा देर से कुछ अस्फुट कोलाहल उनके कानो में आ रहा था । कुछ आगे बढ़ते ही सामने के आकाश में उषा की रक्तिम आभा की तरह लाल रोशनी नजर आई । और, चलने के साथ ही साथ वह शब्द और रोशनी क्रमशः बढ़ने लगी । अन्त में नजदीक आकर देखा कि बीजगाँव के जमींदार-बश के प्रमोदभवन और उनके नाना के प्यारे शान्तिकुञ्ज के जलकर भस्म होने में अप्र विलम्ब नहीं है । इसी लिए अनेक मनुष्य व्यर्थ चिल्ला रहे हैं और दौड़-धूप कर रहे हैं ।

२६

सवेरा होते ही चण्डीगढ़ के छोटे-बड़े सभी आदमी आकर हाय-हाय करने लगे । शिरोमणिजी आये, राय बाबू आये, तारादास आये और और भी बहुत से सज्जन—'जले हुए शान्तिकुञ्ज का सभी जल गया या दैववश कुछ घब भी गया है और जो जल गया है उसकी कीमत अन्दाजन कितनी

हो सकती है और जो बच गया वह मामूली है या नहीं' आदि खपरे विस्तृत रूप से पाने के लिए दौड़ आये। और यह कैसे हुआ और किसने किया ?—यह भी जानने को वे लोग उत्सुक थे। सब लोगों के बीच में एककौड़ो नन्दी बड़ा शोर मचाने लगा। मानो सर्वनाश उसी का हुआ है। उसने सबके सामने चिल्लाकर जता दिया कि यह काम सागर सर्दार का है। उसको और उसके दो एक शागिर्दों को किसी-किसी ने कल गहरी रात तक बाहर घूमते-फिरते देखा है। घाने में इत्तला भेज दी गई है, पुलीस आती होगी। तमाम भूमिज वश को अगर इस वारदात से कालेपानी न भेज दूँ तो मेरा नाम एककौड़ो नन्दी ही नहीं, और व्यर्थ ही अब तक मैंने हुजूर के यहाँ गुलामी की है।

करीब-करीब बुकी हुई आग के उत्ताप से कुछ दूर पर एक वरगद के नीचे सभा बैठी थी। जीवानन्द उपस्थित थे। उनके चेहरे पर सुस्ती और थकावट के सिवा उद्वेग या उत्तेजना कुछ भी नहीं थी। उन्होंने तनिक मुसकुराकर कहा— तो तुम्हें भी उनके साथ जाना पड़ेगा एककौड़ो। जर्मींदार की गुमाश्तागिरी में तुमने जिन लोगों के घर फूँके थे उसकी खबर तो मुझे है। आग लगाते उन्हें किसी ने आँस से नहीं देखा, मिथ्या सशय पर यदि पुलीस उन पर अत्याचार करे तो सत्य काम के लिए तुम्हें भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा।

उनका कहना सुनकर सब लोग दग रह गये। एक-कौड़ी पहले तो सन्न हो गया, फिर इसे परिहास का स्वरूप देने के उद्देश्य से सूखी हँसी हँसकर बोला—हुजूर माँ-बाप हैं। सात पुश्त से हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर की आज्ञा से जेल क्यों, फाँसी पर लटकना भी हमारे लिए गौरव की बात है।

जीवानन्द ने चिढ़कर कहा—मेरी राय लिये बिना तुम्हारा पुलोस में इत्तला भेजना ठीक नहीं हुआ। जो जल गया है वह नहीं लौटेगा, परन्तु इसके ऊपर यदि पुलोस के साथ मिलकर तुम कोई नया बखेडा खड़ा करो और कुछ ऊपरी आमदनी का जरिया निकालो तो नुकसान का पलड़ा बहुत भारी हो जायगा।

बहुत लोग होठ दवाकर हँसने लगे। एककौड़ी कोई जवाब नहीं दे सका। क्रोध के मारे झुँझलाता हुआ मन ही मन केवल उनके वश के नाश की कामना करने लगा। नदी की तरफ के, नौकरों के, कुछ कमरे बच गये थे। वहीं के दुतछे के दो-तीन कमरे में फिलहाल रहने की इच्छा प्रकट कर जीवानन्द ने आये हुए हितेच्छुओं को विदा कर दिया, परन्तु केवल तारादास को कल सबेरे एक दफे मिलने के लिए हुक्म कर दिया।

तारादास ने कहा—कल रात को पोडशी चली गई है।

“मुझे मालूम है।”

“कुछ वर्तन नहीं मिल रहे हैं।”

“तो और खरीद लेना।”

इस अग्नि-दाह के सम्बन्ध में, बात की बात में, तरह-तरह की खबरे फैल गईं। जमींदार उस रात को घर में नहीं थे, इसके बारे में चर्चा करना बहुतों को निरर्थक प्रतीत हुआ। परन्तु पोटशी भैरवी के जाने के साथ इसका कोई खास नाता है और जिन्होंने यह काम किया है उन्हें जान-बूझकर जमींदार ने रिहा कर दिया, इस विषय में अनुमान और सशय प्रकट करने की सीमा न रही। राय बाबू होशियार आदमी हैं। एककौड़ी के फदे में जीवानन्द को न फँसते देखकर इनकी समझदारी पर उनको सौगुनी श्रद्धा बढ गई। परन्तु अपने लिए वे बहुत ही उद्विग्न हो पड़े। पोटशी के भगाने में वे भी एक मुखिया हैं। और जिन लोगों ने जमींदार का मकान जला डाला, वे लोग आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं, इस बात की याद आते ही निछौने में उनका शरीर पसीने से तर हो गया। पहरों के लिए चारों ओर आदमियों को तैनात कर देने पर भी वे सारी रात बरामदे में ही टहलते रहे। एक उनका मकान ही थोड़े हैं। उनके बहुत में अनाज को रखते हैं, प्याल के ढेर लगे हैं, अन्न जमा करने का बहुत बड़ा प्रबन्ध है, इन समझी देख-भाल के लिए घर बड़ी उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। डर के साथ दिन बीतने लगे। किसी तरह से दिन बीत रहे थे परन्तु इतने में ऐसी एक घटना

हुई जिससे निकलने की राह ही नहीं रही। अदालत का सम्मन आ पहुँचा, भूमिजों तथा और-और किसानों ने मिल कर जमींदार और राय बाबू पर नालिश कर दी। जिस जमीन को उन्होंने मिलकर ऊस की खेती और गुड का कारखाना खोलने के लिए मन्दाजी साहब के हाथ बेच दिया था उसे रद्द करने की दरखास्त है। खबर है कि अदालत के प्रस्ताव और इशारे से कलेक्टर साहब स्वयं आकर मौका तहकीकात करेंगे। बहुत रुपये का मामला था, इसलिए एककौड़ी के साथ मिलकर बहुत से जाली दस्तावेज बनाये गये, एक की सम्पत्ति दूसरे को बच कर देने के लिए जितने प्रकार की तरकीबें हो सकती हैं, सब इस्तेमाल की गईं। यही मन में सोचते हुए वे देर तक स्थिर होकर बैठे रहे। किन्तु इससे भी बड़ी बात यह है कि इन छोटी जाति के गँवार मुर्दार किसानों को इतना साहस कैसे हुआ कि गाँव में रहकर भी इन दुर्दान्त जमींदार जीवानन्द चौधरी और जनार्दन राय पर नालिश कर बैठे? जीवन में अधिक दिन ही जिन्हे खाने को नहीं मिलता, जाड़े के दिनों में जो लोग बैठकर रात बिताते हैं, मरी के दिनों में जो लोग कुत्ते-बिल्ली की तरह मर जाते हैं, खेती के समय मुट्ठी भर बीज के लिए जो लोग इसी दरवाजे पर आकर धरना देते हैं, उन्हें अदालत में जाने को रुपया कहाँ से मिला? ऐसी दुर्बुद्धि उन्हें किसने दी? क्या वह इन्हे यह सीधी सी बात नहीं सुझा सका कि

एक जिले की अदालत ही नहीं, हाईकोर्ट नाम की भी एक जगह है जहाँ जीवानन्द और जनार्दन को लाँघकर सागर सदाँर कभी विजयी नहीं हो सकता । अँगरेजों की अदालत धनी के लिए है, गरीब के लिए नहीं । उनके पास धन है, सामर्थ्य है, वैरिस्टर दामाद है, भरोसा करने लायक वकील-मुख्तार हैं तथा और भी कितनी ही सुविधाएँ हैं—यह सब अपने आपको समझाकर जनार्दन, शक्ति और साहस सञ्चय करने के लिए, चेष्टा करने लगे । परन्तु ज्यादा तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि यह तो सिर्फ रुपये-पैसे का, जायदाद या जमीन के खरीदने-बेचने का मामला नहीं है । इन कामों में जो गैर-मामूली काररवाइयाँ की गई हैं उनके फल रूप से फौजदारी की कानूनी किताबों में जो कड़ी सजा के वाक्य लिखे हुए हैं उनके भयङ्कर चेहरे—श्राट में रहकर भी—उन्हे डराने लगे ।

इन बातों के प्रकट होने में कुछ वाको नहीं है, राय बाबू अपनी जिन्दगी भर की अभिज्ञता से यह जानते थे । इसलिए किसी तरह से दिन बिताकर रात में उन्होंने एककौटो को बुला लिया और पूछा कि जर्मीदार की तरफ से इसका क्या इन्तजाम हो रहा है ।

एककौटो ने कहा—हुजूर के सामने अभी तक इसे पेश ही नहीं किया गया है ।

जनार्दन ने झुँझकाकर कहा—किया नहीं है तो करो जाकर । बुढ़ौती में क्या फौद फाटूँगा ?

उनकी आशङ्का और व्याकुलता देखकर एककौड़ी ने हँसकर कहा—डर क्या है राय बाबू, कैद काटनी होगी तो मैं ही काटूँगा, आप लोगों को न जाने दूँगा। परन्तु इस गरीब पर दृष्टि रखाएगा, भूलिएगा नहीं।

जनार्दन ने खुश होकर कहा—ब्रह्म तो मैं जानता हूँ एक कौड़ी। तुम्हारे रहते डर की बात नहीं है। तुम जितना समझते हो उतना वकील के दादा भी नहीं समझते। परन्तु तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। सुना है कि के० साहब खुद ही तहकीकात करने आ रहे हैं। साला बडा पाजी है। परन्तु भीतरी बात कुछ मालूम है? उन्हें सलाह किसने दी और रुपया ही किसने दिया?

एककौड़ी ने बिना सोचे ही पोडशी का नाम लेकर कहा—रुपया दिया चण्डी माता ने और किसने? इसी से तो पोडशी झटपट सटक गई।

“लौंडी है कहीं?”

एककौड़ी ने कहा—आसपास कहीं छिपी होगी। जल्दी ही पता लगा लूँगा।

जनार्दन दम भर चुप रहकर बोले—पता लगाना। वखेडे से वचूँ, उसके बाद समझ लूँगा।

एककौड़ी नन्दी उस दिन इन्हीं के घर भोजन कर अधिक रात में घर लौटने लगा। उसने जाते समय बनावटो क्रोध दिखाकर कहा—उस दिन सागर सर्दार के विषय में आप

लोग जमौंदार की खातिर से होंठ दबाकर हँसने लगे थे, परन्तु उस दिन अगर पुलिस में इसकी इत्तला दे रखते तो आज इस आफत की नौबत न आती।

जनार्दन ने लज्जित होकर अपनी गलती मान ली। एक-कौड़ी ने मालिक के बारे में एक खास खबर सुनाकर कहा— शराब पीकर बल्कि अच्छे थे, अब तो बातचीत करना ही मुश्रिकूल है। शूल का दर्द तो बना ही रहता है। इतने दिनों की आदत कहीं सहज छूटती है। शायद ज्यादा दिनों तरु न बचेंगे।

जनार्दन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा—तो क्या सचमुच नहीं पीते ?

एककौड़ी ने सिर हिलाकर कहा—सचमुच उन्होंने पीना छोड़ दिया है। सूर्यनारायण का पश्चिम में उदय होना भी सहज है—परन्तु, क्या कहूँ राय बाबू, बड़े जिद्दी आदमी हैं। उस रोज दिन भर की तकलीफ से रात को हाथ-पैर बिलकुल ठण्डे पड़ गये थे। डाक्टर साहन डर गये और बोले—‘मेरा कहना मानकर चम्मच भर तो पी लीजिए, नहीं तो हार्ट फेल हो सकता है।’ परन्तु बाबूजी को तनिक भी डर नहीं लगा। जरा हँसकर कहा—‘इतने दिनों में तो वह बेचारा कभी फेल नहीं हुआ, बराबर एक सा चला आ रहा है। आज यदि वह फेल हो जाय तो उसका दोष नहीं दूँगा। परन्तु मैं तो जन्म भर से फेल होता आया हूँ,

कम से कम आज एक रोज के लिए भी मुझे पास हो जाने दीजिए ।’ कोई नहीं पिला सका ।

“क्या कहत हो ?”

एककौड़ी ने कहा—अब धुन सवार है कि मकान की मरम्मत रोक दो, उस रुपये से मैदान के बीच में एक पुल बनाना है, रूपसी भौल के उत्तरी ओर एक बाँध बँधवाना है । इन्जिनियर साहब आये थे । हिसाब लगाकर उन्होंने कहा—‘उस रुपये से ऐसे दस मकानों की मरम्मत हो सकती है । उसका एक हिस्सा इधर खर्च करके मकान की मरम्मत कर उसकी रक्षा कीजिए ।’ परन्तु किसी तरह भी नहीं माने । दीवान साहब वाप की उम्र के हैं । उन्होंने कहा—‘जमींदारी रेहन हो जायगी तो ?’ बाबूजी ने कहा—असामी लोग हर साल मालगुजारी देते आ रहे हैं और खतम हो रहे हैं । उन्हें बचाने के लिए अगर जमींदारी रेहन हो जाय तो होने दीजिए । वह छुड़ा ली जायगी ।

राय बाबू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा—पागल तो नहीं हो गये ?

इसके दो दिन बाद पता लगाने पर जब जनार्दन को मालूम हुआ कि एककौड़ी ने आज तक उस बात को जमींदार के आगे पेश नहीं किया तब वे बहुत घबराये । निकम्मा और डरपोक कहकर उसे मन ही मन धमकाया । रात को अच्छी नाद भी नहीं आई । यदि साहब एकाएक

किसी दिन इत्तिला भेजकर मौके पर आ जायँ तो आफत की हद नहीं रहेगी। सब ओर से तैयार न रहें तो क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। निश्चय किया कि स्वयं मिलकर सब बातें निवेदन कर देगे, दूसरे पर भरोसा करने से मरना पड़ेगा।

सुबह उठकर उन्होंने १०८ बार दुर्गा का नाम जप लिया और कागज पर श्री श्रीचण्डी माता का नाम लाल स्याही से लिखकर साइत मजबूत कर ली और छींक, राली घडा आदि अपशकुनों से अपने को बचाकर चार पाँच तगडे जवानों को साथ लिये हुए वे जमोंदार के मकान की ओर रवाना हुए। परन्तु बहुत दूर जाना नहीं पटा, इसी बीच पाँच-छ आदमियों ने भागते हुए आकर जो खबर दी वह जैसी अप्रीतिकर है वैसी ही अचिन्तित है। बहुत दिनों की बात नहीं है, बडा मडक के पासवाली करीब दस विस्ता जमीन राय बाबू ने घेर ली थी। मनशा यही था कि अपनी दुकान हटाकर वहा लायेंगे। यह जमीन चण्डी माता की है। इसके चारे में पोडशी से उनकी तक़रार भी हो गई थी। परन्तु जबरदस्त जनार्दन राय को वह रोक नहीं सकी। इसके मन्बन्ध मे राय बाबू के पास एक दस्तावेज भी था, परन्तु लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। आज मवेरे इसी जमीन पर से उन्हें रेदपल किया गया है। जनार्दन ने धीरे-धीरे वहाँ पहुँचकर देखा कि प्राय सभी लोग मौजूद हैं। शिरोमणिजी, तारा-दास, गगन चक्रवर्ती तथा और भी उनके दल के कई सज्जनों

के सामने जीवानन्द चौधरी ने स्वयं हुक्म देकर घेरा तुडवा दिया और उसको मन्दिर की जमीन के साथ मिला दिया। किसी को प्रतिवाद करने की हिम्मत न हुई।

जनार्दन ने असह्य क्रोध को जी-जान से दबाकर विनय के साथ कहा—यह सब करने के पहले हुजूर मुझे जरा खबर भी दे सकते थे।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—उसमें व्यर्थ विलम्ब ही होता। मुझे मालूम था कि खबर आपके पास पहुँचेगी ही।

जनार्दन ने कहा—खबर पहुँच ही गई, परन्तु एक दिन पहले पहुँचती तो अदालत जाने की नौबत न आती।

जीवानन्द ने वैसे ही मुस्कराते हुए कहा—इससे भी तो अदालत जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए राय बाबू। भैरवियों के जमाने में देवी की बहुत सी सम्पत्ति बेदखल हो गई है, अब फिर उसको कब्जे में लाना है।

जनार्दन ने खुरी हँसी हँसकर कहा—इससे बढकर सुशी की बात और क्या है हुजूर। सुना है कि किसी समय सारा चण्डीगढ़ ही देवी की सम्पत्ति में था, अब तो—

जनार्दन के चोखे जवाब का इशारा समझकर सब लोग मन में खुश हुए। शिरोमणिजी तो जनार्दन राय की बुद्धि और वाक्पटुता से उछलने लगे।

जीवानन्द के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। कहा—उसमें भी कसर नहीं रहेगी। चण्डी के तमाम दस्ता-

वेज, नकशे आदि जो कुछ थे सब मैंने कलकत्ते में एटर्नी के पास भेज दिया है। परन्तु आप लोग सहायक रहिएगा।

शिरामणि जयध्वनि कर उठे। लेकिन बात सत्य हो तो नतीजा क्या निकलेगा, यह सोचकर क्रोध और शङ्का से जनार्दन का मुँह पीला पड गया। परन्तु इससे भी बड़ी मुसीबत उनके सिर पर लदी हुई है, यह याद कर आज के लिए उन्होंने अपने को सँभाल लिया। वे धीरे-धीरे घर लौटने लगे। जिस उद्देश्य से वे घर से आये थे वह निष्फल हो गया। रास्ते में चलते-चलते उनके मन में आया कि मेरी शायद सौ दो सौ बीघा जमीन निकल जायगी, परन्तु स्वयं वे तो सारा चण्डीगढ़ ही हजम कर बैठे हैं, उसका क्या होगा? अतः उनकी बात बिलकुल ही फिजूल है, सिर्फ धोखा देने के लिए कही गई है, इसमें कुछ मन्देह नहीं रहा। घर में घुसकर तमाखू के लिए आवाज देते हुए वे बैठक में कदम रखते ही चौंक पड़े। एक तरफ एककौडो छिपा बैठा है। उसका मुँह सूखा हुआ है और चेहरा उदास है। उसे देखकर जनार्दन ने कहा—क्या जी, तुम एकाएक यहाँ कैसे? तुम्हारे सनकी मालिक ने तो उधर दङ्गा शुरू कर दिया।

एककौडो ने कहा—मालूम है और उसी सनकी के पास अभी हमें जाना पड़ेगा।

जनार्दन ने डरकर पूछा—किसलिए?

एककौडो ने कहा—छोटे कमीनों को रुपये और सलाह की मदद किसने दी है, अभी तक नहीं मालूम हुआ। परन्तु

यह मालूम हुआ है कि गवाह माने जाने पर हुजूर कुछ भी—जाली दस्तावेज बनाने की बात भी—नहीं छिपायेंगे।

जनार्दन का चेहरा उत्तर गया। इस आदमी की जो जिद की बात उस दिन उन्होंने सुनी थी वह याद आई। उनके मुँह से निकला—क्या यह अन्त में लड्कादहन कर बैठेगा।

चिलम की तमाखू जलकर राक हो रही थी, नहाने का पात्ती ठण्डा हो रहा था, जनार्दन दौड़कर बाहर निकल पड़े। जीवानन्द उस समय मन्दिर की एक टूटी मेहराब की जाँच कर रहे थे, और तारादास पास खड़े होकर उनके प्रश्न का जवाब दे रहे थे। जनार्दन ने सामने आकर कहा—हुजूर, मारी घटना को जरा याद कर लें।

जीवानन्द पहले समझ नहीं सके कि कौन सी घटना है। परन्तु राय बाबू की घबराहट और आँगन में एक तरफ एक कौड़ी को देखकर उन्हें कल रात की बात याद पड़ी। उन्होंने कहा—परन्तु उपाय ही क्या है राय बाबू? साहब जमीन नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने सस्ते में खरीदी है। इसके अलावे उन्हें हानि भी बहुत होगी। अतः मुकदमे में जीतने के सिवा किसानों को और कोई रास्ता नहीं सूझता।

जनार्दन ने घबराकर कहा—परन्तु हमारे निकलने को रास्ता तो चाहिए।

जीवानन्द ने दम भर सोचकर कहा—ठीक है। हमारा रास्ता भी बहुत दुर्गम मालूम होता है।

उनका शान्त कण्ठस्वर और विकार-रहित मुख देखकर जनार्दन अपने को सँभाल नहीं सके। बेपरवा होकर धोल उठे—दुजूर रास्ता दुर्गम ही नहीं है, बल्कि जेल काटनी पड़ेगी। और फेवल हम लोग ही न धाँधे जायँगे बल्कि आपको भी छुटकारा न मिलेगा।

जीवानन्द जरा हँसे, बोले—तो क्या किया जायगा 'राय वाबू' ? शौक से जब पेड लगाया गया है तब उसका फल भी चपना ही पड़ेगा।

जनार्दन ने जवाब नहीं दिया, वे तेजो से बाहर निकल पडे। एककौडी को शायद सब बातें सुनाई नहीं पडी। उसके दौडकर पास आते ही राय वाबू ने चिल्लाकर कहा— एककौडी, यह हमारा सर्वनाश करेगा। मेरे निर्मल को तार दे दो, वह एक बार आ तो जाय।

२७

निर्मल चण्डीगढ से बहुत दुर पाकर गये थे। जाते समय उनकी यही इच्छा थी कि चण्डीगढ के भले बुरे सब तरह के सम्बन्ध से सदा के लिए अपने को अलग रखेंगे। परमात्मा से उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि जो वीत गया है वह फिर लौट न आवे, चण्डीगढ से कोई सम्बन्ध ही उनके जीवन के साथ न रह जाय। वे सीधे आदमी हैं। विलासिता और अँगरेजा ढँग के भीतर से भी वे ससार के सीधे शान्त

से ही चलना चाहते थे। हैमवती ही थी उनकी एकमात्र गृहिणी, प्यारी और सन्तान की माता। सौन्दर्य, प्रेम, श्रद्धा और बुद्धि में इससे बढ़कर कोई स्त्री ससार में हो सकती है, यह उनकी समझ में नहीं आता था। परन्तु इतनी प्यारी स्त्री को छोड़कर उनका मन एक समय उद्भ्रान्त होना चाहता था। घर लौट आने तक यही दो बातें उन्हें बहुत खटक रही थीं। पहली बात यह कि इस दुर्बुद्धि का इतिहास हैम से सदा के लिए छिपा रखना पड़ेगा, और दूसरी है षोडशी का चरित्र। इसके सम्बन्ध में वे ठीक-ठीक कुछ भी न जानते थे, तो भी उनका मन किस कारण उस पर आसक्त हो गया था—यही प्रश्न अपने चित्त से बार-बार करने पर एक ही उत्तर निर्मम निःसंशय रूप से मिलता था कि षोडशी चरित्रहीना है। किसी असम्भव वस्तु पर उनको कभी लोभ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। वह पहुँच के बाहर नहीं है, यह समझकर ही उनका मन उस तरह से उसके लिए उन्मुख हो गया था। यह बात सोचकर उन्हें तनिक वृत्ति मिलती थी और वे मन ही मन कहते थे कि उस राह पर फिर कभी न चलेंगा। हैम चाहे तो अपने नैहर जाय किन्तु वे स्वयं कभी चण्डीगढ़ का नाम तक न लेंगे।

उस दिन अदालत से लौटने पर निर्मल कि उमकी माता के यह है कि किसी को माल है चली गई है।

निर्मल ने दिखगी के तौर पर मुस्कराते हुए कहा—किसी को नहीं मालूम कि कहाँ गई ? न सागर सर्दार जानता है न जमींदार जीवानन्द चौधरी ही ?

हैमवती ने नाराज होकर कहा—तुम कैसी बातें करते हो ! सागर शायद जान भी सकता है, परन्तु जमींदार कैसे जानेगा ? स्त्रियों पर कलङ्क लगाने में तुम लोगों को मजा मिलता है ।

“यही सही” कहकर निर्मल बाहर जा रहे थे कि हैम ने पुकारकर कहा—एक घटना और हुई है । उसी रात को किसी ने जमींदार का ‘शान्तिकुञ्ज’ जला डाला ।

“क्या कहती हो ?”

“हाँ । लोग सन्देह करते हैं कि सागर ने ही गुस्से के भारे आग लगा दी है । परन्तु जमींदार के नाम के साथ पोडशी पर गाँववालों ने जो लाञ्छन लगाया था, वह अगर सच होता तो क्या कभी जमींदार का मकान जल जाता ? तुम्हीं कहे न ?”

निर्मल चुप हो रहे । हैम बेली—कोई कुछ भी कहे, मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि वे निर्दोष हैं । चण्डी की ऐसी भैरवी पढ़ले कभी नहीं थी । उन्हीं की कृपा से तो लडके का मुँह देखना नसीब हुआ है । याद है ?

निर्मल ने इस बात का भी कुछ उत्तर नहीं दिया । चिट्ठी लिखकर पूरा व्योरा मालूम करने के लिए उनके कौतूहल की सीमा न रही, परन्तु इस इच्छा को दनाकर वे बाहर चले गये । उनका प्रण था कि पोडशी के सब तरह के सम्बन्ध

से अपने को अलग रखेंगे। परन्तु दूसरे दिन सुबह ही जब ससुर का जरूरी तार मिला और शाम को सास की चिट्ठी भी आ गई कि, पत्र पहुँचते ही अगर दामाद चण्डीगढ़ नहीं आ जायेंगे तो उनके वृद्ध ससुर को अबकी कोई न बचा सकेगा, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा, तब हैमवती रोने लगी। अब और एक दफे द्रुह तथा विलरा बाँधने के लिए हुक्म देकर निर्मल को अपने काम का बन्दोबस्त करने के लिए बाहर जाना पडा।

दो दिन के बाद निर्मल, हैम के साथ, चण्डीगढ़ में आ पहुँचे। आकर देखा कि सब लोग बहुत ही घबरा रहे हैं। ठिकाना नहीं, कब कौन आग लगा दे। चारों ओर आदमी पहरा दे रहे हैं। राय बाबू सूखकर आधे रह गये हैं। कहीं निकलते तक नहीं। ऐसे दुर्दान्त मनुष्य की अपने ही गाँव में यह दुर्गति देखकर निर्मल बड़े विस्मित हुए। यहाँ से उनको गये बहुत दिन नहीं हुए, परन्तु इतने में ही कैसा परिवर्तन हो गया है। लोगों से जो तरह तरह की खबरे मिलीं उनसे असली घटना कुछ भी समझ में नहीं आई। एक सवाद में सभी की राय एक सी थी कि जमींदार जीवानन्द चौधरी सनक गये हैं। उन्होंने शरा छोट दी है, किसानों से अपने ही विरुद्ध नालिश करवा दी है। जिस रुपये से जले हुए मकान की मरम्मत करानी चाहिए थी उससे मैदान के बीच में एक पुल बनवा रहे हैं—ऐसे ही बहुत से किस्ते सुनने में आये। परन्तु यह कोई नहीं जानता कि ऐसा परि-

तर्तन एकाएक क्यों हो गया। इस आदमी से निर्मल को
 बहुत ही घृणा थी। इसी के पास सिफारिश करने जाना
 पड़ेगा, यह सोचकर वे बहुत ही सकुचने लगे। परन्तु
 पटना ने जैसा रूप धारण कर लिया है उससे और कोई रास्ता
 ही नहीं सूझा। भूमिज किसान लोग बिलकुल विरुद्ध हैं।
 पहले तो उनका सर्वनाश हो गया है और उसके सम्पादन
 करने में किसी प्रकार की चेष्टा की कमी नहीं हुई थी,
 और उस पर उनकी एक मात्र हितैषिणी भैरवी माता के ऊपर
 जो अत्याचार हुआ है उससे उनके क्रोध की सीमा ही नहीं
 है। वे कोई बात सुनने के नहीं। श्वर मन्द्राजी साहन को
 बड़ा हानि है, उसका भेशीन बगैरह मामान आ गया है,
 उसको मुआविजा देना प्रायः असाध्य है, जमीन पर दखल पाना
 उसके लिए जरूरी है। खासकर स्वयं अनुपस्थित रहकर
 जिस एटर्नी से वह काम चलवा रहा है, वह जैसा रूपे
 मिजाज का है वैसा ही अभद्र है, उससे सुलह होना नामुमकिन
 है। एक ही उपाय है—आपस में समझौता कर लेना।
 क्योंकि और चाहे जो हो, उससे फौजदारी दण्डविधि की सख्त
 सजाओं के हाथ से शायद बचाव हो जाय। अपने दल का
 ही यदि कोई अपराध स्वीकार कर ले तो बचने का कोई उपाय
 नहीं रहेगा। परन्तु उस सनकी ने कह रक्खा है कि हाकिम
 से वह कुछ भी नहीं छिपावेगा। इस बात को निर्मल हँस-
 कर उडा दे सकते थे, परन्तु यहाँ आने पर उन्होंने जोवानन्द

के बारे में जितने किस्से सुने हैं, खासकर शराब छोड़ने का किस्सा—जैसे कि हार्ट फेल होने का डर दिखाकर भी डाक्टर बूँद भर शराब उसे नहीं पिला सका—उसको देखते हुए कौन कह सकता है कि उस सनकी आदमी पर कौन सी धुन सवार है। परन्तु वे आये हैं इस अवोध और अवाध्य मनुष्य को सुबुद्धि देने के लिए। इसे समझाना पड़ेगा, धमकाना होगा और मौके पर खुशामद भी करनी होगी—उन्हें अभी तक पूरा पता नहीं है कि और क्या-क्या करना पड़ेगा। यह अनीप्सित कार्य करने में निर्मल का सारा चित्त मानो विद्रोही हो रहा था। परन्तु करते क्या? अपराधी हैं हैम के पिता, उन्हें वचाना ही होगा। हैम रोने लगे। सास रोने लगीं। एक नौडो चोर की तरह आवा-जाई करने लगा। ससुर ने बिना राये-पिये शय्या का आश्रय ले लिया, परन्तु अब एक हो दिन बाकी है। कल के बाद परसों हाकिम तहकीकात करने आयेंगे।

तीसरे पहर के लगभग जीवानन्द के साथ मैदान में निर्मल की भेंट हुई। अब तक पानी के निकास का रास्ता नहीं था, इसी से एक पुल बन रहा था। प्रशान्त हँसी के साथ जीवानन्द ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें ग्रहण किया और कहा—“आपके आने की खबर मुझे कल ही मिल गई थी। आप अच्छे तो हैं, घर में कुशल-मङ्गल है ?” जमींदार के वर्ताव से ऐंठ नहीं है, बनावटी भाव भी नहीं है, वह जैसा सरल है वैसा ही खुला हुआ है। उन्हें सशय करने की

अवकाश ही नहीं मिला। इस प्रकार के वर्ताव के लिए निर्मल प्रस्तुत नहीं थे, वे मानो अपने सामने ही कुछ हीन प्रतीत हुए। अगर इसका दिमाग विगड भी गया हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। जीवानन्द के कुशल-प्रश्न का उत्तर निर्मल ने सिर्फ सिर हिलाकर ही दिया। जीवानन्द से कुशल पूछने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिला। जीवानन्द ने कहा—
 “आप रिश्तेदार हैं, गाँव भर के आदर-पात्र हैं। परन्तु जान-बूझकर ऐसी जगह आकर मिले कि—।” एकाएक मिछियों-मजदूरों की ओर नजर पडते ही कहा—भइया, आज हमे जरा रात तक काम करना होगा, हपते भर से घटा छाई हुई है, एरू दो दिन मे ही शायद पानी वरसेगा। तत्र तो वना-वनाया काम विगड जायगा। हम लोग ऐसा काम कर जायेंगे कि नाती-पोती को भी सिर झुकाकर मानना पडेगा कि हाँ, जिन लोगों ने पुल बनाया था उन्होंने हृदय के सच्चे प्रेम से ही बनाया था—वही होगा हमारा असली मिहनताना।

उन लोगों का हृदय पिघल गया। बीजगाँव के भयङ्कर जमींदार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके मुँह मे ऐसी बात। काम करनेवालों ने एक स्तर से जताया कि हमारी भी यही इच्छा है। बादल से अगर चांदनी छिप न जाय तो रात के १० बजे तरू काम करन की उन्होंने इच्छा प्रकट की।

निर्मल ने कहा—आपसे मेरा एक काम है।

जीवानन्द ने कहा—क्या किसी दूसरे दिन नहीं हो सकता ?

“जी नहीं, मेरा खास प्रयोजन है।”

जीवानन्द हँस पड़े, कहा—सो ठीक है। ओछे कामों का बोझ उठाने के लिए जो लोग आपको इतनी दूर से खींच लाये हैं वे क्या सहज ही छोड़ देंगे ?

इस बात से निर्मल को बड़ी चोट पहुँची। उन्होंने कहा—वह तो ठीक है। ओछे काम मनुष्य कर डालते हैं, तभी तो हम लोगो की ससार में जरूरत है चौधरी साहब। नहीं तो इस मैदान में आपको तङ्ग करने की मुझे क्यों आवश्यकता होती ?

जीवानन्द ने क्रोध नहीं किया। उसी तरह प्रसन्नता के साथ कहा—मैं जरा भी तङ्ग नहीं हुआ हूँ निर्मल बाबू। आप जिस काम के लिए आये हैं वह आपका कर्तव्य है, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। नहीं तो आप आते ही क्यों ? परन्तु कर्तव्य का सिद्धान्त तो सब का एक सा नहीं है। राय बाबू का मैं अकल्याण नहीं चाहता। आपके आने का उद्देश्य सफल हो जाय तो मैं सचमुच खुश हूँगा, परन्तु मैंने अपना कर्तव्य भी निश्चित कर लिया है। इसमें परिवर्तन होना अब सम्भव नहीं।

निर्मल का चेहरा उतर गया। उन्होंने जरा सोचकर कहा—यह अच्छा ही हुआ कि आपने कृपा कर मुझे इस अप्रिय धालोचना की भूमिका के अंश के पार कर दिया।

इस गाँव में आकर आपके सम्बन्ध में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं।

जीवानन्द ने हँसकर कहा—उसमें एक यह है कि मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। क्यों, सच है न ?

निर्मल ने कहा—सत्तार में साधारण मनुष्य की विचार-बुद्धि के साथ एकाएक किसी के कर्तव्य का सिद्धान्त अगर एकदम अलग हो जाय तो बदनामी फैलती ही है। ता क्या यह सच है कि आप सभी बातें स्वीकार कर लेंगे ?

जीवानन्द ने “सच है” कहा। उनके स्वर में गाम्भीर्य नहीं था, बल्कि होठों पर हँसी की रेखा थी, तो भी निर्मल ने समझ लिया कि यह धोखा नहीं है। उन्होंने कहा—ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके स्वीकार करने से सिर्फ आप ही को सजा हो जाय और सब लोग बच जायें।

जीवानन्द ने कहा—“निर्मल बाबू, आपका कहना उस पाठशाला के गोविन्द की तरह है। उसने कहा था—‘पण्डितजी, मुकुन्द ने भी आम चुराये थे।’ यानी वेंट सब पर बँटकर न पड़े तो उसकी पीठ का दर्द न घटेगा।” अत्र वे हँसने लगे। उनकी हँसी से निर्मल के चेहरे पर क्रोध के चिह्न देखकर जीवानन्द ने उनके क्रोध को शान्त करने की चेष्टा करते हुए कहा—माफ कीजिए जनाव, यह मैंने भूलकर भी नहीं चाहा। अपनी करनी का फल मैं ही अफेला भोगूँगा, और किसी को मैं इसमें समेटना नहीं चाहता। राय

वाबू छुटकारा पाकर अपने घर आराम से रहें और मेरे एककौड़ी नन्दी साहब कहीं और गुमाश्तागिरी में दिन पर दिन तरक्की करते रहें—किसी पर मुझे रत्ती भर भी क्रोध नहीं है।

निर्मल कानूनदाँ आदमी हैं। सहज में निराश नहीं होते, बोले—ऐसा भी हो सकता है कि न तो किसी को कुछ सजा भोगनी पड़े और न किसी को हानि ही सहनी पड़े।

जीवानन्द ने उसी वक्त राजी होकर कहा—“अच्छी बात है। अगर आप कर सकें तो कीजिए। परन्तु मैंने बहुत सोचकर देखा है कि वह हो नहीं सकता। किसान लोग अपनी-अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह केवल उनके रोटी-रूपड़े का सवाल नहीं है बल्कि यह है उनका खानदानी जोत। इसके साथ उनका हार्दिक सम्बन्ध है। उन्हें यह मिलना ही चाहिए।” जरा ठहरकर फिर कहा—आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरा पक्ष कितना प्रबल है, उस पर कोई जवर्दस्ती नहीं चलेगी। चल सकती है केवल किसानों पर, परन्तु उन लोगों पर लगातार अत्याचार होता आया है, अब मैं वह नहीं होने दूँगा।

निर्मल ने मन में डरकर कहा—आपकी इतनी बड़ी जर्मीदारी में क्या इतने किसानों को जगह नहीं मिलेगी ? कहीं न कहीं—

“नहीं नहीं, और कहीं नहीं, इसी चण्डीगढ़ में मिलनी चाहिए। यहाँ उनसे छ. हजार रुपया मैंने जवर्दस्ती वसूल

किया है। और राय बाबू ने ही उन्हें इन रुपयों की मदद दी है। उस ऋण का परिशोध हमें करना ही होगा। अब इस अप्रिय आलोचना की आवश्यकता नहीं निर्मल बाबू, मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया है।”

इन छ हजार रुपयों का इशारा निर्मल की समझ में नहीं आया, परन्तु इतना उन्होंने अवश्य समझ लिया कि उनके ससुर ने अपने को बहुत से झगड़ों में फँसा लिया है, जिनसे उन्हें साफ बचा लेना सहज नहीं है। उन्होंने अन्तिम बार चेष्टा करते हुए कहा—अपना बचाव करने का अधिकार तो सभी को है, अतः उन्हें भी करना ही होगा। आप स्वयं जर्मींदार हैं। आपको मुक़दमे का विवरण सुनाना निरर्थक है, अन्त तक शायद विप से ही विप का इलाज करना पड़े।

जीवानन्द ने मुस्कराकर कहा—तो क्या ब्रैच अब जाल-सार्जी करने के अपराध में हत्या की व्यवस्था देंगे ?

निर्मल के चेहरे पर सुर्खी छा गई। वे बोले—आपको मालूम है कि कभी-कभी दवा का नाम बताने से मरीज को लाभ नहीं होता। जो हो, आप जर्मींदार हैं, ब्राह्मण हैं और उम्र में भी बड़े हैं। आपको मैं कड़ी बात कहना नहीं चाहता और यह सुनने का भी मुझे कौतूहल नहीं है कि अकस्मात् किस कारण से आपको धर्मज्ञान ने इतना प्रगल्भ रूप धारण कर लिया। परन्तु एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ

कि यह भाव आपका स्वाभाविक नहीं है। गवर्नमेट अगर गिरफ्तार कर ले तो जेलखाने में किसी रोज यह आपकी समझ में आ जायगा। आप सॉप को रस्सी समझ रहे हैं।

जीवानन्द ने कहा—आपकी यह बात सच है, परन्तु जब तक भ्रम है तब तक मेरे लिए रस्सी ही सत्य है।

निर्मल ने कहा—उससे मौत नहीं टलेगी। और भी एक सत्य बात मैं आपसे कहे जाता हूँ कि इस प्रकार का गन्दा काम करना मेरा पेशा नहीं है। आपसे मैं बहुत ही घृणा रखता हूँ, और एक पापिष्ठ के लिए दूसरे पापिष्ठ की खुशामद करने में मुझे लज्जा मालूम होती है। परन्तु आप उसे नहीं समझेंगे—वह शक्ति ही आपमें नहीं है।

जीवानन्द को चेहरे पर कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, जरा सी उत्तेजना भी नहीं। उसी तरह शान्त भाव से उन्होंने कहा—“परन्तु आपसे मैं घृणा नहीं रखता बल्कि मैं तो आपमें श्रद्धा रखता हूँ। यह समझने की शक्ति भी आपमें नहीं है।” उनके इस निर्विकार भाव से निर्मल जल भुन रहे थे। इस जवाब को ओछी दिखती समझकर उन्होंने खूबे खर से कहा—“चोर-डाकूओं में भी विश्वास नाम की कोई चीज होती है, वे भी उसे आपसे में नहीं तोड़ते। विश्वासघाती से वे घृणा करते हैं। परन्तु जिन्दगी भर लगातार दुराचरण करते-करते जिसकी बुद्धि विकृत हो गई हो, उससे सवाल-जवाब करना व्यर्थ है। मैं जाता हूँ।” अब वे पलक मारते ही पीछे

घूमकर तेजी के साथ चल पड़े। जीवानन्द ने देखा कि बहुत से मजदूर लोग हाथ का काम छोड़कर अचम्भे के साथ देख रहे हैं। उन्होंने जरा झुन झुंसी हँसकर कहा—भइया, जितना समय तुम लोगों ने व्यर्थ नष्ट कर दिया उसे पूरा कर लेना होगा।

यह बात निर्मल के कानों में भी पहुँची।

तीन-चार दिन के भीतर किसानों का मुहत का दुख दूर होकर पानी के निकास के लिए पुल बनकर तैयार हो गया। आसपास के गाँवों से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। परन्तु जिन्होंने इसे बनवाया वही जीवानन्द बीमार पड़ गये। इतना परिश्रम उनसे सहा नहीं गया। इस बहाने से श्रीर साहब से मिलकर दूसरे उपायो से तहकीकात के दिन को निर्मल एक हफ्ता हटा देने में समर्थ हुए। परन्तु वह दिन भी अब आना ही चाहता है। दो ही दिन रह गये हैं। बचने का एक ही उपाय था। उसी का आश्रय लेकर जनार्दन ने तारादास के द्वारा चण्डी की विशेष पूजा का प्रबन्ध कर दिया और स्वयं भी मन्दिर के एक कोने में बैठकर शाम-सवेरे देवी से यही प्रार्थना करने लगे कि 'अबकी बार जीवानन्द चङ्गा न हो, साहब के आने के पहले ही इसे कुछ हो जाय।' अपनी लड़की के साथ जाकर पोढशी के पैरों पर जा पड़ने की बात भी एक बार मन में आई थी, क्योंकि छोटे आदमियों को वही रोक सकती है। परन्तु वह अय है कहाँ? जो गाड़ीवान उसे पहुँचा आया था उसका पता,

बहुत चेष्टा करने पर भी, नहीं मिला। सात दिन का समय पाकर हैम को पक्का भरोसा हो गया था कि लडके को साथ लेकर अगर वह पोडशी के पास जाकर रोने लगेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगी। परन्तु अब वह आशा भी नहीं है। इन दिनों प्रायः रोज ही निर्मल को जिले में जाना पड़ता था। यह जो भद्दा मुकद्दमा छिड़नेवाला है, उसके सभी छंश को पहले से ही बन्द कर देना आवश्यक है। उस दिन दोपहर को वे रजिस्ट्री आफिस के बरामदे में एक ओर बेंच पर बैठे कई जरूरी दस्तावेजों की नक़ल पढ़ रहे थे। अचानक सामने सुनाई पड़ा—जमाई वावू, सलाम। खैरियत तो है ?

निर्मल ने चौंककर, मुँह उठाकर, देखा कि सामने फकीर साहब हैं। उनके भी हाथ में बहुत से कागजात हैं। उन्होंने भट उठकर सलाम करते हुए उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और पास बिठाकर कहा—सुना है कि याद करने से ही आपके दर्शन मिलते हैं। इधर कई दिनों से मैं आपको हृदय से, बड़े आप्रह के साथ, याद कर रहा था।

फकीर साहब हँस पड़े, बोले—भला बताइए तो, किसलिए ?

“पोडशी की मुझे बड़ी जरूरत है। वे जहाँ ही वहाँ जाकर मुझे उनसे भेंट करनी होगी।”

फकीर साहब विस्मित नहीं हुए। उन्होंने आनन्द भी प्रकट नहीं किया। कहा—“भेंट न होना ही तो अच्छा है।” निर्मल

लज्जित हुए, बोले—आप शायद सर्वज्ञ हैं। अगर ऐसा ही है तो आप जानते ही हैं कि हमारा कितना बड़ा प्रयोजन है।

फकीर साहब ने कहा—“नहीं, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, परन्तु माँ षोडशी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती हैं।” जरा रुककर फिर कहा—भेंट होने न होने की बात वही कह सकती हैं, मुझे नहीं मालूम। परन्तु उनकी सब खबर आपको बतलाने में मुझे कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि एक दिन जब सभी लोग उनका सर्वनाश करने को तैयार हो गये थे, उस दिन अकेले आप हो उन्हें बचाने के लिए खड़े हुए थे। मैंने उन्हीं से यह बात सुनी है।

निर्मल ने कहा—श्रीर आज वही मामला पलटा खा गया है फकीर साहब। अब अगर उन लोगों को फोर्ड बचा सकता है तो षोडशी ही।

फकीर का चेहरा अप्रसन्न हो उठा। इसका विस्तृत विवरण जानने के लिए उन्होंने कौतूहल प्रकट न कर इतना ही कहा—चण्डीगढ़ की खबर मैं नहीं जानता। परन्तु मेरा कहना है कि उनकी भलाई करने का भार आप ईश्वर को सौंप दीजिए। मेरी माँ को फिर इसमें न घसीटिए निर्मल बाबू।

पिछले दिनों का सारा इतिहास निर्मल को याद आ गया। इसका जवाब देना कठिन है। उन्होंने कुण्ठित होकर पूछा—तो अब वे कहाँ हैं ?

“उस जगह को शैवालदीयो कहते हैं।”

लेन-देन

“क्या वहाँ वे सुख से हैं ?”

अबकी फकीर साहब ने जरा हँसकर कहा—
लीजिए। स्त्रियों के सुख से रहने की खबर देवता भी
जानते, फिर मैं तो फकीर हूँ। तो भी इतना कह सकत
कि माँ मेरी शान्ति से हैं।

निर्मल ने चण भर चुप रहकर पूछा—अदालत में
कहाँ आये थे ?

फकीर ने कहा—यह ठीक है, साधुओं-फकीरों के
यह स्थान निषिद्ध होना ही चाहिए। परन्तु ससार का
तो मनुष्य को जल्दी नहीं छोड़ता बेटा, इसलिए बुढ़ीती
फिर मुझे जमोन-जायदाद के झूट में फँसना पडा।
याद आई, मुझ में आपके ऐसा कानूनदाँ भी नहीं मिल
और सिर्फ आपसे ही यह कहा भी जा सकता है। मेरे
कागजों को आप जरा देख दें।

निर्मल ने हाथ फैलाकर कहा—किस विषय
कागजात है ?

“एक दानपत्र का मसौदा है।” कहकर फकीर ने काग
का वण्डल निर्मल के हाथ में दे दिया। दूसरे का क
करने का अवकाश या इच्छा निर्मल को नहीं थी। उन्हें
उदास भाव से उसे ले लिया। वे धीरे धीरे उसे खोलक
पढ़ने लगे। परन्तु कई पक्तियाँ पढ़कर ही उनकी दृष्टि ती
हो गई, मुख गम्भीर हो गया और ललाट सिकुड उठा। इ

दान की सम्पत्ति भामूली नहीं है, कई सफ़्हीं तक उसका व्योरा है। उन पर से किसी तरह नजर घुमाकर, अन्त में, आखिरी पन्ने में जब जीवानन्द की उम चिट्ठा पर उनकी दृष्टि पड़ी तब उन पक्तियों का लेख दम भर में पढ़कर निर्मल स्तब्ध हो गये। फकीर साहब उनके चेहरे का उतार-चढ़ाव देख रहे थे, बोले—ससार में बहुत सी आश्चर्य की बातें हैं।

निर्मल के मुँह से गहरी साँस निकल पड़ी। उन्होंने सिर हिलाकर सिर्फ “हाँ” कहा।

फकीर ने कहा—मसौदा ठीक है न ?

निर्मल ने कहा—ठीक है। परन्तु इसकी सचाई का प्रमाण क्या है ?

फकीर ने कहा—“वात सच न होती तो यह दान पोडशी प्रहण नहीं करती। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है निर्मल बाबू।” अब वे उत्सुक दृष्टि से देखने लगे, परन्तु कुछ जवाब नहीं मिला। निर्मल की दृष्टि वैसी ही उदास और ललाट की सिक्कड़न वैसी ही बनी रहो। फकीर साहब शायद अनुमान भी नहीं कर सके कि निर्मल का मन कहाँ चला गया था।

२८

अचानक कई दिन तक लगातार पानी बरसने से ससार का सारा काम-काज बन्द हो गया, यहाँ तक कि अशुभ-गति मैजिस्ट्रेट साहब भी अपने तहकोकात के पट्टियों को डफेल-

कर नहीं ला सके। परन्तु उनका हुक्म था कि पानी जरा रुक जाने से ही वे चण्डीगढ में पधारेंगे और उस हुक्म की तामील का दिन आज है। खबर आई है कि गाँव के बाहर बारूई नदी के किनारे उनका तम्बू खडा किया गया है। मुर्गी, अण्डा, दूध, घो वगैरह जुटाने में एककौड़ी जी-जान से लग गया है। बहुत सम्भव है कि दोपहर के पहले ही उनके घोडे की टापों की आहट सुनाई दे।

रात के पिछले पहर से ही पानी रुक गया, परन्तु आकाश का रंग नहीं बदला। यह मूर्ति देखकर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि दुर्योग बन्द हो गया अथवा घटा चारा और से फिर उमड आवेगी। मकान के जल जाने के बाद बाहर की ओर दुतल्ले के जिन दो कमरों में जीवानन्द ने आश्रय लिया था, उन्हीं के धरामदे में खटिया पर वे सुबह से पडे बारूई की तरफ एकटक देख रहे थे। पहाड से गँदला पानी उतर आने से नदी का वह शीर्ण रूप अब नहीं है, प्रबल स्रोत दोनों ओर के तटों पर धका मारता हुआ तेजी से वह रहा है। जीवानन्द न जाने क्या क्या सोच रहे थे। दुखार और उनका सदा का सहचर शूल का दर्द घट गया था सही परन्तु बिलकुल अच्छा नहीं हुआ था। अब भी वे बिछौने पर पडे हैं, चल-फिर नहीं सकते। मैजिस्ट्रेट साहब के पहुँचने की खबर पाने पर वे पालकी से जाकर स्वयं उनसे मिलेंगे, भूठ कुछ भी न कहेंगे—यह निश्चय उन्होंने उसी प्रकार कर लिया

था जिस प्रकार कि उन्होंने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया था। जैसे उन्होंने सङ्कल्प कर लिया था कि जिन्दगी भर में किसी को दुःख नहीं दूँगा वैसे ही यह निश्चय भी उन्होंने कर लिया था। परन्तु वास्तव में उन्हें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत या कोई अभियोग नहीं था। जीवानन्द मन ही मन यही विचार रहे थे कि अपराध तो मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य के लिए ही तो अपराध की सृष्टि हुई है, इसलिए मेरी गवाही से मेरे सिवा और किसी की हानि होगी, यह सोचने से ही सचमुच दुःख होता है। किस तरह कहने से औरों की कुछ हानि न हो, इसी बात की जीवानन्द तरह-तरह से आलोचना कर रहे थे, परन्तु किसी बात को अन्त तक सुश्रद्धालु के साथ विचारने की हालत उनकी नहीं थी। इसलिए एक ही प्रश्न घूम-फिरकर एक ही उत्तर लेकर बार-बार उनके सामने आ रहा था और इस प्रकार की चिन्ता से जब वे हैरान हो उठे इसी समय एक नई चीज पर एकाएक उनकी दृष्टि और मन जाकर टिका। एक छोटी सी नाव बहाव के साथ बड़ी तेजी से बही आ रही थी। उनके मकान के पास आते ही मल्लाह ने तीर पर लङ्गर डालकर उसकी गति रोक दी। इस नदी में नाव बहुत कम चलती है। साल के अधिकांश समय में पानी बहुत कम रहता है, इसलिए ही नहीं, बल्कि बरसात में तेज बहाव के कारण भी नाव चलाना कठिन था। खासकर उन्हीं के मकान के पास आकर जब

कर नहीं ला सके। परन्तु उनका हुक्म था कि पानी जरा रुक जाने से ही वे चण्डीगढ़ में पधारेंगे और उस हुक्म की तामील का दिन आज है। स़ब्र आई है कि गाँव के बाहर वारुई नदी के किनारे उनका तम्बू खड़ा किया गया है। मुर्गी, अण्डा, दूध, घो वगैरह जुटाने में एककौड़ी जी-जान से लग गया है। बहुत सम्भव है कि दोपहर के पहले ही उनके घोड़े की टापों की आहट सुनाई दे।

रात के पिछले पहर से ही पानी रुक गया, परन्तु आकाश का रंग नहीं बदला। यह मूर्ति देखकर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि दुर्योग बन्द हो गया अथवा घटा चारों ओर से फिर उमड़ आवेगी। मकान के जल जाने के बाद बाहर की ओर दुतल्ले के जिन दो कमरों में जीवानन्द ने आश्रय लिया था, उन्हीं के घरामदे में खटिया पर वे सुबह से पड़े वारुई की तरफ एकटक देख रहे थे। पहाड से गँदला पानी उतर आने से नदी का वह शीर्ण रूप अब नहीं है, प्रबल स्रोत दोनों ओर के तटों पर धक्का मारता हुआ तेजी से बह रहा है। जीवानन्द न जाने क्या क्या सोच रहे थे। बुझार और उनका सदा का सहचर शूल का दर्द घट गया था सही परन्तु विलकुल अच्छा नहीं हुआ था। अब भी वे बिछौने पर पड़े हैं, चल-फिर नहीं सकते। मैजिस्ट्रेट साहब के पहुँचने की खबर पाने पर वे पालकी से जाकर स्वयं उनसे मिलेंगे, भूठ कुछ भी न कहेंगे—यह निश्चय उन्होंने उसी प्रकार कर लिया

था जिस प्रकार कि उन्होंने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया था। जैसे उन्होंने सङ्कल्प कर लिया था कि जिन्दगी भर में किसी को दुःख नहीं दूँगा वैसे ही यह निश्चय भी उन्होंने कर लिया था। परन्तु वास्तव में उन्हें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत या कोई अभियोग नहीं था। जीवानन्द मन ही मन यही विचार रहे थे कि अपराध तो मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य के लिए ही तो अपराध की सृष्टि हुई है, इसलिए मेरी गवाही से मेरे सिवा और किसी की हानि होगी, यह सोचने से ही सचमुच दुःख होता है। किस तरह कहने से औरों की कुछ हानि न हो, इसी बात की जीवानन्द तरह-तरह से आलोचना कर रहे थे, परन्तु किसी बात को अन्त तक सुश्रद्धला के साथ विचारने की हालत उनकी नहीं थी। इसलिए एक ही प्रश्न घूम-फिरकर एक ही उत्तर लेकर बार-बार उनके सामने आ रहा था और इस प्रकार की चिन्ता से जब वे हैरान हो उठे इसी समय एक नई चीज पर एकाएक उनकी दृष्टि और मन जाकर टिका। एक छोटी सी नाव बहाव के साथ बड़ी तेजी से बही आ रही थी। उनके मकान के पास आते ही मल्लाह ने तीर पर लङ्गर डालकर उसकी गति रोक दी। इस नदी में नाव बहुत कम चलती है। साल के अधिकांश समय में पानी बहुत कम रहता है, इसलिए ही नहीं, बल्कि बरसात में तेज बहाव के कारण भी नाव चलाना कठिन था। खासकर उन्हीं के मकान के पास आकर

यह नाव इस तरह रुक गई तब कौतूहल के कारण तकिया टेककर वे जरा सीधे हो बैठे। उन्होंने देखा कि दो आदमी और तीन स्त्रियाँ उतरकर आ रही हैं। पेड़ों की छाड़ में से उन लोगो के स्पष्ट दिखाई न देने पर भी एक आदमी को जीवानन्द ने पहचान लिया, वह है जनार्दन राय। प्रौढा स्त्री शायद उनकी धर्मपत्नी और दूसरी उनकी कन्या होगी। शायद कहीं गये थे। मैजिस्ट्रेट के आने की खबर पाकर जल्दी-जल्दी लौट आये हैं। सिर्फ एक बात उनकी समझ में नहीं आई कि अपना घाट छोड़कर इतनी दूर पर नाव बाँधने की क्या जरूरत थी। शायद वहाँ सुभीता न था, शायद भूल हुई है, शायद वे मैजिस्ट्रेट की नजर से बचना चाहते थे। जो हो, ये लोग जब राय बाबू और उनकी स्त्री तथा कन्या हैं तब व्यर्थ बैठे रहने का कष्ट न कर जीवानन्द लौट गये। आँसू मूँदे हुए वे मन ही मन हँसकर बोले—अपराध की सजा देने का अधिकार क्या केवल अदालत को ही है? इस आदमी को शायद मैजिस्ट्रेट साहब ने कभी देखा भी न होगा। देखने पर भी शायद पहचान न सकते, तो भी इनकी शक्का और सावधानी को सीमा नहीं है। स्त्री और कन्या के सामने ऐसी भीरुता की लज्जा ही क्या सजा से कम दण्ड है?

एकाएक सिरहाने किसी व्यक्ति के बैठ जाने पर खटिया की मचमचाहट से वे चौंक उठे और बोले—“कौन है?” बरामदे में किसी के घुसने की आहट भी उनको नहीं मिली थी।

जो बैठी थी उसने जीवानन्द के ललाट पर हाथ रखकर कहा—मैं हूँ ।

जीवानन्द अपना हाथ बढाकर और उसके हाथ को अपने दुबले हाथ से पकड़कर देर तक चुपचाप पडे रहे । इसके बाद धीरे धीरे पूछा—क्या तुम इसी नाव पर आई हो ?

“हाँ ।”

“राय बाबू तुम्हें पकड़ लाये हैं । उन्हें बचाना होगा ?”

“हाँ । परन्तु हैम को पिता को बचाना है, जनार्दन राय को नहीं ।”

“मैं समझ गया । परन्तु किसान लोग मुकदमा क्यों दिसमिस करावेंगे ? सागर क्यों मानेगा ?”

“मेरे सामने उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है ।”

“स्वीकार कर लिया है ? आश्चर्य है ।” यह कहकर वे चुप हो गये ।

षोडशो ने कहा—नहीं, आश्चर्य नहीं है । वे लोग मुझे माँ जो कहते हैं ।

“मुझे मानूम है ।” जीवानन्द को हाथ की मुट्टी ढीली हो गई । कुछ देर स्थिर रहकर धीरे-धीरे उन्होंने कहा—अच्छा ही हुआ । आज सवेर से मैं सोच रहा था अलका, श्वना घडा कठिन काम मैं कैसे करूँगा ? मैं बच गया । मुझे अब कुछ करने को नहीं रहा, तुमने सब कुछ कर दिया ।

पोडशी ने सिर हिलाकर कहा—“तुम्हारे करने को कुछ काम न रहा होगा परन्तु मेरा काम तो अभी बचकी ही है।” अब जीवानन्द का जो हाथ बिछौने पर लटक मड़ा था उसे अपनी मुट्टी के भीतर लेकर और उनके कानों के पास मुँह लाकर बोली—“मेरी नाव तैयार है, किसी तरह तुम्हें लेकर भाग सकूँ तो मेरा सबसे बड़ा काम पूरा हो जाय। चलो।” पोडशी ने झुककर जीवानन्द की छाती पर अपना सिर रख लिया। वह चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल एक की छाती की धड़कन को दूसरी ध्यान से सुनने लगी।

जीवानन्द ने पूछा—मुझे कहाँ ले चलोगो ?

पोडशी ने कहा—जहाँ मेरी आँखें ले चले।

‘कब चलना पड़ेगा ?’

“अभी। साहब के आने के पहले ही।”

जीवानन्द ने उसके मुँह पर दृष्टि जमाकर धीरे-धीरे कहा—परन्तु मेरे किसान लोग ? उन लोगों से हमारी वश-परम्परा ने जो ऋण ले रक्खा है उसे तो—?

उनकी दृष्टि की ओट में मुँह करके पोडशी धीरे-धीरे बोली—वश-परम्परा से ही हमें उसे चुकाना होगा।

जीवानन्द ने खुश होकर कहा—ठीक बात है अलका। परन्तु विलम्ब करने से तो नहीं चलेगा। अभी से हम दोनों को यह भार सिर पर उठा लेना होगा।

पोडशी एकाएक हाथ जोड़कर बोली—हुजूर, दासी को यही भिन्ना दीजिए कि प्रजा का भार सँभालने की चेष्टा करके आप अपने को जजाल में न फँसावे। जीवन भर तो आप तरह तरह के भार उठाते आये हैं, इस बीमारी की हालत में कुछ दिन आराम करने से कोई निन्दा नहीं करेगा। परन्तु के० साहब आ सकते हैं, चलिए।

जीवानन्द तनिक मुसकुराकर उसके हाथ के सहारे उठ बैठे। कहा—तुम इस तरह मेरा सारा अधिकार छीन मत लेना अलका। मुझे दुरियों के काम में लगाकर देखना, कभी तुम्हें धोखा नहीं होगा।

यह बात सुनकर उसकी आँखें भर आईं। इस प्रकार आत्मसमर्पण करके जिसने उसका सारा हृदय जीत लिया है उसकी ओर देखते ही अकस्मात् उसके पैरों के नीचे की धरती तरु काँप उठी। परन्तु अपने को वह उसी दम सँभालकर उनके हाथ को जरा सा दबाते हुए हँसकर बोली—अच्छा तो अब चलो। नाव पर बैठे बैठे एकान्त में सोचकर देखूँगी कि कौन-कौन सा अधिकार तुम्हें दिया जा सकेगा और कौन-कौन सा निलकुल नहीं।

“अच्छी बात है” कहकर जीवानन्द पोडशी का हाथ पकड़कर आगे बढ़े।

